



वर्ष-28 अंक : 293 (हैदराबाद, निजामाबाद, विशाखापट्टणम, तिरुपति से प्रकाशित) पौष कृ.14 2080 बुधवार, 10 जनवरी-2024

THE LARGEST CIRCULATED AND READ HINDI DAILY IN TELANGANA & ANDHRA PRADESH

स्वतंत्र वार्ता



epaper.vaartha.com



प्रधान संपादक - डॉ. गिरीश कुमार संधी हैदराबाद नगर पृष्ठ : 16 मूल्य : 8 रुपये

पीएम ने किया ग्लोबल ट्रेड शो का उद्घाटन 26 खिलाड़ियों को अर्जुन 5 कोच को द्रोणाचार्य पुरस्कार

नई दिल्ली, 9 जनवरी (एजेंसियां)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल ट्रेड शो का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री वाइब्रेंट गुजरात शिखर सम्मेलन और उससे जुड़े कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए अपने गृह राज्य के दो दिवसीय दौरे पर हैं।

दुनिया के सबसे बड़े ट्रेड शो में से एक वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल ट्रेड शो में कई उद्योगों और व्यावसायिक क्षेत्रों को एक छतरी के नीचे प्रदर्शित किया जाएगा। अपार व्यावसायिक संभावनाओं के साथ नेटवर्किंग और ज्ञान साझा करने का यह मंच लाखों अवसर पैदा करेगा। इस कार्यक्रम का उद्घाटन 9 जनवरी, 2024 को गया और यह 13 जनवरी, 2024 तक जारी रहेगा। प्रधानमंत्री बुधवार को गांधीनगर के महात्मा मंदिर में वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट

अपार व्यावसायिक संभावनाओं का खुलेगा द्वार



2024 का उद्घाटन करेंगे। इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। इसके बाद वह शीर्ष वैश्विक कंपनियों के साथ बैठक करेंगे। इसके बाद

प्रधानमंत्री गिफ्ट सिटी जाएंगे, जहां वह ग्लोबल फिन्टेक लीडरशिप

फोरम में प्रमुख उद्योगपतियों के साथ बातचीत करेंगे। वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन 2003 में मोदी के नेतृत्व में शुरू हुआ था जब वह राज्य के मुख्यमंत्री थे।

वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट का दसवां संस्करण गांधीनगर में 10 से 12 जनवरी 2024 तक आयोजित किया जा रहा है। इसकी थीम 'गेटवे टू द फ्यूचर' है। शिखर सम्मेलन का यह दसवां संस्करण वाइब्रेंट गुजरात के 20 वर्षों की सफलता के शिखर सम्मेलन के रूप में मनाएगा। इस वर्ष के शिखर सम्मेलन के लिए 34 भागीदार देश और 16 भागीदार संगठन हैं। इसके अलावा, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय पूर्वोत्तर क्षेत्रों में निवेश के अवसरों को प्रदर्शित करने के लिए वाइब्रेंट गुजरात मंच का उपयोग करेगा। >14

नई दिल्ली, 9 जनवरी (एजेंसियां)। राष्ट्रपति भवन में मंगलवार 9 जनवरी को राष्ट्रीय खेल पुरस्कार दिए गए। इसमें 5 कोच को द्रोणाचार्य तो 26 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार दिया गया। 3 लोगों को लाइफ टाइम सम्मान से नवाजा गया।

सबसे पहले कोच को द्रोणाचार्य, फिर लाइफ टाइम और इसके बाद खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड दिया गया। क्रिकेट वनडे वर्ल्ड कप में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले फास्ट बॉलर मोहम्मद शमी को अर्जुन पुरस्कार दिया गया। यह जोड़ी फिलहाल मलेशिया ओपन सुपर 1000 में



खेल रही है, इसलिए सेरेमनी में शामिल नहीं हुई।

शमी ने वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा विकेट लिए : अर्जुन अवार्ड विनर्स में 33

साल के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने वनडे वर्ल्ड कप में शानदार प्रदर्शन किया था। जहां भारत फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से हारकर उपविजेता रहा। >14

अरब सागर में पहुंचे भारत के 10 युद्धपोत

नई दिल्ली, 9 जनवरी (एजेंसियां)। भारत ने अरब सागर में समुद्री निगरानी बढ़ा दी है। भारतीय नौसेना ने समुद्री डाकूओं और अपहरण की घटनाओं को देखते हुए यहां 10 युद्धपोत तैनात किए हैं। नौसेना ने 10 दिनों के भीतर यहां युद्धपोतों की संख्या दोगुनी कर दी है। वॉरशिप पर नेवी के हेलीकॉप्टर भी तैनात किए गए हैं।

अरब सागर में समुद्री डाकूओं द्वारा किए गए हाल के हमलों को ध्यान में रखते हुए, बीते दिनों भारतीय नौसेना ने यहां गाइडेड मिसाइल विध्वंसक आईएनएस मोरमुगाओ, आईएनएस कोच्चि और आईएनएस कोलकाता (गाइडेड मिसाइल विध्वंसक) तैनात किए थे। भारत के इस कदम के बाद अब पाकिस्तान ने भी अरब सागर में अपने युद्धपोत तैनात किए हैं। पाकिस्तानी नौसेना का कहना है अरब सागर में हालिया घटनाओं के बाद पाकिस्तान ने ये युद्धपोत तैनात किए हैं। पाकिस्तान का कहना है उसने अपने समुद्री व्यापारिक मार्गों की सुरक्षा नौसेना के लिए

अरब सागर में गरत शुरू की है। दरअसल हाल ही में हूती विद्रोहियों ने पाकिस्तान जाने वाले एक मालवाहक समुद्री जहाज पर मिसाइल से हमला किया था। इस समुद्री जहाज की कंपनी का कहना था कि किंग अब्दुल्ला पोर्ट, सऊदी अरब से कराची के रास्ते में उसके जहाज पर हुए हमला हुआ था। हालांकि इस हमले में जहाज या उस पर सवार किसी व्यक्ति को क्षति नहीं पहुंची।

वहीं बीते सप्ताह समुद्री डाकूओं ने लाइबेरिया के ध्वज वाले बल्क कैरियर 'एमवी लीला नॉर्फॉक' को हाइजैक करने की कोशिश की थी। हालांकि भारतीय नौसेना के पहुंचने पर समुद्री डाकू रात के अंधेरे में भाग खड़े हुए। नेवी ने यहां 15 भारतीय समेत विमान में सवार सभी 21 क्रू मेंबर को सुरक्षित निकाला था। गौरतलब है कि ऐसी वारदातों के मध्य नजर भारतीय नौसेना ने उत्तर, मध्य अरब सागर और अदन की खाड़ी में निगरानी बढ़ा दी है।

मालदीव से जारी विवाद के बीच सरकार का बड़ा फैसला

लक्षद्वीप में नया एयरपोर्ट बनाने की तैयारी

नई दिल्ली, 9 जनवरी (एजेंसियां)। मालदीव के साथ ट्रांसपोर्ट विमान और फाइटर जेट्स भी संचालित हो सकेंगे और यह एक संयुक्त एयरफील्ड होगा। सरकार ने पहले भी मिनिर्काय द्वीप पर नया एयरपोर्ट बनाने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन अब इस प्रस्ताव में बदलाव कर इसे संयुक्त एयरफील्ड के रूप में विकसित करने की तैयारी है। सैन्य दृष्टि से नए एयरपोर्ट के बनने से भारत को अरब सागर और हिंद महासागर में निगरानी करने में रणनीतिक रूप से

सुझों ने बताया कि नए एयरपोर्ट पर नागरिक विमानों के साथ ही सैन्य ट्रांसपोर्ट विमान और फाइटर जेट्स भी संचालित हो सकेंगे और यह एक संयुक्त एयरफील्ड होगा। सरकार ने पहले भी मिनिर्काय द्वीप पर नया एयरपोर्ट बनाने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन अब इस प्रस्ताव में बदलाव कर इसे संयुक्त एयरफील्ड के रूप में विकसित करने की तैयारी है। सैन्य दृष्टि से नए एयरपोर्ट के बनने से भारत को अरब सागर और हिंद महासागर में निगरानी करने में रणनीतिक रूप से

काफी मदद मिलेगी। भारतीय तटरक्षक बल ने पहले सरकार को मिनिर्काय द्वीप पर हवाई पट्टी बनाने का सुझाव दिया था, लेकिन अब ताजा प्रस्ताव में भारतीय वायुसेना को यहां प्रमुख तौर पर संचालन दिया जाएगा।

मिनिर्काय में एयरपोर्ट बनने से लक्षद्वीप में पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। अभी लक्षद्वीप के अग्राणी द्वीप पर हवाई पट्टी मौजूद है, लेकिन उस पट्टी पर सभी तरह के विमानों का संचालन नहीं हो सकता।

राष्ट्रपति मुइज्जू के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की मांग

नई दिल्ली/माले, 9 जनवरी (एजेंसियां)। भारत से विवाद होने के बाद मालदीव में राष्ट्रपति मुइज्जू के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की मांग उठने लगी है। मालदीव की विपक्षी पार्टी (मालदीव डेमोक्रेटिक पार्टी) के नेता अली अजीम ने कहा है कि हमें देश की फॉरेन पॉलिसी को मजबूत बनाए रखना है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि हमें पड़ोसी देशों को खुद से अलग-थलग पड़ने से बचना है। इसके बाद उन्होंने अपनी पार्टी से पूछा है कि क्यों वो मुइज्जू को हटाने के लिए तैयार हैं। उन्होंने आगे पूछा, क्या मालदीव डेमोक्रेटिक पार्टी मुइज्जू के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगी? दूसरी तरफ, मालदीव के पूर्व खेल मंत्री अहमद महलुफ ने कहा है कि भारत के बायकोट का मालदीव की अर्थव्यवस्था पर गहरा असर पड़ेगा। >14

हफ्ते में दो बार ही दोस्त, रिश्तेदार व सलाहकारों से मिल सकेंगे कैदी हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने ठहराया सही

नई दिल्ली, 9 जनवरी (एजेंसियां)। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली उच्च न्यायालय के उस आदेश को बरकरार रखा, जिसमें जेलों में निरुद्ध विचाराधीन कैदी सप्ताह में दो बार ही अपने दोस्त, रिश्तेदार या फिर कानूनी सलाहकारों से मिल सकेंगे। शीर्ष अदालत ने कहा कि विचाराधीन कैदियों और कैदियों की संख्या को ध्यान में रखते हुए जेल में कैदियों के परिवार के सदस्यों, रिश्तेदारों, दोस्तों और कानूनी सलाहकारों द्वारा सप्ताह में दो बार मिलने की संख्या को सीमित करने का फैसला लिया गया है, जिसे पूरी तरह से ममाना नहीं कहा जा सकता है।

न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी और न्यायमूर्ति पंकज मिथल की पीठ ने कहा कि वह दिल्ली उच्च न्यायालय



के आदेश में हस्तक्षेप नहीं करना चाहते हैं क्योंकि यह एक नीतिगत फैसला है। गौरतलब है, पिछले साल 16 फरवरी को दिल्ली सरकार के निर्णय को उच्च न्यायालय ने सही ठहराया था। न्यायालय ने कहा था कि सप्ताह में दो बार मिलने की संख्या को सीमित करने का फैसला सही है। इसे बदला जाना उचित नहीं है। मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की खंडपीठ ने कहा था कि जेलों में उपलब्ध सुविधाओं, कर्मचारियों

की उपलब्धता और विचाराधीन कैदियों की संख्या पर सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद निर्णय लिया गया है। अदालत ने दिल्ली जेल

नियम, 2018 के नियम 585 को चुनौती देने वाले दो अधिवक्ताओं द्वारा दायर एक जनहित याचिका को निपटारा करते हुए यह फैसला सुनाया गया था। नियम 585 में कहा गया है कि प्रत्येक कैदी को अपनी की तैयारी करने, जमानत प्राप्त करने या अपनी संपत्ति और पारिवारिक मामलों के प्रबंधन की व्यवस्था करने के लिए अपने

परिवार के सदस्यों, रिश्तेदारों, दोस्तों और कानूनी सलाहकारों से मिलने या संपर्क करने के लिए उचित सुविधाएं दी जाएंगी। वकील जय अनंत देहादई की याचिका में नियमों में संशोधन की मांग की गई थी। उन्होंने अंतरिम तौर पर अनुरोध किया था कि कानूनी वकील किसी भी दो बार से अधिक दिल्ली की जेलों में अपने मुवक्किलों से मिलने जा सकें।

याचिकाकर्ताओं ने कहा कि संख्या को सप्ताह में दो बार तक सीमित करना भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है। दूसरी ओर, दिल्ली सरकार ने अपने जवाब में कहा था कि मिलने वालों की संख्या को सीमित करने का निर्णय राष्ट्रीय राजधानी की जेलों में कैदियों की संख्या को देखते हुए लिया गया है।

राष्ट्र की सेवा के लिए जुनून होना चाहिए : थल सेना प्रमुख मनोज पांडे

नई दिल्ली, 9 जनवरी (एजेंसियां)। थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने दिल्ली में एनसीसी गणतंत्र दिवस परेड शिबिर का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने परेड ग्राउंड में कैडेट्स के साथ बातचीत की है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सशस्त्र बल ही एक ही वह एकमात्र क्षेत्र नहीं है, जिसके द्वारा आप राष्ट्र की सेवा कर सकते हैं। अपने देश के प्रति अपने प्यार को अपने प्रकाश स्तंभ के रूप में रखना याद रखें। अच्छे नागरिकों के रूप में हम सभी में अटूट प्रतिबद्धता, समर्पण की भावना होनी चाहिए। एनसीसी कैडेट्स को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि उस भूमि के प्रति अटूट जुनून होना चाहिए, जिसमें हमें पाला पोसा है।

कर्नाटक में उपमुख्यमंत्री मंत्री पद का कोई प्रस्ताव नहीं : खड़गे

कलबुर्गी (कर्नाटक), 9 जनवरी (एजेंसियां)। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मंगलवार को कहा कि कर्नाटक में कोई और उपमुख्यमंत्री पद नहीं होगा। इस संबंध में हाईकमान से पहले कोई प्रस्ताव नहीं था। कांग्रेस अध्यक्ष ने कर्नाटक में कुछ पार्टी नेताओं की मांगों पर यह प्रतिक्रिया दी। ये नेता अधिक उपमुख्यमंत्री पदों की मांग कर रहे थे। कलबुर्गी में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हाईकमान से पहले तीन उपमुख्यमंत्री पदों के लिए कोई प्रस्ताव नहीं था। मीडिया इस संबंध में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उपमुख्यमंत्री डी.के. शिव कुमार से पूछ सकती है। उन्होंने आगे कहा कि कर्नाटक में ज्यादा उपमुख्यमंत्री पदों के लिए घटनाक्रम सिर्फ एक अटकल है। ध्यान शासन और समस्याओं को हल करने पर होना चाहिए। गारंटी योजनाओं को लागू करने पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने आगे कहा, 10



जनवरी को कर्नाटक से लोकसभा चुनावों के लिए उम्मीदवारों के चयन पर बैठक आयोजित की जाएगी और उम्मीदवारों पर चर्चा होगी। दरअसल, उपमुख्यमंत्री पदों की मांग कुछ समय से बढ़ रही है। उपमुख्यमंत्री और राज्य कांग्रेस के अध्यक्ष डी.के. शिवकुमार के प्रभाव को कम करने की मांग की जा रही है, जो सीएम सिद्धारमैया के बराबर है। सीएम सिद्धारमैया के करीबी सहयोगी और सामाजिक कल्याण मंत्री डॉ. एचसी महादेवप्पा ने कहा कि उपमुख्यमंत्री के अधिक पदों की मांग रखने में कुछ भी गलत नहीं था। जो अनुभवी लोग इस पद के लायक हैं वह इसके लिए दावा कर सकते हैं। यह जाति के बारे में नहीं है, यह क्षमता और अनुभव के बारे में है। सहकारिता मंत्री के.एन. राजन्ना ने कहा कि पार्टी के लिए विभिन्न समुदायों को लेकर उपमुख्यमंत्री के पदों को आवंटित करना बेहतर था।

विधायकों की अयोग्यता से पहले सुप्रीम कोर्ट पहुंचा उद्धव गुट

बोला-फैसले से पहले स्पीकर और एकनाथ शिंदे की मुलाकात गलत

नई दिल्ली, 9 जनवरी (एजेंसियां)। शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट ने शिंदे गुट के विधायकों की अयोग्यता पर फैसले से पहले सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल किया है। उद्धव गुट की ओर से हाल में स्पीकर राहुल नावेंकर और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की मुलाकात को लेकर सवाल उठाए गए हैं। उद्धव गुट का कहना है कि 10 जनवरी तक विधायकों की अयोग्यता को लेकर फैसला आना है। ऐसे में यह मुलाकात अनुचित थी। हलफनामे में इस मुलाकात को लेकर आपत्ति जताई गई है।

क्या है मामला ? बता दें कि 7 जनवरी को स्पीकर राहुल नावेंकर ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से उनके आवास पर जाकर मुलाकात की थी। हालांकि इस मुलाकात को लेकर राहुल नावेंकर की ओर से बयान भी सामने आया है। उनका कहना है कि पहले यह मुलाकात 3 जनवरी

को होनी थी लेकिन वह (राहुल नावेंकर) बीमार पड़ गए। इसलिए 7 जनवरी को यह मुलाकात हो सकी। उन्होंने बताया कि इस मुलाकात में मुंबई के कुछ इलाकों के सौंदर्यीकरण को लेकर बातचीत की गई थी।

सुप्रीम कोर्ट ने 10 जनवरी तक का दिया समय :

जून 2022 में शिवसेना दो गुटों में बंट गई थी। एकनाथ शिंदे ने कुछ विधायकों के साथ बीजेपी के समर्थन से मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। शिंदे गुट और उद्धव गुट की ओर से एक दूसरे के खिलाफ दलबदल रोधी कानून के तहत कार्रवाई की मांग को लेकर याचिका दाखिल की। सुप्रीम कोर्ट ने पहले इस मामले में स्पीकर को 15 दिसंबर तक फैसला देने के आदेश दिया था। हालांकि बाद में इसका समय बढ़ाकर 10 जनवरी तक कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई समयसीमा का कल आखिरी दिन है।

कर्नाटक के भाजपा विधायक ने हिंदुओं को एक या दो बच्चे पैदा न करने की दी चेतावनी

दक्षिण कन्नड़, (कर्नाटक), 9 जनवरी (एजेंसियां)। कर्नाटक के उडुपी सीट से भाजपा विधायक हरीश पूंजा ने यह कहकर विवाद खड़ा कर दिया है कि अगर हिंदू सिर्फ एक या दो बच्चे पैदा करते हैं तो यह पर्याप्त नहीं होगा और भारत में मुस्लिम आबादी हिंदुओं से अधिक हो जाएगी। उन्होंने 7 जनवरी को बेलथांगडी तालुक के पेराडी में आयोजित अयण्णा दीपोत्सव धर्मिका सभा में यह बयान दिया था।

भाजपा विधायक पूंजा ने कहा, कुछ लोग सोचते हैं कि भारत में हिंदुओं की आबादी 80 करोड़ है और मुसलमानों की आबादी सिर्फ 20 करोड़ है। लेकिन, आपकों दूसरी दिशा में सोचने की जरूरत है। हमारा मानना है कि मुस्लिम संख्या में कम हैं और वे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। लेकिन मुसलमान चार-चार बच्चे पैदा कर रहे हैं और हम (हिंदू) ज्यादातर एक या दो बच्चे पैदा करते हैं। अगर 20 करोड़ मुसलमान चार-चार बच्चे पैदा कर देंगे तो उनकी आबादी 80 करोड़ होगी। हमारी आबादी घटकर 20 करोड़ हो जाएगी।

सुरों के सम्राट उस्ताद राशिद खान का 55 वर्ष की उम्र में निधन, लंबे समय से थे बीमार



खबर सामने आ गई है। कोलकाता के जिस प्राइवेट हॉस्पिटल में राशिद खान भर्ती थे, वहां के अधिकारी ने कहा, हमने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया लेकिन असफल रहे। अन्य अधिकारी ने बताया कि राशिद खान का निधन 9 जनवरी को दोपहर 3 बजकर 45 मिनट पर हुआ। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी राशिद खान की मौत के बाद अस्पताल पहुंचीं। उन्होंने कहा है, ये पूरे देश और म्यूजिक जगत के लिए बड़ा नुकसान है। मुझे बहुत दुख है और मैं यकीन नहीं कर पा रही हूं कि राशिद खान अब नहीं रहे।

मंदिर की सुरक्षा के लिए सरयू की लहरों पर सर्विलांस रूम, 7 एजेंसियां-आतंकी गतिविधियों पर नजर

अयोध्या, 9 जनवरी (एजेंसियां)। प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर पूरी अयोध्या सुरक्षा के घेरे में रहेगी। सात बड़ी सुरक्षा एजेंसियां रामनगरी के विभिन्न इलाकों में छानबीन में जुटी हैं। इसके अलावा जिले की सीमाओं पर भी चौकसी बढ़ाई गई है। आने-जाने वाले वाहनों की सघन तलाशी करके ही प्रवेश दिया जा रहा है। जिले के विभिन्न इलाकों में बने होटल, लॉज व धर्मशाळाओं में भी टीमें छानबीन कर रही हैं। यहां ठहरे व बुकिंग कराए लोगों का भी सत्यापन कराया जा रहा है। वहीं, राम मंदिर की सुरक्षा के लिए सरयू की लहरों पर अत्याधुनिक तकनीक वाले सर्विलांस रूम

बनेंगे। इनके माध्यम से चौधरी चरण सिंह घाट से गुसारा घाट तक नदी की निगरानी की जाएगी। प्रधानमंत्री और अन्य वीवीआईपी की फ़्लैट के रूट पर भी पुलिस टीमें जांच-पड़ताल कर रही हैं। प्राण प्रतिष्ठा के दिन यहां देश और दुनिया के विशिष्टजन उपस्थित होंगे। इसके बाद यहां प्रतिदिन एक से दो लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान है। प्रदेश में



सीआरपीएफ, एसटीएफ, एटीएफ, एनडीआरएफ के जवान भी बड़ी संख्या में रामनगरी में मोर्चा संभालेंगे। तैयारियों के क्रम में सोमवार को पहले चरण में 347 पुलिसकर्मी

अन्य जिलों से 100 उपाधीक्षक, 300 निरीक्षक, 800 उपनिरीक्षक व 4500 मुख्य आरक्षी व आरक्षियों की मांग की गई है। इसके अलावा पीएसी, आ ए ए फ , उच्च स्तर की तत्कनीक साहारा लिया जा रहा है। सर्विलांस रूम का निर्माण इसी रणनीति का हिस्सा है। >14

अयोध्या पहुंच गए। पुलिस अधीक्षक (नगर) ने बताया कि दूसरे चरण में 12 जनवरी व तीसरे चरण में 18 जनवरी को 5300 जवान अयोध्या पहुंचेंगे। अन्य जवानों के आने का सिलसिला भी जारी है। इन्हें सुरक्षा के लिहाज से अलग-अलग स्थानों पर जिम्मेदारी दी जा रही है।

आतंकी गतिविधियों पर नजर : नदी के रास्ते अयोध्या में कोई अवांछनीय तत्व आतंकी गतिविधियों के इशारे से प्रवेश न करने पाए, इसके लिए उच्च स्तर की तकनीक का सहारा लिया जा रहा है।



सम्मका-सरलम्मा महा जतरा के लिए मंत्रियों ने की बैठक



हैदराबाद, 9, जनवरी (स्वतंत्र वार्ता)। राज्य के मंत्री पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी, पोन्नम प्रभाकर, सीताका और कौंडा सुरेखा ने राज्य के मुख्य सचिव के साथ आज एमसीआरएचआरडी में आयोजित उच्च स्तरीय अधिकारियों की बैठक में श्री सम्मका, सरलम्मा महा जतरा

2024 की व्यवस्था और प्रबंधन की समीक्षा की। इस बार राज्य सरकार ने मेले की व्यवस्थाओं के लिए विकास कार्यक्रमों के लिए 75 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं और मंत्रियों ने आदेश दिया है कि 31 जनवरी तक सभी काम पूरे कर लिए जाएं। उन्होंने कहा कि मेले में आने वाले श्रद्धालु निश्चित होकर

अम्मावर के दर्शन करें और वेलेलेग का आयोजन करें तथा निःशुल्क बस सुविधा मिलने से बस यात्रा में आने वाली महिला श्रद्धालुओं की संख्या में बढ़ोतरी होने की संभावना है। बिना किसी असुविधा के व्यवस्था की जानी चाहिए।

जोनल कमिश्नर से होटल का ट्रेड लाइसेंस रद्द करने की मांग

हैदराबाद, 9 जनवरी (स्वतंत्र वार्ता)। खेताबाद में जीएचएमसी के जोनल कमिश्नर वेंकटेश दोत्रे से मुलाकात कर गोशामहल बीआरएस नेता एम. आनंद कुमार गोड ने उनका ध्यान आकृष्ट कराया कि गत 31 दिसम्बर की आधी रात को एबिडूस ग्रांड होटल में होटल कर्मचारियों द्वारा महिलाओं पर हमला करने की घटना में अधिकारियों ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। उन्होंने जोनल कमिश्नर से होटल का पार्किंग, फूड लाइसेंस और ट्रेड लाइसेंस रद्द करने को कहा। उन्होंने सकारात्मक जवाब दिया और कहा कि कार्रवाई की जायेगी।



उन्होंने होटल को पार्किंग परमिट दिए जाने तक होटल को सीज करने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि वह इस मामले पर जीएचएमसी कमिश्नर और पुलिस अधिकारियों से शिकायत करेंगे। उन्होंने कहा कि होटल के पास

कोई अनुमति नहीं है और समय का पालन नहीं किया जा रहा है। आनंद कुमार गोड ने साफ कर दिया कि जब तक इस होटल के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी तब तक वह बीआरएस पार्टी की तरफ से लड़ाई लड़ेंगे।

हत्या के मामले में शख्स को उम्रकैद की सजा

निर्मल, 9 जनवरी (स्वतंत्र वार्ता)। कोर्ट ने हत्या के मामले में शख्स को उम्रकैद की सजा सुनाई है। मामले की विस्तृत जानकारी अनुसार पेम्बी मंडल कोलानगुडा के चिकटी चिन्ना गंगाराम (55) और टेकम तुकाराम (45) के बीच पिछले कुछ दिनों से झगड़ा चल रहा था, लेकिन टेकम तुकाराम ने मन ही मन ठान लिया कि किसी भी हाल में चिकटी गंगाराम को मार डाला जाएगा और सही समय का इंतजार किया और 5 दिसंबर, 2018 को गंगाराम अपनी कृषि भूमि पर काम खत्म करके शाम 6 बजे घर आ रहा था। गंगाराम की हत्या करने के इरादे से जब छोटा गंगाराम चिलकालय मंदिर के पास आया तो टेकम तुकाराम उससे झगड़ने लगा। रास्ते से गुजर रहे उसी गांव के पेंडराम गंगाधारी ने जब लड़ाई रोकने की कोशिश की तो टेकम तुकाराम ने छोटे गंगाराम की गर्दन पर कुल्हाड़ी से वार कर हत्या कर दी। मृतक के बेटे गम रवि (32) की शिकायत पर तत्कालीन पेंबी एसएसआई के. संजीव ने मामला दर्ज कर आगे की जांच के लिए सीआई खानापुर अशोक को मामला सौंपा था। वहीं, प्रत्यक्षदर्शियों को जिला प्रमुख एवं सत्र न्यायालय में दाखिल कराया गया था। कोर्ट मजिस्ट्रेट कर्ण कुमार ने आरोपी को आजीवन कारावास के साथ 2000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।



दक्षिण मध्य रेलवे के महाप्रबंध अरुण कुमार जैन ने मंगलवार को डॉ. बी.आर. अम्बेडकर तेलंगाना सचिवालय में मुख्यमंत्री ए. रेवत रेड्डी से शिष्टाचार मुलाकात की।



मेदक जिला कलेक्टर राजर्षि ने मंत्री पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी से शिष्टाचार मुलाकात की।

कमिश्नर ट्रांसपोर्ट की बड़ी कार्रवाई तीन गांजा तस्कर गिरफ्तार

आरोपियों के पास से करीब 33 लाख का 103 किलो गांजा बरामद



हैदराबाद, 9, जनवरी (स्वतंत्र वार्ता)। विश्वसनीय सूचना पर, बोवेनपल्ली पुलिस, हैदराबाद के साथ कमिश्नर टास्क फोर्स के अधिकारियों ने तीन कुख्यात गांजा तस्करों परिवहकों जय सिंह भाटी, रूप चंद कछावा, प्रेम कुमार परमार को डायमंड प्वाइंट, बोवेनपल्ली से गिरफ्तार किया। आरोपी दो वाहनों में राजमंड़ी से मेडचल 130 किलोग्राम गांजा ले जा रहे थे। पुलिस ने आरोपियों के पास से एक बोलोरो, एक मारुति सुजुकी स्विफ्ट लाल रंग और 130 किलोग्राम गांजा और 3 सेल फोन जब्त किए गए। बरामद गांजे का मूल्य करीब 33 लाख रुपए बताया जा रहा है। पूछताछ करने

पर पता चला कि मुख्य आरोपी जय सिंह भाटी (16) साल से जीडीमेटला, सुभाष नगर में तिरुमाला नूडल्स चला रहा है और एक साल से मेदक सीमा के कुचारम में एक फार्म भी चला रहा है।

आरोपी प्रेम कुमार परमार फार्म में उनके कामकाजी साझेदार हैं। वह अपने कामकाजी साथी प्रेम कुमार परमार और रूप चंद के साथ घनिष्ठ मित्र हैं। चूंकि उनका व्यवसाय अच्छा नहीं चल रहा है इसलिए वे आसानी से पैसे कमाने की योजना बना रहे थे। जब वे बेहतर व्यवसाय के लिए पूछताछ कर रहे थे, लगभग चार महीने पहले वे मांगीलाल और धर्मेन्द्र के

संपर्क में आए जिन्होंने उन्हें बताया कि वे राजमंड़ी के आपूर्तिकर्ता रंजन से गांजा खरीद रहे थे और उन्हें गांजा खरीदने और इसे हैदराबाद में बेचने की भी सलाह दी। हैदराबाद में गांजे की भारी मांग है।

उन्होंने राजमंड़ी के अपने परिचित आपूर्तिकर्ता रंजन से गांजा खरीदने में मदद की पेशकश की। तीन उसी का मिलेगा आज पुलिस के हथिय चढ़ गए। गांजा के मुख्य आपूर्तिकर्ता रंजन और अन्य आरोपी मांगीलाल और धर्मेन्द्र अभी तक पकड़े नहीं गए हैं। गिरफ्तारियां रोहिणी प्रियदर्शिनी, डीसीपी, उत्तरी क्षेत्र, हैदराबाद, की देखरेख में की गईं।

अगस्त्य फाउंडेशन द्वारा मोबाइल साइंस लैब का उद्घाटन



निर्मल, 9 जनवरी (स्वतंत्र वार्ता)। अगस्त्य फाउंडेशन के तत्वावधान में प्रत्येक ग्रामीण छात्र को व्यावहारिक शिक्षण के माध्यम से विज्ञान का ज्ञान सिखाने के लिए छात्रों की रचनात्मकता, जिज्ञासा और वैज्ञानिक स्वभाव को प्रोत्साहित करके 23 राज्यों में उनकी सेवाएं उत्कृष्ट बनी हुई हैं। अगस्त्य फाउंडेशन के तत्वावधान में निर्मल जिले में मोबाइल विज्ञान सेवाओं का शुभारंभ मंगलवार को कलेक्टर आशीष सांगवान ने किया। अगस्त्य फाउंडेशन द्वारा जिले में चयनित नौ स्कूलों में 2500 छात्रों को मोबाइल साइंस

लेब सेवाएं प्रदान की जाएंगी। एक वर्ष के दौरान यह लैब चयनित नौ स्कूलों में प्रत्येक छात्र के पास दस बार जाएगी और छात्रों को विज्ञान का ज्ञान खुद सिखाएगी। कलेक्टर ने कहा कि यह एक अच्छा विकास है कि एनजीओ के माध्यम से मोबाइल साइंस लैब हमारे जिले में आई है, जिससे सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले गरीब छात्रों के लिए विज्ञान के बारे में जानने का यह एक अच्छा अवसर है और इसके लिए अगस्त्य फाउंडेशन जा रहा है। जिला स्तर पर इनकी सेवाओं का निरंतर उपयोग करें। उन्होंने

कहा कि यह फाउंडेशन इंटरल के वित्तीय सहयोग से बिना किसी लाभ के काम करता है। आंगस्ता फाउंडेशन के महाप्रबंधक बलराम, क्षेत्र प्रबंधक श्रीदेवी, मंडल विद्याधिकारी शंकर, शिक्षा विभाग के क्षेत्रीय अधिकारी श्रीदेवी, नरसैया, सरकारी परीक्षा के सहायक आयुक्त पद्मा टीएसआरएस सोफीनार के प्रिंसिपल गंगा शंकर, केजीबीवी के विशेष अधिकारी लता देवी, सुजाता, विभिन्न संघों के प्रभारी, सभी जिले के अधिकारी उपस्थित थे। विषय मंत्रों के अध्यक्ष सचिवों एवं विद्यार्थियों ने भाग लिया।

CLASSIFIEDS INDUSTRIAL SHED FOR SALE

Induatrial Shed (Space 682 Sqareyards) For Sale at Kat-tedden, With 74 HP Power Opp. Line Of State Bank Of India. Ph: 8978424535.

CHANGE OF NAME

RITU, W/o: No 17014599H Ctn RAHUL, R/O: Malra (57), Dist Mahendragarh, Haryana-123029, changed my name from RITU to RITU KUMARI and my DOB :24-02-1992 vide Affidavit dt.09-01-2024 signed by P.Raveen-dranath, Adv & Notary

सावधान
पाठकों को सूचित किया जाता है कि वर्गीकृत विज्ञापन का प्रतिपादन करने से पहले उसकी पूरी तरह से जांच पड़ताल कर लें। विज्ञापनदाता ने दावा कर रहे हैं या कह रहे हैं, उन बातों से दैनिक समाचार पत्र (स्वतंत्र वार्ता) का किसी भी तरह का कोई सम्बन्ध नहीं है।

हृषि ओम

श्रद्धांजलि सभा

श्री भीमसिंहजी राठौड़ (कुशीप)

पूर्व अध्यक्ष श्री राजस्थानी राजपूत समाज हैदराबाद-सिकंदराबाद (तेलंगाना)
: स्वर्णवास: 08.01.2024

श्रद्धांजलि सभा- आज बुधवार दि.10.01.2024 प्रातः 9 बजे से 12 बजे तक आचार्य भवन, फील्डखाना हैदराबाद पर रखी गयी है

* श्रद्धांजलि अर्पितकर्ता *

समस्त राजस्थानी राजपूत समाज हैदराबाद-सिकंदराबाद
समस्त राजस्थानी राजपूत समाज हैदराबाद-सिकंदराबाद
के समस्त पदाधिकारी, सदस्य व समाज वर्य

P.Sankar

एक शाम गुरु महाराज के नाम जागरण 15 को

हैदराबाद, 9 जनवरी (स्वतंत्र वार्ता)। बालाजी नगर, आईजी कॉलनी स्थित श्री आईमाता मंदिर (बदेर) में एक शाम संत श्री गुलारामजी महाराज के नाम जागरण सोमवार 15 जनवरी सायं 8.31 बजे से आयोजित किया जाएगा। प्रेस विज्ञापि में राजु सीरवी ने बताया कि हर वर्ष की भांति मंदिर प्रांगण में विशेष पंडाल सजाकर जागरण का आयोजन किया जाएगा। सायं 6 बजे से महाप्रसादी एवं 8.30 बजे से जागरण का कार्यक्रम रहेगा। जिसमें गायकर जीतू चवाडिया व चेतननाथ चौहान गुरुवर के चरणों में भजनों के पुष्प अर्पित करेंगे।

कार्यक्रम के सफल आयोजन में राजुराम सीरवी, अचलाराम सीरवी, अमराराम सीरवी, केसराम सीरवी व संत शिरोमणी गुलारामजी महाराज कमेटी, सीरवी समाज बालाजी नगर के समस्त कार्यकर्ता उपस्थित रहेंगे। समाज बन्धुओं व भक्तों से निवेदन है उपरोक्त कार्यक्रम में समय पर पधारकर कार्यक्रम का लाभ लेंगे।



कोमपल्ली में राजस्व विभाग मंत्री पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी एक निजी समारोह हॉल में राजस्व कर्मचारियों की बैठक में बोलते हुए।

बाघों की मौत का रहस्य, जांच में जुटे केंद्रीय बल के सदस्य



कुमरम भीम आसिफाबाद, 9 जनवरी (स्वतंत्र वार्ता)। तेलंगाना में बाघों की मौत का सिलसिला परेशान करने वाला है। दुर्लभ वन्य जीवों की सुरक्षा का दम भरने के लिए कागजमगर गलियारे के दरिगाम वन क्षेत्र में गोंडी में दो बाघों की मौत हो गई। अधिकारियों का कहना है कि बाघ ने 2% दिसंबर को मवेशियों पर हमला किया था। मांस खाने वाली मादा एस16 की एक समाह बाद मृत्यु हो गई। उसी स्थान पर एस 9 नाम के नर बाघ की मौत चर्चा का विषय बनी हुई है। अधिकारियों को उस स्थान से कुछ ही दूरी पर एक मवेशी का शव मिला जहां बाघों की मौत हुई थी। लेकिन राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के कर्मचारी उस क्षेत्र की जांच करने के लिए मैदान में

उतरे जहां जानवर का शव मिला था। क्षेत्रीय लड़ाई के कोई संकेत नहीं हैं, इसलिए बाघों की मौत को लेकर कई तरह की आशंकाएं व्यक्त की जा रही हैं। बाघ के हमले में मवेशी की मौत होने से आशंका जताई जा रही है कि उसे जहर दिया गया है। लेकिन वन अधिकारी दो बाघों की मौत के बारे में कुछ नहीं बोल रहे हैं।एसडीसीए अधिकारियों ने जांच के दौरान पाया कि बाघों के सिर पर गंभीर चोटें थीं। इसके अलावा बाघ के पैर टूटे होने से आशंका जताई जा रही है कि यह मवेशी और बाघ के बीच वर्चस्व की लड़ाई थी...या फिर किसी ने जानबूझ कर उसे पीट-पीट कर मार डाला हो। यह इस तथ्य के कारण है कि इन चोटों का कोई वीडियो ट्रैक कैमरे पर रिकॉर्ड नहीं किया गया था। एक एस9 नर बाघ की कुमरम भीम नहर में गिरने से

मारवाड़ी युवा मंच पर्ल महिला शाखा द्वारा रक्तदान शिविर



हैदराबाद, 9 जनवरी (स्वतंत्र वार्ता)। मारवाड़ी युवा मंच पर्ल महिला शाखा सिकंदराबाद द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शाखा मंत्री शीतल जैन द्वारा जारी प्रेस विज्ञापि के अनुसार

शाखा अध्यक्ष रक्षा जैन की अध्यक्षता में नाकोड़ा भैरव परिवार के द्वारा आयोजित बांठिया गार्डन में नाकोड़ा भक्ति कार्यक्रम में शाखा द्वारा रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। शिविर में

मुख्य अतिथि के तौर पर राष्ट्रीय निदेशक सुरेश एम. जैन एवं जैन सेवासंघ अध्यक्ष योगेश सिंघी, अतिथि प्रांतीय रक्तदान संयोजक मनोज जैन पधारे शाखा की ओर से सभी का सम्मान किया गया। शिविर को सफल बनाने में उपाध्यक्ष शशि नाहर, कला गांधी,कविता मांडण, पुष्पा कोठारी ,खुशबू जैन अंकिता जैन, हेमा जैन, मेधा सिंधी, संतोष गुजरानी, शीतल मणोत, सीता गांधी, मंजू गांधी,मीना दुगाड , रिद्धि बोहरा का सराहनीय सहयोग रहा। शाखा की रक्तदान संयोजिका पूनम बोहरा ने भक्ति आयोजक मंडल श्री नाकोड़ा भैरव परिवार सहित पधारे सभी का आभार व्यक्त किया।

पूर्व तट रेलवे

e-Tender Notice No.: e-Central-WAT-56-2023, Dtd. 29.12.2023

कार्य का नाम :- वाटिकवर मंडल के MK-4 लाइन पर ADEN/कोरुट के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत जलति वाहनों की विधि: 2025/12-14 में कमजोर कामगारों की नसर्मा।

कार्य की अनुमानित लागत: ₹ 38,40,605.56

ईएनटी: ₹ 76,800/-

कार्य की पूर्णत अवधि: 12 (बारह) माह

निविदा बंद होने की तिथि एवं समय: 25.01.2024 को 1500 बजे

इन ई-निविदाओं के अंशोंन फॉर्म के लेटर हेड में जमा किये गये एवं समय पर प्राप्त जाक /कॉवर /फैसल के माध्यम से भेजे गये या व्यक्तिगत रूप से जमा किये गये नैतिक प्रस्तावों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। ऐसे सभी नैतिक प्रस्तावों को अर्थ माना जाएगा और उन पर कोई विचार किये बिना उन्हें तत्काल निरस्त कर दिया जाएगा।

उपरोक्त ई-निविदा के ई-निविदा दस्तावेज सहित पूर्ण जानकारी केरवाट्ट: www.ireps.gov.in

नोट: नापी निविदादाताओं को समझ ही जारी है कि इन निविदा के लिए जारी कोई भी परिवर्तन /शुद्धिपत्र की जानकारी के लिए कृपया निविदा बंद होने की तिथि के 10 दिन पूर्व तक वेबसाइट को दोबारा देखें। वेबसाइट: www.ireps.gov.in

मंडल रेलवे प्रबंधक (इंजी.), वाटिकवर

PR-961/O/23-24



बुधवार , 10 जनवरी 2024



स्वतंत्र वार्ता, हैदराबाद



मुनव्वर राना की हालत नाजुक

पीजीआई के आईसीयू में भर्ती हुए मशहूर शायर, डॉक्टर लगातार रख रहे हैं निगरानी



लखनऊ, 9 जनवरी (एजेंसियां)। काफी समय से बीमार चल रहे मशहूर शायर मुनव्वर राना की तबीयत फिर से बिगड़ गई है। उन्हें लखनऊ के संजय गांधी पीजीआई के आईसीयू वॉर्ड में शिफ्ट किया गया है। डॉक्टरों के अनुसार अगले कुछ दिनों का समय राणा के लिए काफी अहम साबित होगा। मुनव्वर की तबीयत बीते कुछ दिनों से खराब है। इससे पहले मैं भी डायलिसिस के दौरान पेट में दर्द था तो डॉक्टर ने एडमिट कर लिया।

उस वक़्त सीटी स्कैन में गॉल ब्लैडर में समस्या की बात सामने आई। सर्जरी के बाद भी समस्या बनी रही। तबीयत में ख़ास सुधार नहीं होता नज़र आ रहा है। डॉक्टरों की टीम लगातार उनके स्वास्थ्य पर निगरानी बनाए हुए हैं। हिंदी, अवधी, उर्दू के शायर और कवि मुनव्वर राणा की रचनाएँ प्रकाशित हो चुकी हैं। उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित भी किया जा चुका है। हालांकि देश में असहिष्णुता का आरोप लगाते हुए उन्होंने अवॉर्ड वापस लौटा दिया था। वह सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर मुख़र रहते हैं।

होटल में बुलाया, खाने में नशीला पदार्थ मिलाया और फिर किया दुष्कर्म

लखनऊ, 9 जनवरी (एजेंसियां)। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक हैरान कर देना वाला मामला सामने आया है। लखनऊ के होटल में सीआरपीएफ की सिपाही ने दरोगा पर रेप का आरोप लगाया है। महिला सिपाही ने यह भी आरोप लगाया है कि दरोगा ने अश्लील वीडियो बनाकर इंटरनेट पर वायरल की धमकी दी और लाखों रुपए भी ऐंटे।

आरजेडी के बाद जेडीयू के बड़बोले विधायक ने की पीएम मोदी पर विवादित टिप्पणी

क्या बोल गए गोपाल मंडल



पटना, 9 जनवरी (एजेंसियां)। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होने जा रही है, लेकिन उससे पहले ही बिहार में सियासी पारा गर्म है। आरजेडी के विधायक अजय यादव के बाद अब जेडीयू के बड़बोले विधायक गोपाल मंडल ने विवादित बयान दिया है। पत्रकारों से बातचीत में गोपाल मंडल ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी तो बम ब्लास्ट करवाते रहते हैं। पहले भी करवाए हैं। गोपाल मंडल ने कहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी का विरोध नहीं करता हूं, लेकिन नरेंद्र मोदी का यह काम रहता है। पटना में जब उनकी रैली हुई थी तो बम ब्लास्ट करवा दिया, बम ब्लास्ट तो वह करवाते हैं। कुछ भी करवा सकते हैं। वह बड़े लोग हैं,

आरजेडी नहीं चाहता कांग्रेस को 11 सीटें देना आरजेडी असेंबली चुनाव में गच्चा खा चुका है कांग्रेस को लेफ्ट से ज्यादा भाव नहीं देगा आरजेडी सीपीआई (एमएल) ने अकेले मांगी हैं पांच सीटें

पटना, 9 जनवरी (एजेंसियां)। लोकसभा चुनाव 2019 में बिहार के अंदर महज एक सीट जीतने वाली देश की सबसे बड़े पार्टी पांच साल बाद राजनीतिक रूप से सबसे सक्रिय राज्य में क्यों इस हालत में है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ विपक्षी एकता के नाम पर बने गठबंधन इंडिया में खुद को सबसे प्रभावी साबित करने के बावजूद बिहार में यह हालत क्यों है? क्यों बिहार के दोनों क्षेत्रीय दल उसे भाव नहीं दे रहे हैं? इस सवाल का जवाब कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व तक को नहीं मिल पा रहा है। एक के बाद एक घटनाक्रम हो रहे हैं और हरेक जगह कांग्रेस की बुरी स्थिति ही नजर आ रही है।

मायावती के समर्थन में

उतरे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मोर्य



लखनऊ, 9 जनवरी (एजेंसियां)। बसपा सुप्रीमो मायावती ने समाजवादी पार्टी से अपनी जान को खतरा बताया है, जिसके बाद सियासत गरमा गई है, यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मोर्य अब मायावती के समर्थन में आ गए हैं। उन्होंने साफ कहा कि हमने तो पहले ही कहा था कि सपा गुंडों और माफियाओं की पार्टी है। बीजेपी सरकार बसपा सुप्रीमो की रक्षा के लिए संकल्पित है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मोर्य ने मायावती के ट्वीट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मायावती जी यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री रही हैं और

बिहार में बेचारी क्यों कांग्रेस

राहुल गांधी के कहने पर भी पद नहीं मिला, अब सीट पर भी संकट

पहले राहुल गांधी की बात कर लें

12 जून 2023 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विपक्षी दलों की बैठक बुलाई। तब कांग्रेस के नंबर वन नेता राहुल गांधी और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के नहीं आने की जानकारी आई। इसके बाद राष्ट्रीय जनता दल अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव भी इस अभियान में आगे आए। 23 जून को बैठक सफल हुई और इसमें राहुल के साथ खरगे भी पहुंचे। बैठक के पहले विपक्षी एकता के दूल्हे की बात भारतीय जनता पार्टी बार-बार उठा रही थी और बैठक के बाद प्रेस वार्ता के दौरान लालू ने राहुल गांधी को कहा था कि हम बारात बनने के लिए तैयार हैं, आप शादी कीजिए, दूल्हा बनिए। इस बैठक के पहले सीएम नीतीश कुमार ने कांग्रेस को आश्वासन दिया था कि मंत्रिमंडल विस्तार करेंगे। राहुल आए तो उन्होंने



कांग्रेस कोटे के मंत्रियों की संख्या में दो इजाफे की बात कर ली। मतलब, दो की जगह कांग्रेस के चार मंत्री होंगे। जून से दिसंबर बीच, मगर कई बार मुद्दा उठाए जाने के बावजूद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह अपनी पार्टी से दो और मंत्री नहीं बनवा सके। जब राहुल गांधी से बात के बावजूद

सात छह महीने में बात नहीं बनी तो कांग्रेस को समझना चाहिए था कि उसे लोकसभा की सीटों में भी यही सब देखना होगा। **अब कांग्रेस जो देख रही, उसपर क्या करे** कांग्रेस को बिहार में लोकसभा की 10-11 सीटें चाहिए प्रत्याशी उतारने के लिए। जदयू ने उसे साफ कहा है

कि वह बिहार में प्रभावी नहीं है। एक ही सीट पिछले चुनाव में जीत सकी थी। उसे शुन्य सांसद वाले राजद से बात करनी है। जदयू का गठबंधन राजद से है। राजद का कांग्रेस समेत बाकी दलों से। सवाल उठता है कि जब इंडी एलायंस की बात हो रही है तो यह सब कहते हुए जदयू ने कांग्रेस को क्या दो टूक

राम मंदिर के विरोधी मंत्री को तेज प्रताप की नसीहत, धर्म के किसी भी लाइन से छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए

अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण जारी है और 22 जनवरी को मंदिर के गर्भगृह में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। इसे लेकर पूरे देश में उत्साह का माहौल बना हुआ है। हालांकि, इस बीच कई ऐसे नेता भी हैं जो राम मंदिर के विरोधी में अनर्गल टिप्पणियां कर रहे हैं। इनमें से एक बड़ा नाम राजद नेता और बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर का भी है। हालांकि, अब लालू प्रसाद यादव के बेटे और बिहार सरकार के मंत्री तेज प्रताप यादव ने शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर को इस मामले में बड़ी नसीहत दे दी है। राजद सुप्रीमो लालू यादव के बड़े बेटे तेजप्रताप ने शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर को नसीहत देते हुए कहा है कि तेज प्रताप ने कहा कि धर्म के किसी भी लाइन से छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। चाहे वो हिंदू हो मुस्लिम हो सिख हो या ईसाई हो। सबसे बड़ा धर्म इंसाफियत है और उसे ही फॉलो करना चाहिए।

'पीएम बनने के लिए उधर गए

अब सीएम की कुर्सी पर भी', बीजेपी नेता ने नीतीश को घेरा शिदा मंत्री के लिए चरवाहा विद्यालय का कर दिया जिक्र

विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष ने कहा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार देख रहे प्रधानमंत्री बनने का सपना शिक्षामंत्री पर पलटवार, कहा- हम सभी धर्मों का करते सम्मान, सनातन का अपमान बर्दाश्त नहीं



साकार होने की संभावना नहीं है। लेकिन सीएम की कुर्सी रहेगी या नहीं, यह भी संभावना नहीं के बराबर रह गई। **सकार में रहे तो चरवाहा विद्यालय खोल दिया** उन्होंने शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के बयान पर नाराजगी व्यक्त की। कहा कि शिक्षा मंत्री सनातन के संतानों, देवी देवता, ग्रंथ और धर्म गुरुओं का बार-बार अपमान कर रहे हैं। ऐसे लोग न तो समाज के हितैषी हैं और न ही देश के। ये लोग जंगलराज के पुरोधा थे। 15 साल सरकार में रहे तो चरवाहा विद्यालय खोल दिया। राजद के लोगों की

मानसिक स्थिति ठीक नहीं हैं। सजायापस्ता को अध्यक्ष बना दिया। अब उन्हें लग रहा है कि जातीय लहर नहीं चलेगी तो धर्म का जहर बोना चाहते हैं। कहा कि राजद के लोग मंदिर-मंदिर जाते हैं, लेकिन जनता की बरगलाले हैं। मंदिर मन की शान्ति व सामाजिक सद्भाव का प्रतीक है। हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, लेकिन सनातन का अपमान करने वाले को हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की उदासीनता के चलते लोगों को केंद्र की योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है।

जेल में ही रहेंगे सपा नेता मुकेश सिद्धार्थ



मेरठ, 9 जनवरी (एजेंसियां)। दिल्ली से गिरफ्तारी के बाद उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति वित्तीय विकास निगम के उपाध्यक्ष व सपा नेता मुकेश सिद्धार्थ के जेल जाने पर घटनाक्रम सर्दी में पारे की तरह बदलता रहा। एसीजेएम कोर्ट से सुनवाई के बाद रिमांड बनाकर जेल भेज दिया गया। उसके बाद अपर जिला जज कोर्ट संख्या एक से अग्रिम जमानत मिल गई। अभी तक रिहाई का परवाना जेल नहीं पहुंचा था। तभी डीजीसी क्रिमिनल सर्वेश शर्मा ने सभी तथ्यों को अपर जिला जज के सामने रखा। कहा कि आरोपित ने प्रार्थना पत्र में जेल जाने का तथ्य छिपाया है। तब अग्रिम जमानत को निरस्त

कर दिया। अंतत सपा नेता को जेल में रहना ही पड़ा। उन्हें कोर्ट में पेश करने के लिए फ़ैटम पर बैठाकर पुलिस ले गई थी। **पुलिसबल लगाया** कोर्ट परिसर में भीड़ को देखकर अतिरिक्त पुलिस बल लगाया गया था। शनिवार को कलक्ट्रेट में घेराव के दौरान ऊर्जा राज्यमंत्री सोमेन्द्र तोमर को जिंदा जलाने, शहर को फूंकने की धमकी व डीएम-एसएसपी व उनके बच्चों के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी करने वाले सपा नेता मुकेश सिद्धार्थ को पुलिस व फ़ाइम ब्रांच ने रविवार रात दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया। मुकेश के खिलाफ सिविल लाईंस थाने में गैरजमानती धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था।

लोगों की भीड़ जमा

सोमवार को सिविल लाईंस पुलिस ने मुकेश सिद्धार्थ का मॉडिकल कराया। उसके बाद फ़ैटम पर बैठाकर कोर्ट में ले गए, जहां पहले से लोगों की भीड़ जमा थी। भीड़ को देखते ही कचहरी में पुलिस बल बढ़ा दिया गया। कोर्ट से 16 जनवरी तक रिमांड मिलने के बाद पुलिस ने जेल भेज दिया। डीसीजी क्रिमिनल सर्वेश शर्मा ने बताया कि आरोपित के अधिवक्ता ने अंतिम जमानत प्रार्थना पत्र न्यायालय जिला जज के यहां डाला हुआ था, जिस पर अपर जिला जज कोर्ट संख्या एक ने सुनवाई करते हुए 16 जनवरी तक अंतरिम जमानत दे दी। परवाना अभी जेल तक नहीं पहुंचा था। तब डीजीसी क्रिमिनल ने न्यायालय को अवगत कराया कि आरोपित ने तथ्य को छुपाते हुए जमानत प्रार्थना पत्र डाला है, जबकि आरोपित जेल जा चुका है, जिस पर न्यायालय ने सुनवाई करते हुए अग्रिम जमानत को निरस्त कर दिया।

16 जनवरी तक जेल में रहेंगे उधर, आरोपित के अधिवक्ता के

जमानत का हल्ला मचा दिया, जिस पर लोग मुकेश सिद्धार्थ की रिहाई के लिए जेल परिसर तक पहुंच गए थे। बाद में सबको जेल प्रशासन ने समझा दिया, जिसके बाद वापस लौट गए। एसएसपी रोहित सजवाण ने स्पष्ट कर दिया कि मुकेश सिद्धार्थ की जमानत नहीं हुई है, वह फिलहाल 16 जनवरी तक जेल में रहेंगे। उन्होंने कहा कि मुकेश सिद्धार्थ पर दर्ज पुराने मुकदमों में भी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही इस मुकदमे में प्रदर्शन की वीडियो को लगाकर चार्जशीट तैयार की जाएगी। ताकि कोर्ट से सजा मिल सके।

पुलिस कस्टडी में भी सपा नेता करते रहे टिप्पणी

सपा नेता मुकेश सिद्धार्थ पुलिस कस्टडी में भी टिप्पणी करते रहे। उनका कहना था कि वह गलत नहीं बोले हैं, खुलेआम सड़क पर मारपीट करने वाले ऊर्जा राज्यमंत्री सोमेंद्र तोमर और एसएलसी धर्मेन्द्र भारद्वाज पर अभी तक कार्रवाई नहीं की गई। समझौते से अपराध खत्म नहीं हो जाता है। उनके कृत्य की भी वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रही है।

कमर में बांधकर म्यांमार से सोना ला रहे थे तस्कर

वाराणसी की ट्रेन में डीआरआई को हुआ शक

ट्रेन के एसी फर्स्ट क्लास में साढ़े तीन किलो सोना ले जा रहे थे तस्कर डीआरआइ को गच्चा देने के लिए दिल्ली तक का कराया था रिजर्वेशन राजस्व खुफिया निदेशालय की टीम ने पीडीडीयू जंक्शन पर दबीचा



वाराणसी, 9 जनवरी (एजेंसियां)। तू डाल-डाल तो मैं पात-पात। सोना तस्कर ऐसी ही रणनीति अपनाते हुए दो करोड़ आठ लाख रुपये का सोना (तीन किलो 220 ग्राम) लेकर अप ब्रह्मपुत्र (15658) मेल के एसी फर्स्ट कोच में आरक्षण काराकर सफर पर निकले थे। डायरेक्टरेट आफ रेवेन्यू इंटेलीजेंस (डीआरआई) की टीम को एक और गच्चा देने की कोशिश हुई, तस्करों को कानपुर उतरकर बस से इंदौर फिर महाराष्ट्र पहुंचना था, जबकि उनका बर्थ पुराना दिल्ली तक के लिए आरक्षित थी। पूरी रणनीति थी कि ट्रेन के 10 मिनट के ठहराव में सुरक्षित निकल जाएंगे, लेकिन मुखबिर की सटीक सूचना तमिलनाडु के कोयंबटूर निवासी अरविंद चंद्रकांत कदम और महाराष्ट्र के सांगली निवासी अमित श्रीरंग धावध के पांव की बेड़ियों बन गईं और सात जनवरी रविवार को दोनों पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन के प्लेटफार्म नंबर सात पर पकड़े गए। अभी तक डीआरआइ की कार्रवाई में सोना तस्करी से जुड़े कैरियर या तस्कर

आईएसआईएस से जुड़े इनामी आतंकी को एटीएस ने किया गिरफ्तार लखनऊ, 9 जनवरी (एजेंसियां)। उत्तर प्रदेश पुलिस के आतंकवाद निरोधक दस्ते (एटीएस) ने आईएसआईएस से जुड़े एक इनामी आरोपी को गिरफ्तार किया है। वहीं एक अन्य आरोपी ने अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया है। अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी है। पुलिस महानिदेशक (कानून-व्यवस्था) प्रशांत कुमार ने एटीएस की उपलब्धियों का बयान जारी कर कहा कि आईएसआईएस से जुड़े 25-25 हजार रुपये के दो इनामी आरोपी, जिनमें प्रयागराज के करेली निवासी आमस उर्फ फराज (22) को सोमवार को एटीएस टीम ने अलीगढ़ से गिरफ्तार किया, जबकि संपल निवासी अब्दुल समद मलिक (25) ने अदालत में समर्पण कर दिया। बयान के अनुसार, एटीएस को यह सूचना मिल रही थी कि कुछ लोग आईएसआईएस की विचारधारा से प्रेरित होकर शपथ ले चुके हैं और वे खिलाफत कायम करने के लिए देश विरोधी साजिश रच रहे हैं।

देवरिया, 9 जनवरी (एजेंसियां)। यूपी के देवरिया में 2 लड़कियों द्वारा आपस में शादी करने का मामला सामने आया है। देवरिया के चुनकी में स्थित आर्केस्ट्रा में काम करने वाली 2 लड़कियों ने सामंतीक विवाह कर लिया। ये दोनों लड़कियां 2 साल से एक दूसरे के साथ पति-पत्नी की तरह रहती थीं। दोनों लड़कियों ने मझौली राज में स्थित भगड़ा भवानी मंदिर में एक दूसरे के साथ शादी रचाई।

पश्चिम बंगाल की रहने वाली 2 लड़कियां दोनों लड़कियां पश्चिम बंगाल की रहने वाली हैं। एक लड़की का नाम जयश्री राउल है, जिसकी उम्र 28 साल है। वह विशाल लक्ष्मीपुर साउथ 24 परगना वेस्ट बंगाल की रहने वाली है। वहीं दूसरी लड़की का नाम राखी दास है, जिसकी उम्र 23 साल है। वह अक्षयनगर रिप्यूजी कालोनी साउथ 24 परगना वेस्ट बंगाल की रहने वाली है। ये दोनों


लड़कियां पश्चिम बंगाल से एक साथ आई थीं और चुनकी में एक आर्केस्ट्रा ग्रुप में काम करती थीं। दोनों ने सलेमपुर के मझौली राज में स्थित भगड़ा भवानी मंदिर में सोमवार को एक दूसरे के साथ शादी रचाई। दोनों की शादी मंदिर में हिंदू रीति-रिवाज द्वारा स्थानीय पंडित द्वारा कराय़ा गया। लार थाना क्षेत्र के मठ वाड़ के भेड़िया टोला के रहने वाले मुन्ना पाल लार ब्लॉक के चुनकी बाजार में आर्केस्ट्रा चलाते हैं। उनके



आर्केस्ट्रा में ये दो युवतियां करीब 3 साल से डांस करती हैं। डांस के दौरान दोनों में दोस्ती हो गई। ये दोस्ती कब प्यार में बदल गई,

ये किसी को पता नहीं लगा। इसके बाद दोनों ने एक-दूसरे के साथ जीने-मरने की कसमें तक खाईं। सूत्रों की मानें तो 30

दिसंबर को आर्केस्ट्रा संचालक और उसके कुछ साथी मझौली राज के दीर्घेश्वर नाथ मंदिर पहुंचे थे और दोनों युवतियों की शादी करने की बात कही, लेकिन मंदिर के महंत जगरनाथ महाराज ने उच्च अधिकारियों की अनुमति न होने का हवाला देते हुए उन्हें वहां से लौटा दिया। उसके बाद मायूस होकर सभी लोग वापस लौट गए और भटपाररानी तहसील जाकर दोनों ने शादी के लिए स्टॉप पेपर खरीदा।



कॉलेज जाने के लिए घर से निकली थी छात्रा, गांव के पास खेत में मिला शव



खरगोन, 9 जनवरी (एजेंसियां)। मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के ऊन थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले एक गांव के कॉलेज ने पढ़ने वाली एक छात्रा का शव मिलने से सनसनी फैल गई। 20 वर्षीय युवती का यह शव संदिग्ध परिस्थितियों में गांव से कुछ ही दूरी के एक खेत से बरामद हुआ, जहां टमाटर की फसल लगी हुई थी। छात्रा के शव के साथ कंधे पर उसका बैग भी टंगा हुआ था। फिलहाल पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करा कर परिजन को सौंप दिया है। इस मामले में पुलिस हर एंगल से जांच करने

की बात कह रही है। जानकारी के मुताबिक, जिले के ऊन थाना क्षेत्र के सेगांव विकासखंड के ग्राम पंचायत अक्षरवाड़ी से पुलिस ने एक कॉलेज छात्रा का शव बरामद किया है। बताया जा रहा है कि सुबह गांव के बकरी चराने वाले लड़कों ने टमाटर के खेत में मृतका का शव देखकर उसके परिजनों को इसकी सूचना दी थी, जिसके बाद पुलिस भी तत्काल मौके पर पहुंची थी। परिजनों के मुताबिक, 20 वर्षीय छात्रा अनीता घर से कॉलेज जाने का कहकर निकली थी, लेकिन वापस घर नहीं लौटी। शव मिलने के बाद छात्रा के परिजन और ग्रामीण उसकी हत्या की आशंका जता रहे हैं। हालांकि पुलिस सभी पहलुओं से मामले की जांच में जुटी है। फिलहाल पुलिस टीम ने घटनास्थल का भी मौका मुआयना किया है। उसके बाद छात्रा की मौत के कारणों की जांच के लिए टीम गठित कर दी गई है।

11 जनवरी को 'सुनहरी बाग मस्जिद' केस की सुनवाई, क्यों हो रही है हटाने की मांग



नई दिल्ली, 9 जनवरी (एजेंसियां)। राजधानी दिल्ली के लुटियंस जोन में स्थित सुनहरी बाग मस्जिद को हटाने का विरोध तेज हो रहा है। नयी दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी) द्वारा जाम की स्थिति से निजात दिलाने के लिए मस्जिद को हटाने का प्रस्ताव लाया गया है। हालांकि, राजनीतिक हलकों और मस्जिद प्रशासन की ओर से एनडीएमसी के इस फैसले को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है। खबर आई है कि दिल्ली हाई कोर्ट सुनहरी बाग मस्जिद केस की सुनवाई 11 जनवरी को करने जा रहा है। आइए जानते हैं कि क्या है सुनहरी बाग मस्जिद का

इतिहास और क्यों इस मस्जिद को हटाने की मांग और विरोध का कारण क्या है। **150 साल से ज्यादा पुरानी है मस्जिद** सुनहरी बाग मस्जिद लुटियंस जोन में मोतीलाल नेहरू मार्ग, राजपथ क्षेत्र में केंद्रीय सचिवालय के नजदीक स्थित है। दावा किया जाता है कि ये मस्जिद 150 साल से ज्यादा पुरानी है। रिपोर्टर के मुताबिक, साल 1912 के दिल्ली के नक्शे में इस मस्जिद को हकीम जी का बाग के रूप में दिखाया गया है। अब इसे ही सुनहरी बाग के नाम से जाना जाता है। मस्जिद को हटाने का विरोध करने वालों का दावा है कि इस मस्जिद का निर्माण मुगल काल में हुआ था जो

कलेक्टर को अधिकार नहीं है कि भरण-पोषण की राशि निर्धारित करें, एवसी ने लगाई 25 हजार की कॉस्ट



जबलपुर, 9 जनवरी (एजेंसियां)। सिंगरौली में कलेक्टर ने जनसुनवाई करते हुए शिक्षक के वेतन से पत्नी को 50 प्रतिशत राशि भरण-पोषण के लिए देने के आदेश जारी किए थे, जिसके खिलाफ दायर की गई याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट जस्टिस विवेक अग्रवाल ने अपने आदेश में कहा है कि कलेक्टर का आदेश मनमाना और गैर कानूनी है। भरण-पोषण की राशि निर्धारित करने का अधिकार कलेक्टर को नहीं है। एकलपीठ ने कलेक्टर पर 25

हजार रुपये की कॉस्ट भी लगाई है। शिक्षक कालेश्वर साहू की तरफ से दायर की गई याचिका में कहा गया था कि उसकी पत्नी ने भरण-पोषण के लिए धारा-125 के तहत कुटुम्ब न्यायालय में आवेदन किया था। कुटुम्ब न्यायालय में मामले की सुनवाई लंबित है। सिंगरौली जिला कलेक्टर के समक्ष जनसुनवाई के दौरान उसकी पत्नी मुन्नी साहू उपस्थित हुई थीं। कलेक्टर ने उसके वेतन से 50 प्रतिशत की राशि काटकर पत्नी को भरण-पोषण के लिए प्रदान करने के

आदेश अक्टूबर 2021 में जारी किए थे। कलेक्टर के निर्देशानुसार, शिक्षा विभाग के जिला समन्वयक अधिकारी ने 50 प्रतिशत वेतन कटौती के आदेश जारी कर दिए। याचिकाकर्ता की तरफ से तर्क दिया गया कि भरण-पोषण की राशि निर्धारित करने का अधिकार संबंधित न्यायालय को है। ऐसा करने की न्यायिक शक्तियां जिला कलेक्टर के पास नहीं हैं। जिला कलेक्टर के आदेश पूरी तरह से मनमाना व अवैधानिक है। एकलपीठ ने याचिका की सुनवाई के बाद वेतन से कटौती की गई राशि आठ प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ याचिकाकर्ता शिक्षक को प्रदान करने के आदेश जारी किए हैं। एकलपीठ ने कलेक्टर के आदेश को मनमाना व गैरकानूनी मानते हुए याचिका व्यय के लिए 25 हजार रुपये की कॉस्ट लगाई है।

कार में चलने वाले ऑयल चोर गिरोह को पुलिस ने पकड़ा; 15 दिन पहले ट्रंसफार्मर तोड़ चुराया था 195 ली. तेल

उज्जैन, 9 जनवरी (एजेंसियां)। मध्य प्रदेश के उज्जैन में पुलिस ने कार में सवार हो तेल चोरी करने वाले दो चोरों को हिरासत में लिया है। उनके पास से स्कार्पियो कार और 16 हजार रुपये कीमत का ऑयल बरामद किया गया है। दरअसल, 15 दिन पहले ग्राम सोहड़ में विद्युत ग्रिड के ट्रंसफार्मर को तोड़कर 195 लीटर ऑयल चोरी किया गया था। हालांकि बदमाशों का एक साथी अभी भी फरार है। गिरफ्त में आए बदमाशों को न्यायालय के आदेश पर जेल भेजा गया है। इंगोरिया थाना एसएसआई दिनेश निनामा ने इस मामले की पूरी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 21 दिसंबर की रात ग्राम सोहड़ शुक्ला वाला विद्युत ट्रंसफार्मर की बुशिंग खोलकर उसमें से हजारों रुपये कीमत का 195 लीटर ऑयल अज्ञात बदमाशों ने चोरी कर लिया था। मामले की शिकायत लोकेंड सिंह पिता शंकरलाल चौहान निवासी विद्युत ग्रिड पीरझलार ने दर्ज कराई थी। पुलिस ने बताया कि मामले में प्रकरण दर्ज कर बदमाशों का पता लगाया जा रहा था।

कश्मीर में हाड़ कंपा देने वाली टंड से कुश राहत के बीच शीतलहर की स्थिति जारी

शीनगर, 9 जनवरी (एजेंसियां)। कश्मीर में हाड़ कंपा देने वाली टंड से कुछ राहत मिलने के बावजूद शीतलहर की स्थिति जारी है। घाटी में अभी भी तापमान जमाव बिंदु से नीचे बना हुआ है। अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि श्रीनगर में सोमवार रात न्यूनतम तापमान शून्य से नीचे 2.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जबकि पिछली रात यह शून्य से नीचे 4.3 डिग्री सेल्सियस नीचे था। काजीगंड में न्यूनतम तापमान शून्य से नीचे 2.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जो रविवार को शून्य से नीचे 4.2 डिग्री सेल्सियस था। वहीं, उत्तरी कश्मीर के गुलमर्ग के स्की रिसॉर्ट में सोमवार को न्यूनतम तापमान 4.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जो बीती रात के तापमान से कुछ कम है। अधिकारियों ने बताया कि दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले के

पहलगाम में न्यूनतम तापमान शून्य से नीचे 4.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि पिछली रात यह शून्य से नीचे 5.13 डिग्री सेल्सियस से अधिक था। कोकरनाग शहर में न्यूनतम तापमान शून्य से नीचे 1.2 डिग्री और कुपवाड़ा में शून्य से नीचे 4.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। कश्मीर वर्तमान में ‘चिल्लई-कलां’ की चपेट में है। यह 40 दिनों की भीषण सर्दी की अवधि है। इस दौरान क्षेत्र में शीत लहर चलती है और तापमान बेहद नीचे चला जाता है जिससे प्रख्यात डल झील सहित जल निकाय जम जाते हैं। घाटी के कई हिस्से इस स्थिति का सामना करते हैं। इस अवधि के दौरान बर्फबारी की आशंका सबसे अधिक होती है और ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी भी होती है। चिल्लाई-कलां 31 जनवरी को खत्म होगा।

जालंधर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में बड़े घोटाले की सुगबुगाहट

केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लगाए गंभीर आरोप



पर करीब एक हजार करोड़ के महाघोटाले पर जालंधर बीजेपी नेताओं ने केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुनराम मेघवाल को इसकी जांच सीबीआई और केंद्रीय विजिलेंस कमीशन से करवाने की अपील की थी और इस मुद्दे पर सभी जालंधर बीजेपी नेताओं ने हस्ताक्षर करके शिकायत पत्र भेजा था। इस पर कार्यवाई करते हुए केंद्रीय कानून मंत्री मेघवाल ने केंद्रीय आवास और शहरी विकास कार्य मंत्री हरदीप पुरी के मंत्रालय के अंतर्गत चल रहे स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट जालंधर मे हुए महाघोटाले की जांच करवाने की मांग करते हुए चिट्ठी लिखकर निजी तौर पर गुहार की है। **क्या है मामला?** बीते दिनों केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जालंधर गए थे। इस दौरान जालंधर के नेताओं ने ये मुद्दा उनके सामने रखा। जिसके बाद मंत्री मेघवाल ने मामले की जांच को लेकर पत्र हरदीप सिंह पुरी को लिखा था। उन्होंने अपने पत्र में लिखा कि केंद्र की योजनाएं लोगों तक पहुंचने में भगवंत मान

नई दिल्ली, 9 जनवरी (एजेंसियां)। दिल्ली में शराब नीति मामले में फंसी आम आदमी पार्टी के लिए अब पंजाब में भी मुश्किलें खड़ी होती दिख रही हैं। जालंधर नगर निगम में स्मार्ट सिटी के नाम पर हुए बड़े घोटाले का मामला अब केंद्र सरकार के पास पहुंच गया है। दरअसल, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल ने मानवीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्री हरदीप पुरी को पत्र लिख कर मामले की सख्त कार्यवाई की मांग की है। इस घोटाले में पंजाब सरकार की मिली भगत के आरोप लग रहे हैं। दरअसल, पंजाब के जालंधर में नगर निगम के स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में विकास के नाम

दिल्ली में टंड का प्रकोप रहेगा जारी

पंजाब, यूपी समेत कई जगह पर छाया रहेगा घना कोहरा, स्कूल भी रहेंगे बंद

नई दिल्ली, 9 जनवरी (एजेंसियां)। दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में मंगलवार की सुबह ठंड और कोहरा छाया रहा, जिसके चलते राष्ट्रीय राजधानी में न्यूनतम तापमान गिरकर 6 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के मुताबिक, अगले कुछ दिनों के दौरान पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और उत्तर प्रदेश समेत उत्तर भारत के कई हिस्सों में शीत लहर और घने कोहरे की स्थिति बनी रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने कहा कि पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों पर और जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम राजस्थान के अलग-अलग स्थानों पर घने से बहुत घना कोहरा छाया रहेगा। इसके साथ ही पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ के साथ साथ पश्चिम उत्तर प्रदेश और राजस्थान के अलग-अलग स्थानों पर ठंडे दिन से लेकर गंभीर ठंडे दिन की स्थिति भी बनी रहेगी। इसके अलावा पूर्वी राजस्थान के अलग-अलग स्थानों पर आंधी/बिजली भी देखी गई। दिल्ली में ठंड का प्रकोप जारी रहने के कारण लोग खुद को गर्म रखने के लिए आग के पास बैठे रहने का प्रयास

करते हैं। मौसम विभाग ने 8-10 जनवरी के दौरान उत्तर-पश्चिम और मध्य भारत में गरज के साथ ताजा बारिश या ओलावृष्टि की संभावना जताई है। इस बीच, दिल्ली में आंशिक रूप से बादल छाये रहने की संभावना है और बहुत हल्की बारिश/बूँदाबांदी की भी संभावना है। मौसम विभाग ने कहा कि सुबह के समय मध्यम से घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। अधिकतम एवं न्यूनतम तापमान क्रमशः 17 एवं 6 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की भी संभावना है। स्कूल रहेंगे बंदशिक्षा मंत्री आतिशी ने रविवार को कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में ठंडे मौसम की स्थिति के कारण नर्सरी से कक्षा 5 तक के छात्रों के लिए दिल्ली में स्कूल अगले पांच दिनों (12 जनवरी तक) बंद रहेंगे। दिल्ली के स्कूल 1 जनवरी से शीतकालीन अवकाश के कारण बंद हैं और कक्षाएं 8 जनवरी (सोमवार) से फिर से शुरू होने वाली थीं। इस बीच, गौतम बौद्ध नगर जिला प्रशासन ने भी घोषणा की कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा के सभी स्कूलों में कक्षा 8 तक के छात्रों के लिए 14 जनवरी तक छुट्टियां रहेंगी।

यूपी में छह आईपीएस अफसरों के तबादले, रवींद्र गौड़ आगरा के नए कमिश्नर बने

लखनऊ, 9 जनवरी (एजेंसियां)। उत्तर प्रदेश शासन ने मंगलवार को छह आईपीएस अफसरों का तबादला कर दिया जिसमें आगरा के कमिश्नर डॉ. प्रीतिंदर सिंह शामिल हैं। उनकी जगह गोरखपुर के आईजी रेंज जे रवींद्र गौड़ को आगरा का नया कमिश्नर बनाया गया है। प्रीतिंदर सिंह को डीजीपी मुख्यालय से संबद्ध किया गया है। इसके अलावा प्रयागराज के आईजी रेंज प्रशांत कुमार द्वितीय को अभियुक्त मुख्यालय भेजा गया है। केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से वापस आने के बाद प्रतीक्षरत चल रहे प्रेम कुमार गौतम को प्रयागराज का आईजी रेंज बनाया गया है। गौतमबुद्धनगर के अपर पुलिस आयुक्त सुरेश राव कुलकर्णी को गोरखपुर का आईजी रेंज बनाया गया है। काचगार विभाग में तैनात शिवहरि मीना को गौतमबुद्धनगर में अपर पुलिस आयुक्त बनाया गया है।

नाबालिग से दुष्कर्म मामले में निलंबित अधिकारी प्रेमोदय खाखा के बच्चों को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने दी अग्रिम जमानत

नई दिल्ली, 9 जनवरी (एजेंसियां)। नाबालिग से दुष्कर्म मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार के निलंबित अधिकारी प्रेमोदय खाखा की बेटी और बेटे को अग्रिम जमानत दे दी है। न्यायमूर्ति सीटी रविकुमार और न्यायमूर्ति राजेश बिंदल की पीठ ने यह कहते हुए राहत दी कि याचिकाकर्ता जांच में शामिल हुए थे। पीठ ने एक आदेश में कहा कि बयान को पढ़ने और दोनों पक्षों के वकीलों को सुनने और रिकॉर्ड पर मौजूद सबूतों को देखने के बाद, हमारा विचार है कि इन विशेष अनुमति याचिकाओं का निपटारा किया जा सकता है। पीठ ने सीआरपीसी की धारा 438 (2) के तहत निर्धारित शर्तों के अधीन, 25,000 रुपये के बांड प्रस्तुत करने पर उनकी गिरफ्तारी की स्थिति में याचिकाकर्ताओं को जमानत पर

नई दिल्ली, 9 जनवरी (एजेंसियां)। नाबालिग से दुष्कर्म मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार के निलंबित अधिकारी प्रेमोदय खाखा की बेटी और बेटे को अग्रिम जमानत दे दी है। न्यायमूर्ति सीटी रविकुमार और न्यायमूर्ति राजेश बिंदल की पीठ ने यह कहते हुए राहत दी कि याचिकाकर्ता जांच में शामिल हुए थे। पीठ ने एक आदेश में कहा कि बयान को पढ़ने और दोनों पक्षों के वकीलों को सुनने और रिकॉर्ड पर मौजूद सबूतों को देखने के बाद, हमारा विचार है कि इन विशेष अनुमति याचिकाओं का निपटारा किया जा सकता है। पीठ ने सीआरपीसी की धारा 438 (2) के तहत निर्धारित शर्तों के अधीन, 25,000 रुपये के बांड प्रस्तुत करने पर उनकी गिरफ्तारी की स्थिति में याचिकाकर्ताओं को जमानत पर

रिहा करने का निर्देश दिया। **11 अक्टूबर की जमानत देने से किया था इनकार** याचिकाकर्ताओं की ओर से वकील शुभाशीष आर सोरेन और भक्ति सिंह उपस्थित हुए। इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने पिछले साल 11 अक्टूबर को खाखा की बेटी और बेटे को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया था और कहा था कि प्रथम दृष्टया इस चरण में उनसे 'व्यापक पूछताछ' की आवश्यकता है। इससे पहले पीठ ने माना था कि भाई-बहन को पहले जमानत देना



विवेकपूर्ण नहीं होगा। **उच्च न्यायालय का खटखटाया था दरवाजा** बता दें कि प्रेमोदय खाखा के बेटे और बेटी ने ट्रायल कोर्ट से राहत हासिल करने में विफल रहने के बाद मामले में गिरफ्तारी से पहले जमानत की मांग करते हुए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। खाखा ने कथित तौर पर नवंबर 2020 और जनवरी 2021 के बीच नाबालिग लड़की से कई बार दुष्कर्म किया और अगस्त में गिरफ्तारी के बाद से वह फिलहाल जेल में है। पुलिस

सिरमौर में सड़क हादसा, बोलरो कैपर खाई में गिरने से दो की मौत, 17 लोग घायल

शिलाई, 9 जनवरी (एजेंसियां)। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में बड़ा सड़क हादसा हुआ है। मंगलवार को पुलिस थाना शिलाई तहत बोबरी-बश्वा सड़क पर एक बोलरो कैपर गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। हादसे में दो लोगों की मौत हो गई जबकि 17 घायल हुए हैं। हादसे के समय गाड़ी में 19 लोग सवार थे। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस थाना प्रभारी शिलाई टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। सभी घायलों को उपचार के लिए शिलाई अस्पताल लाया गया। मृतकों की पहचान करीना (19) पुत्री फकीर चंद निवासी गांव हंडाड़ी व मोहन सिंह(62) पुत्र प्रीतम सिंह गांव बश्वा के रूप में हुई है।

बिलकिस बानो केस में ‘सुप्रीम’ फैसला, मौलाना मदनी ने किया स्वागत, कहा- न्याय के शासन की जीत



नई दिल्ली, 9 जनवरी (एजेंसियां)। सुप्रीम कोर्ट ने बिलकिस बानो के कुसूरवारों को बड़ा झटका देते हुए गुजरात सरकार को पलट दिया है। वहीं इस फैसले के बाद सियासी गलियारों में मामला चर्चा का विषय बन गया है। जमीअत उलमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना

महमूद असद मदनी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि यह कानून और न्याय के शासन की जीत है और इसका स्पष्ट संदेश है कि किसी भी स्थिति में न्याय से समझौता नहीं किया जाना चाहिए। मौलाना मदनी ने कहा कि उम्मीद है कि यह फैसला

दाहोद जिले में दंगाइयों ने कैसरपुरा के असपास 18 लोगों को शहीद कर दिया। बिलकिस और उसकी 7 सहेलियों के साथ दरिंदों ने सामूहिक बलात्कार किया। बिलकिस की लड़की को चौरकर आग में डाल दिया गया। **गुजरात पुलिस की जांच में लापरवाही** मौलाना ने कहा कि गुजरात पुलिस ने जांच में लापरवाही की, जिसके कारण किसी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने मामले की जांच सीबीआई को सौंपी। गुजरात सरकार के रवैये के कारण बिलकिस बानो का मामला बॉम्बे हाई कोर्ट में स्थानांतरित हो गया,

जहां जमीअत उलमा-ए-हिंद और जन विकास नामक संगठन ने मुकदमे की पैरवी की। **2022 में अपराधियों की रिहाई** इसके साथ ही रणथीपुर के लोगों के लिए बारिया नामक कस्बे में ‘रहीमाबाद’ के नाम से जमीअत उलमा-ए-हिंद ने एक कॉलोनी का निर्माण करवाया, जहां बिलकिस बानो अपने पति के साथ रहने लगीं। अभी 2022 में जब इन अपराधियों की रिहाई हुई तो गांव में डर का माहौल पैदा हो गया था। इस मौके पर जमीअत उलमा-ए-हिंद के प्रतिनिधिमंडल ने जमीअत महासचिव मौलाना हकीमुद्दीन कासमी के नेतृत्व में

अल्पसंख्यकों का सुप्रीम कोर्ट के प्रति विश्वास मजबूत होगा। **सरकार माफ करने के लिए अधिकृत नहीं** इस बात पर बहस चल रही थी कि क्या राज्य सरकार ऐसा करने के लिए अधिकृत है, उस समय गुजरात सरकार द्वारा इसका कोई जवाब नहीं दिया गया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि गुजरात सरकार उन्हें माफ करने और पछाड़ियों की सजा माफ करने लगे तो देश में कानून और न्याय की स्थिति क्या होगी? इस निर्णय से एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट की गरिमा और सर्वोच्चता सुनिश्चित हुई है, इससे देश के आम नागरिकों खासकर

स्वतंत्र वाता

बुधवार, 10 जनवरी - 2024

बांग्लादेश के चुनावी नतीजे

बांग्लादेश में हुए ताजा चुनावों के दौरान कम मतदान और विपक्षी दलों की लगभग अनुपस्थिति को देखते हुए नतीजे बिल्कुल आकलन और उम्मीद के मुताबिक आए। इसमें अवामी लीग पार्टी को भारी जीत मिली और एक बार फिर शेख हसीना के नेतृत्व में बांग्लादेश में नई सरकार का गठन होना तय है। यानी कहा जा सकता है कि चुनावों से पहले ही उपजी अलग-अलग परिस्थितियों के बीच शेख हसीना और उनकी पार्टी के लिए एक तरह से अनुकूल स्थिति थी और उनके सामने राजनीतिक चुनौती न के बराबर थी। मगर अब देखने की बात होगी कि खाली मैदान में हासिल चुनावी जीत के बाद बनने वाली सरकार और शासन-तंत्र में लोकतंत्र कितना सुरक्षित रह पाएगा। गौरतलब है कि रविवार को हुए चुनावों में शुरू में बहुत कम यानी 27.15 फीसद मतदान हुआ, मगर बाद में यह आंकड़ा चालीस फीसद तक पहुंच गया, जिस पर सवाल भी उठे। इसके बावजूद कहा जा सकता है कि वहां विपक्षी दलों के चुनावी बहिष्कार के आह्वान का खासा प्रभाव पड़ा। यह बेवजह नहीं है कि चुनाव के मैदान में लगभग एकतरफा लड़ाई और जीत के बाद सबसे ज्यादा इस बात को लेकर चिंता जताई जा रही है कि वहां लोकतंत्र का भविष्य क्या रहेगा। दरअसल, पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के नेतृत्व वाली बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के साथ-साथ पंद्रह अन्य राजनीतिक दलों ने चुनाव का बहिष्कार किया था। इस बीच चुनावों से पहले ही शेख हसीना सरकार ने बड़ी संख्या में कई प्रतिद्वंद्वी नेताओं और उनके समर्थकों को गिरफ्तार कर लिया था, जिसकी तीखी निंदा हुई थी। ऐसी स्थिति में हुए चुनावों में अगर अवामी लीग पार्टी को तीन सौ सीटों वाली संसद में दो सौ तेईस सीटें मिलीं, तो इसे अनुकूल बिसात पर मिली जीत कहा जा सकता है। नतीजों के बाद संसद में मुख्य विपक्षी दल जातीय पार्टी को ग्यारह और बांग्लादेश कल्याण पार्टी को एक सीट पर जीत मिली, जबकि बासठ निर्दलीय उम्मीदवारों को विजय मिली। नई संसद में अब सत्ताधारी दल को संख्या के मुताबिक जो हैसियत मिलेगी, उसमें संसद में होने वाली बहसों से लेकर नीतिगत निर्णयों के मामले में विपक्ष की आवाज को कितनी जगह मिलेगी, यह समझना मुश्किल नहीं है। इस लिहाज से, बांग्लादेश में अगर इस बात की आशंका जताई जा रही है कि अवामी लीग की जीत के बाद वहां एक पार्टी के शासन वाली व्यवस्था स्थापित हो सकती है, तो यह बेवजह नहीं है। यों किसी भी शासन में अगर विपक्ष और उसके नेताओं के सवालों के लिए जगह सिमटती है, तो इससे वहां लोकतंत्र का हनन होता है। हालांकि देश की आर्थिक स्थिति में सुधार के मामलों में शेख हसीना के हिस्से कुछ कामयाबियां जरूर दर्ज हैं। बीते एक दशक के दौरान आर्थिक मंदी पर सुधार की बदीलत बांग्लादेश में प्रतिव्यक्ति आय में करीब तीन गुना बढ़ोतरी हुई और काफी तादाद में लोग गरीबी से बाहर निकले। मगर फिलहाल महंगाई से लेकर कर्ज तक के मामले में देश की तस्वीर काफी बिगड़ी है। जाहिर है, अवामी लीग पार्टी और उसकी नेता शेख हसीना बांग्लादेश में लोकतंत्र को लेकर जताई जाने वाली आशंका को निराधार साबित करना चाहती हैं, तो उन्हें राजनीतिक-आर्थिक से लेकर जनहित के मोर्चों पर एक साथ काम करने होंगे। बांग्लादेश की सरकार को भारत का साथ मिलता रहा है, मगर इसका भविष्य शायद इस बात पर निर्भर करेगा कि वहां की सरकार देश में लोकतंत्र सुनिश्चित करने को लेकर कितनी गंभीर रहती है।

सदी का चौथा बंदर



ऐसे तो ब हु ते रे दु नि या जगत में हर तरफ बंदर है लेकिन दुर्भाग्यवश अपने आप को ईंसान समझते हैं

। लेकिन गांधी जी के बंदरों की बात ही कुछ और है। जितनी ख़्वाति गांधी जी के बंदरों को प्राप्त है। उतनी अगर किसी ईंसान को मिल जाए तो उसका तो बैठे बिठाये दिमाग ही खराब हो जाए। ईंसान को तो बात ही अलग है उसे तो बीमारी है हर छोटी-छोटी बात पर अहंकार में भर जाने की। लेकिन गांधी जी के बंदर ईंसान थोड़ी ना है वह जानते हैं जब तक वह कुछ देख सुन नहीं रहे ..बोल नहीं रहे हैं। तभी तक उनकी जय जयकार है। देखना सुनना बोलना चाकू कर दिव् तो तो लोगों के द्वारा नकार दिए जाएंगे और उनकी जगह पर कोई तुरंत दूसरा आकर काबिज हो जाएगा। इसीलिए गांधी जी के बंदर सोच तो लोगों के प्रति भूल जाएँ। अगर आपकी रणनीति के तहत ना कुछ बोलते हैं ना सुनते हैं ना देखते हैं। अपने देश में ऐसे बंदरों की बहुतायत है। गांधी जी का पहला बंदर कहता है बुरा मत देखो.. अब बताइए भला यह भी कोई मानने वाली बात है। आप कहीं पर सत्यनारायण की कथा कहवा दीजिए देखिए उसमें कितने लोग बिना बुलाए आते हैं और कुछ तो इतने बंदर होते हैं कि बुलाने पर भी नहीं आते हैं।लेकिन वही कहीं पर मारपीट हो रही है तो वहां पर लोगों की संख्या देख लीजिए.. और सारे बिना बुलाए आते हैं। उनके बाद भी यह कहना कि बुरा मत देखो काफी असंगत बात है। तो गांधी जी का पहला बंदर तो इस दुनिया के लिए किसी काम का नहीं है। गांधी जी का दूसरा बंदर कहता है बुरा मत सुनो.. सुनना बहुत ही उच्च कोटि का कार्य है और आज की पीढ़ी इतने उच्च

कार्य नहीं करती है। कि वह किसी की सुनने जाए.. अरे वह तो अपने आप की भी नहीं सुनती है उसका दिमाग कहता रहता है कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब और रील बनाओगे तो जिंदगी हो जाएगी खराब.. लेकिन उसके बावजूद आज की पीढ़ी रील बनाने पर हो लगी हुई है। जब वह अपने आप की नहीं सुनती तो दूसरे की क्या खाक सुनेंगे। तीसरा बंदर कहता है बुरा मत बोलो.. आजकल बोलने कहां दिया जाता है कि लोग बोलें.. हर कोई बड़ा सोच समझ कर ही आजकल के जमाने में बोलता है। क्योंकि रिकॉर्डिंग का जमाना है.. आप इधर कुछ अर्थ बोले और उधर कुछ उसमें अनर्थ जोड़कर आपकी खंटीया खड़ी कर दी जाएगी। इसीलिए जिसको बोलना है वह भी चुप है और जो सुनकर पक चुका है वह भी चुप है। आजकल सबसे खतरनाक कम बोलना ही है बोलने के लिए मुंह में जुबान नहीं कलेजे में दम चाहिए। और इस जमाने में आपका दम निकालने के लिए हजारों तरीके हैं इसीलिए बोलने की बात भील जाएँ। अगर आपकी जुबान में ज्यादा ही खुजली हो रही है तो अपने आप को ही सुना लीजिए औरों को सुनाने की बात छोड़ दीजिए।

गांधी जी के तीन बंदरों के अलावा इस सदी को एक चौथा बंदर भी मिल गया है। जो सिर्फ अपने मोबाइल में व्यस्त रहता है.. वह ना बुरा देखता है.. ना बुरा सुनता है.. और ना बुरा कहता है। यह चौथा बंदर तो ऐसा है जो ना इधर देखता है ना उधर देखता है ना सुनता है ना बोलता है बस अपने आप में मगन रहता है। इस बंदर को दुनिया में आग भी लग जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला बस उसके मोबाइल में नेट रहना चाहिए । बाकी दुनिया भाड में जाए। यह बंदर अपने मोबाइल में ही हंस्ता, गाता, रोता, खेलता, कूदता अपनी दुनिया बनाते और किंगडोता रहता है इसे बाहरी दुनिया से कुछ नहीं लेना देना होता है।

बढ़ती जा रही है नीतीश कुमार की मुश्किलें



अशोक भाटिया

जैसे -जैसे 2024 लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे - वैसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। उन्हें कई मोर्चों पर लड़ना पड़ रहा है जैसे इंडियन गठबंधन में अपना प्रभुत्व कायम करना , तब तक बिहार में अपना मुख्यमंत्री पद कायम रखना , भाजपा के हमलों का जवाब देना वगैरह । इसके साथ ही बिहार में कभी नीतीश कुमार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ चल चुके राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर जो इस समय बिहार की जन सुराज के सूत्रधार है , उनकी हर बात का विरोध। प्रशांत किशोर उर्फ पीके ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हाल ही में जो तंज कसे है पहले उसके बारे में बात करते हैं । पीके ने मुख्यमंत्री नीतीश के हाव भाव और उनके वक्तव्यों की ओर संकेत करते हुए कहा कि उन पर उम्र का प्रभाव होने के साथ ही अहंकार का असर हो गया है। कई बातों को वह या तो हल्के में लेते हैं और उसकी खिल्ली सरेआम उड़ाते हैं या फिर दूसरों को अपने से कमतर बताते हुए खुद को ऊपर साबित करने का प्रयास करते हैं। साथ में पीके ने दावा किया कि मुख्यमंत्री नीतीश राजनीतिक अंत करीब आ गया है। नीतीश कुमार पर प्रशांत किशोर ने कहा कि- वह हाल में ही मोतिहारी में एक दसम कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के सामने भाजपा वालों को ऐसे दोस्त बता रहे थे, जैसे औपचारिक कार्यक्रम न कर घर में बैठकर भूजा खाते हुए बात कर रहे

हैं, अहंकार का असर है कि किसी भी बात को हल्के में उड़ा देते हैं। नीतीश कुमार के किसी भी वक्तव्यों को आप देखेंगे, वह मंच पर खड़े होकर अपने अफसरों की खिल्ली उड़ाते हैं। पीके ने कहा, वो राष्ट्रपति के सामने खड़े होकर जो वक्तव्य दे रही थे , जिसमें उन्होंने भाजपा वालों को कहा कि आप सब मेरे दोस्त ही हैं। इस पर काफी विवाद भी हुआ। आप उस भाषण को सुनिए, राष्ट्रपति के सामने एक औपचारिक कार्यक्रम में जिस तरह से वह भाषण दे रहे हैं, उससे ऐसा लग रहा है कि वह अपने घर में भूजा खाते हुए लोगों से बात कर रहे हैं। कहीं न कहीं ये उनकी उम्र का असर है और कहीं थोड़ा बहुत अहंकार भी है। प्रशांत किशोर ने कहा कि किसी भी कार्यक्रम में, किसी भी बात को सीरियस न लेते हुए हल्के में उड़ा देना उनकी आदत हो गई है। नीतीश कुमार का तर्किया कलाम है कि- 'अरे इसको कुछ आता है'। अरे भाई! किसी को कुछ नहीं आता है, आपको तो आता है। आप इस राज्य के मुखिया हैं, आप इसे सुधारिए। अगर आप ही को सबकुछ आता है तो बिहार सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य क्यों है? प्रशांत किशोर ने कहा था कि नीतीश कुमार पढ़े-लिखे, बहुत होशियार व्यक्ति हैं लेकिन सिर्फ वे ही बिहार के एक मात्र पढ़े-लिखे व्यक्ति नहीं हैं। प्रशांत किशोर ने कहा कि शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि जो राजा लोगों से विचार-विमर्श और सलाह लेना बंद कर देता है, उसका पतन जल्द हो जाता है। इसी तरह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का रहे थे, जैसे औपचारिक कार्यक्रम न कर घर में बैठकर भूजा खाते हुए बात कर रहे

की ओर से जारी आर्थिक सर्वेक्षण को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तंज कसा । उन्होंने कहा कि कभी-कभी जब दिन खराब होता है तो आप सोचकर अच्छा भी करने जाइएगा तो उल्टा ही होगा। नीतीश कुमार ने अपने राजनीतिक फायदे को सोचकर आर्थिक सर्वेक्षण जारी किया लेकिन राजनीतिक तौर पर नुकसान हो रहा है। इसी को कहते हैं गोबर को उठाकर मुंह पर लगाना। प्रशांत किशोर ने कहा कि 32 साल से सत्ता पर काबिज लालू यादव और नीतीश कुमार ने वंचितों के हक की हकमारी की है। पीके ने कहा कि अभी सरकार ने जातीय जगनणना से जोड़कर जो आर्थिक सर्वेक्षण जारी किया, उसी आंकड़े को देखिए तो पता चलता है कि 20 फीसदी बिहार के लोग शोषण में रहते हैं। उनके पास अपना घर नहीं है। आप तो गोबर मुंह पर लगा रहे हैं कि 32 साल से सरकार चलाने के बाद कइ रहे हैं 20 फीसदी लोगों के पास घर नहीं है या झोपड़ी में रह रहे हैं। प्रशांत किशोर ने आगे कहा कि सर्वेक्षण बता रहा है कि 80 फीसदी बिहार के लोग दिनभर में 100 रुपए भी नहीं कमाते हैं. ये 32 सालों के लालू-नीतीश राज का असर है. उसी का ये परिणाम है। जहां तक सामाजिक भागीदारी की बात है तो लोग कह रहे हैं कि समाज में एक बहुत बड़ा वर्ग है जिसको भागीदारी नहीं मिली और जिसे वंचित रखा गया। उसके नाम पर हल्ला मचा रहे हैं लेकिन कोई ये पुछने वाला नहीं है कि 32 सालों से सत्ता में ये खूब शोर मचाया कि नीतीश कुमार कहा कि अगर किसी ने हकमारी की है तो लालू यादव और नीतीश कुमार ने

हकमारी की है। बिहार में अगर वंचित समाज के, अति पिछड़ा समाज के, दलितों को, मुसलमानों को अगर जगह नहीं मिली तो ये जगह लालू और नीतीश ने नहीं दी है। आज यही लोग अपने राजनीतिक लाभ के लिए फिर इन लोगों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। इस समय नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन का संयोजक बनाए जाने की चर्चा जोर शोर से चल रही है। नीतीश कुमार के समर्थकों के साथ राजद और कांग्रेस के कुछ नेता भी उन्हें इस पद के लिए सबसे योग्य बता रहे हैं। इस पर जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर की प्रतिक्रिया सामने आई है।

पीके ने बिहार मुख्यमंत्री पर तंज कसते हुए कहा कि लोग जबरदस्ती नीतीश कुमार को इतना बड़ा नेता बताते हैं। लग रहा है कि इन्हीं से ही देश की राजनीति चल रही है। दरअसल नीतीश कुमार की राजनीति का यह अंतिम दौर है। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं और इसी नजरिए से उनकी चर्चा होती है। प्रशांत ने डिप्टी मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को भी आड़े हाथों लिया। प्रशांत किशोर ने कहा कि नीतीश कुमार को पक्ष या विपक्ष में कोई नहीं पुछ रहा है। जब नीतीश कुमार एनडीए में थे तो भाजपा ने इन्हें बुलाकर एक बार भी पूछा कि क्या करना है या नहीं करना है।भाजपा का साथ छोड़कर अब इंडिया गठबंधन में आए हैं तो यहां भी कोई नहीं पूछ रहा है। उन्होंने कहा कि पटना में जो इंडिया अलायंस की बैठक हुई तो उनके लोगों ने खूब शोर मचाया कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के दावेदार हो गए और चेहरा हो गए। फिर जब पीएम कैडिडेट नहीं

बन पाए तो चर्चा हुई कि संयोजक बनाए जाएंगे लेकिन अभी तक उन्हें कुछ नहीं मिला। हालत यह है कि नीतीश कुमार को तो कोई पूछ भी नहीं रहा है। दरभंगा में जन संवाद के दौरान प्रशांत किशोर ने आगे कहा कि इंडिया गठबंधन में सबसे बड़ा दल कांग्रेस है। उसके बाद दूसरा बड़ा दल टीएमसी और तीसरे नंबर पर डीएमके है। नीतीश कुमार इन सबके बीच क्या ऐसा कर देंगे कि सबलोग उनकी मान लेंगे। नीतीश कुमार प्रशांत किशोर ने राजद के युवराज तेजस्वी को भी लपेटा। वह कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री देश का कौन होगा। दरअसल कोई पूछने वाला नहीं है कि आपके कितने सांसद हैं। हालत यह है कि 543 सांसदों वाली लोकसभा में आरजेडी के ज़ीरो सांसद हैं। ऐसे लोग भी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री कौन होगा, ये हम तय करेंगे। ये तो ऐसे हो गया कि हम यहां से बैठकर कहे कि अमेरिका का राष्ट्रपति कौन होगा। जब अपने ही मुंह से कहना है तो देश का प्रधानमंत्री ही क्यों, अमेरिका का राष्ट्रपति भी आप ही तय कर दीजिए। दरअसल आरजेडी के लोग बड़बोले हैं। अपने 5 सांसद तो जिता लीजिए फिर तय विपक्ष में कोई नहीं पुछ रहा है। जब नीतीश कुमार और उनकी पार्टी का दौर खत्म हो जाएगा।

यदि हम गठबंधन में नीतीश कुमार की बात करें तो नीतीश कुमार ने विपक्षी गठबंधन की नींव रखने के लिए पटना से दिल्ली और लखनऊ-कोलकाता से चेन्नई तक एक कर दिया था।

वैश्विक स्तर पर मान-सम्मान दिलाती है हिन्दी



योगेश कुमार गोयल

आधुनिकता की ओर तेजी से अग्रसर कुछ भारतीय ही आप भले ही अंग्रेजी बोलने में अपनी आन, बान और शान समझते हों किन्तु सच यही है कि हिन्दी ऐसी भाषा है, जो प्रत्येक भारतवासियों को वैश्विक स्तर पर मान-सम्मान दिलाती है। सही मायनों में विश्व की प्राचीन, समृद्ध एवं सरल भाषा है भारत की राजभाषा हिन्दी, जो न केवल भारत में बल्कि अब दुनिया के अनेक देशों में बोली जाती है। वैश्विक स्तर पर हिन्दी की बढ़ती ताकत का सबसे बड़ा सकारात्मक पक्ष यही है कि आज विश्वभर में करोड़ों लोग हिन्दी बोलते हैं और दुनियाभर के सैकड़ों विश्वविद्यालयों में हिन्दी पढ़ाई जाती है। दुनियाभर में हिन्दी के प्रचार-प्रसार के लिए वातावरण निर्मित करने तथा हिन्दी को अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में प्रस्तुत करने के उद्देश्य से पिछले कई वर्षों से 10 जनवरी को 'विश्व हिन्दी दिवस' मनाया जाता है। यह दिवस वास्तव में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिन्दी की महानता के प्रचार-प्रसार का एक सशक्त माध्यम है। पहली बार नागपुर में 10 जनवरी 1975 को विश्व हिन्दी सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें 30 देशों के 122 प्रतिनिधि शामिल हुए थे। तत्पश्चात भारत के बाहर मॉरीशस, यूनाइटेड किंगडम, त्रिनिदाद, अमेरिका इत्यादि देशों में भी विश्व हिन्दी सम्मेलन का आयोजन किया गया। विश्वभर की भाषाओं का इतिहास रखने वाली संस्था 'एथ्नोलॉग' के द्वारा जब हिन्दी को दुनियाभर में सर्वाधिक बोली जाने वाली तीसरी भाषा बताया जाता है तो सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। अगर हिन्दी बोलने वाले लोगों की संख्या की बात की जाए तो विश्वभर में पचहत्तर करोड़ से भी ज्यादा लोग हिन्दी बोलते हैं। इंटरनेट पर भी हिन्दी का चलन दिनों-दिन तेजी से बढ़ रहा है और दुनिया के सबसे बड़े सर्च इंजन गूगल द्वारा कुछ वर्षों पूर्व तक जहां अंग्रेजी सामग्री को ही महत्व दिया जाता था, वहीं अब गूगल द्वारा भारत में हिन्दी तथा कुछ क्षेत्रीय भाषाओं की सामग्री को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। माना जा रहा है कि देश में हिन्दी में इंटरनेट उपयोग करने वालों की संख्या अब अंग्रेजी में इसका उपयोग करने वालों से ज्यादा हो जाएगी। कुछ वर्ष पूर्व डिजिटल माध्यम में हिन्दी संस्कार करने वालों की संख्या करीब साढ़े पांच करोड़ थी, जो अब बढ़कर चौदह करोड़ से ज्यादा हो जाने का अनुमान है। इंटरनेट पर हिन्दी का जो दायरा

कुछ समय पहले तक कुछ ब्लॉगों और हिन्दी की चंद वेबसाइटों तक ही सीमित था, अब हिन्दी अखबारों की वेबसाइटों ने करोड़ों नए हिन्दी पाठकों को अपने साथ जोड़कर हिन्दी की ओर सामुद्र तथा जन-जन की भाषा बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तकनीकी रूप से हिन्दी को और ज्यादा उन्नत, समृद्ध तथा आसान बनाने के लिए अब कई सॉफ्टवेयर भी हिन्दी के लिए बन रहे हैं। यह हमारी राष्ट्रभाषा हिन्दी की ताकत ही कहीं नहीं जाएगी कि इसके इतने ज्यादा उपयोगकर्ताओं के कारण ही अब भारत में बहुत सारी बहुभाषीय कम्पनियां हिन्दी का ही उपयोग करने लगीं हैं। हिन्दी की बढ़ती ताकत को महसूस करते हुए भारत में ई-कॉमर्स साइटें भी ज्यादा से ज्यादा ग्राहकों तक अपनी पहुँच बनाने के लिए हिन्दी में ही अपनी 'एप' लेकर आ रही हैं। हिन्दी इस समय देश की सबसे तेजी से बढ़ती भाषा है। अगर 2011 की जनगणना के आंकड़े देखें तो 2001 से 2011 के बीच हिन्दी बोलने वालों की संख्या में हमारे देश में करीब 10 करोड़ लोगों की बढ़ोतरी हुई। वर्ष 2001 में जहां 41.03 फीसदी लोगों ने हिन्दी को अपनी मातृभाषा बताया था, वहीं 2011 में ऐसे लोगों की संख्या करीब 42 करोड़ के साथ 43.63 फीसदी दर्ज की गई और जिस प्रकार हिन्दी का चलन लगातार बढ़ रहा है, माना जाना चाहिए कि उसके बाद के करीब एक दशक में हिन्दी बोलने वालों की संख्या में कई करोड़ लोगों की बढ़ोतरी अवश्य हुई होगी। भारत लंबे समय तक अंग्रेजों का गुलाम रहा और उस दौरान हमारे यहां की भाषाओं पर भी अंग्रेजी दासता का बुरा प्रभाव पड़ा। इसी कारण राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने हिन्दी को 'जनमानस की भाषा' बताते हुए वर्ष 1918 में आयोजित 'हिन्दी साहित्य सम्मेलन' में इसे भारत की राष्ट्रभाषा बनाने को कहा था। सही मायने में तभी से हिन्दी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिलाने के प्रयास शुरू हो गए थे और गर्व का विषय यह है कि अब सैकड़ों देशों में हिन्दी का प्रयोग धीरे-धीरे बढ़ रहा है। अगर भारतीय परिवेश में हिन्दी के प्रचलन को लेकर बात की जाए तो यह चिंता की बात है कि भारतीय समाज में बहुत से लोगों की मानसिकता ऐसी हो गई है कि हिन्दी बोलने वाली को वे पिछड़ा और अंग्रेजी में अपनी बात कहने वालों को आधुनिक का दर्जा देते हैं। हिन्दी का करीब 1.2 लाख शब्दों का समृद्ध भाषा कोष होने के बावजूद अधिकांश लोग हिन्दी लिखते और बोलते समय अंग्रेजी भाषा के शब्दों का दिल खोलकर इस्तेमाल करते हैं।

सुरक्षा बलों में बढ़ती कुंठा और पलायन का कौन है जिम्मेवार ?



मनोज कुमार अग्रवाल

देश के सुरक्षा बल के जवानों में अवसाद व कुंठा क्यों पैदा हो रही है? क्या वजह है कि सुरक्षा बलों के लिए भर्ती होने के लिए कड़ी मेहनत व तैयारी कर तमाम मुसीबतें झेल कर भर्ती हुए जवान बड़ी तादाद में नौकरी छोड़ रहे हैं? वहीं सैकड़ों की संख्या में हर साल सुसाइड क्यों कर रहे हैं? युवाओं का सेना से मोह भंग होता जा रहा है और वे इस क्षेत्र में करियर के लिए उतने उत्सुक नहीं हैं, जितने पहले हुआ करते थे। पिछले कुछ समय में यह देखने में आया है कि युवा सेना की नौकरी से तय समय से पहले ही रिटायर होने का विकल्प चुन रहे हैं। आखिर ऐसे कौन से कारण हैं जिनकी वजह से युवाओं को सेना में नौकरी करना रास नहीं आ रहा है? पिछले साल 10 हजार से भी अधिक जवानों ने सेना से समय से पूर्व रिटायर होने का विकल्प चुना। एक तरफ जहां देश में बेरोजगारी का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है, वहीं सेना में शामिल ये युवा ऐसा कदम क्यों उठा रहे हैं? जबकि सरकार की अग्निवीर योजना आने पर तमाम सुविधा उठाए गए और शार्ट टर्म सेवा को लेकर जमकर के जवान में दी।आंकड़ों के मुताबिक, सीमा सुरक्षा बल के 236,553 जवानों ने नौकरी छोड़ी, जिसमें 21,692 ने रिटायरमेंट लिया और 1861 ने नौकरी से इस्तीफा दे दिया था। वहीं, केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स के 13,640 जवानों ने नौकरी छोड़ दी। जिसमें 13,027 में अपनी मर्जी से रिटायरमेंट लिया और 613 ने इस्तीफा दे दिया। असम राइफलस से 5,393 ने सर्विस छोड़ दी। 5,313 ने रिटायरमेंट लिया और 80 जवानों ने इस्तीफा दे दिया।

केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के 5,151 जवानों ने नौकरी छोड़ी। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के 2,868 जवानों ने रिटायरमेंट लिया और 2,283 ने इस्तीफा दे दिया। आंकड़ों के मुताबिक, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस से 3,165 जवानों ने सेवा छोड़ दी। इनमें से 2,354 ऐंच्छक अवकाश ले लिया और 811 ने इस्तीफा दे दिया। जबकि सशस्त्र सीमा बल के 2,434 जवानों ने सेवा छोड़ दी, इनमें 1,746 ने स्वेच्छे से रिटायरमेंट लिया और 688 ने इस्तीफा दे दिया। आपको बता दें कि सुरक्षा बलों से नौकरी छोड़ने के आंकड़े हर साल बढ़ रहे हैं। 2022 में 11,211 केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल जवानों ने रिटायरमेंट लिया और 1,169 ने इस्तीफा दे दिया। 2021 में 10,762 जवानों ने ऐंच्छक अवकाश ले लिया और 1241 ने इस्तीफा दे दिया। 2020 में 6,891 जवानों ने मर्जी से रिटायरमेंट लिया और 799 ने सेवा से इस्तीफा दे दिया। 2019 में 8,908 जवानों ने मर्जी से रिटायमेंट ले लिया और 1,415 ने इस्तीफा दे दिया। 2018 में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के 9,228 जवानों ने रिटायरमेंट ले लिया और 1,712 जवानों ने नौकरी से इस्तीफा दे दिया। पांच सालों में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के 230 जवानों ने जान दी। वहीं पांच साल में सुसाइड करने वाले 658 जवानों ने से केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के 230 जवानों ने जान दी। वहीं पांच साल में सुसाइड करने वाले 658 जवानों ने से केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के 174, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के 91, SSB के 65, भारत तिब्बत सीमा बल के 51 और असम राइफलस के 47 जवान थे। आंकड़ों के मुताबिक, 2022 में 136, 2021 में 155, 2020 में 142, 2019 में 129 और 2018 में 96 जवानों ने

सुसाइड की है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बताया कि स्थिति को देखते हुए सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स और असम राइफलस के जवानों को पोस्टिंग और छुट्टी की प्रक्रिया को पारदर्शी किया गया है। जेओखिम भरे क्षेत्र में पोस्टिंग के बाद उन्हें मनपसंद पोस्टिंग देने पर भी विचार किया जाता है। ड्यूटी के दौरान चोट लगने की वजह से अस्पताल में भर्ती होने पर जवानों को ड्यूटी पर ही माना जाता है। यह आंकड़े बताते हैं कि भारतीय सुरक्षा बलों में सब कुछ सुकून भरा सामान्य नहीं है। कहीं न कहीं सुरक्षा बलों में भर्ती होने के बाद जवानों को उचित माहौल व काम का अवसर नहीं मिल रहा है जिस कारण उनमें न सर्फ सेवा को ऐंच्छक तौर पर त्याग देने का चलन बढ़ा है वहीं अवसाद के भी शिकार हो रहे हैं और बड़ी संख्या में आत्महत्या का कदम भी उठा रहे हैं इतना ही नहीं की बार छोटी सी बात पर आक्रोशित होकर इतना आक्रामक हो जाते है कि अपने साथी सहकर्मियों पर हमला करने फायरिंग करने की वारदातों को भी अंजाम दे रहे हैं। हमारे सुरक्षा बलों के जवान हमारी अस्मिता के रक्षक हैं जो युवक देश की सुरक्षा की खातिर अपनी सेवाएं देने के लिए देश भक्ति और निष्ठा के भाव से देश के सुरक्षा बलों का अहमत्व को कदम भी उठा रहे हैं। आपहंता हो कर जान दे रहे हैं। साफ बोलें कि कहीं न कहीं सुरक्षा बलों के बीच माहौल खुशनुमा नहीं है उच्च स्तरीय अधिकारियों के भ्रष्टाचार के चलते सुरक्षा बलों के जवानों के लिए दी जाने वाली सुविधाएं और व्यवस्थाएं उस मानक पर जवानों के हिस्से में नहीं पहुंच पाती है जिस का मानक निर्धारित है।

हैं। जिस शह में ये पलते हैं, वहीं खुराक ही ऐसी मिलती है कि डरना, रोना, बिलखना, भागना इनके डिएनए. में ही नहीं दिखता। इन सबके बीच कुछ लोग बड़े ही अजीब होते हैं। पीठ के पीछे हाथी गुजर जाए कोई बात नहीं है, लेकिन अखों के सामने मक्खी गुजर जाए तो रहा नहीं जाता। ऐसे लोग आँखें होकर भी अंधे होते हैं। और आप किसी पता एक अदद बिस्तर ही मिल जाए। हम सदियों से तन धोते आ रहे हैं। मन को धूले एक युग बीत गया। मन धुला होता तो भ्रष्टाचार, महंगाई, असिहुला, भेदभाव, धर्म के नाम पर लड़ाई और बलात्कार के बैक्टेरिया और वायरस थोड़ी न हमारे देश में डेरा डाले रहते। ये तो इतने जिद्दी हैं कि वाटर केनन की बौछारों और लाठीचार्जों से डरना तो दूर कोरोना जैसी लाखों बीमारियों के बाप तक को मसलकर रख देते तस्वीर है।

कैसे-कैसे दृष्टांत



डॉ. सुरेश कुमार मिश्रा

अमृतकाल ! वाह क्या शब्द है! सुनते ही जीने-मरने की इच्छा समाप्त हो जाती है। चीज पापी पेट नाम की भी एक किंतु कहती है। इसके लिए हमें पौष्टिक भोजन की आवश्यकता होती है। हमारे लिए नहीं, तिरंगे की सेहत के लिए। आजकल उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता में बड़ी गिरावट आ गई है। उसे किसानों की पीठ पर बरसी लाठियों पर फहरने में बड़ा कष्ट हो रहा है। है तो तिरंगा ही। उसे किसी न किसी लाठी पर फहरना ही पड़ेगा। आजादी का अमृतोत्सव जो चल रहा है! डंडे और लाठी में अधिक अंतर नहीं है। दोनों नागनाथ और साँपनाथ में

हैं। इसका इस्तेमाल करने वाले सरकारें बदलती हैं, नीयत नहीं। डंडे पर झंडे बदलने वाले देश में डंडा कब लाठी रूपी वेश्या बन जाती है, पता ही नहीं चलता। एक बात तो माननी पड़ेगी कि डंडा झंडों के प्रति ईमानदारी दिखाने के चक्कर में हमेशा इस्तीफा होता रहता है। फहरने की क्रिया में डंडा और बरसने की क्रिया में लाठी बनना उसकी नियती है। हम शरीर से तिरंगा और मन से नंगा बनते जा रहे हैं। जबकि होना इसके विपरीत चाहिए। गिरते किसानों के हाथों और कटते हरित वनों के बीच तिरंगा फहरने का प्रयास तो कर रहा है, लेकिन उसका मन साथ नहीं दे रहा। लगता है अशोक चक्र को आईसीयू में भर्ती करवाना पड़ेगा। ऐसे आईसीयू में

जहाँ सच में ऑक्सीजन मिलता हो। लेकिन लाख टके का सवाल यह है कि क्या उसे अस्पताल में एक अदद बिस्तर मिल पाएगा! मैं तो अशोक चक्र से कहता हूँ कि आजादी के अमृतोत्सव के अवसर पर फहराने वाले बड़े-बड़े हाथों से दोस्ती ही कर ले। किसी पता एक अदद बिस्तर ही मिल जाए। हम सदियों से तन धोते आ रहे हैं। मन को धूले एक युग बीत गया। मन धुला होता तो भ्रष्टाचार, महंगाई, असिहुला, भेदभाव, धर्म के नाम पर लड़ाई और बलात्कार के बैक्टेरिया और वायरस थोड़ी न हमारे देश में डेरा डाले रहते। ये तो इतने जिद्दी हैं कि वाटर केनन की बौछारों और लाठीचार्जों से डरना तो दूर कोरोना जैसी लाखों बीमारियों के बाप तक को मसलकर रख देते





मगवान राम तो अंतर्धामी और नियती के हर गूढ़ रहस्यों को जानने वाले पराक्रम स्वस्वरूप माने जाते हैं। मां कैकेयि के राज दरशर से आग्रह करने पर जब यह सुनिश्चित हुआ कि श्री राम ही 14 वर्ष के लिए वनवास जाएंगे, तब मां सीता ने भी यह प्रण लिया था कि वह भी श्री राम की वनवास यात्रा में साथ जाएंगी। उन्होंने भी वन मार्ग की यात्रा में श्री राम के साथ जाने की हठ लगा ली। प्रभु राम भला कैसे अपनी प्रण प्रिय जानकी जी को वन मार्ग में दुःखी देख सकते थे। वह अच्छे से जानते थे कि एक वनवासी को किन पड़ावों से गुजरना पड़ता है और वहां किस प्रकार के कष्ट और घोर दुःख हैं। इसलिए उन्होंने मां सीता को वन मार्ग के दुःखों का वर्तानो समझाते हुए उन्हें साथ न चलने के लिए कहा। प्रभु राम ने मां सीता से कहा कि आप राज महलों में रही हैं। 14 वर्ष के वनवास में घोर दुःख के सिवा और कुछ भी नहीं है। पिता की आज्ञा का पालन करना मेरा परम धर्म है। अतः आप इस वन के कष्टों को जान लीजिए। आज हम आपको वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के सर्ग 28 में श्री राम द्वारा बताए गए वनवास के दुःखों का वर्णन बताते रा रहे हैं। आइए जानते हैं प्रभु राम ने 14 वर्षों के वनवास के कष्टों के बारे में क्या कहा।

श्रीराम ने बताया था एक वनवासी का कष्ट (वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड)

सीते यथा त्वां वक्ष्यामि तथा कार्यं
तव्याबले ।
वने दोषा हि बहवो वसतस्तान् निबोध ॥
श्री राम सीता जी से कहते हैं कि वन निवास करने
वाले मनुष्य को विभिन्न प्रकार के कष्ट भोगन पड़ते
हैं ॥ उन्हें आपको बताने आ रहा हूँ ।
गिरिनिर्झरसम्भूता गिरिनिर्दिरवासिनाम् ।
सिंहांनां निनदा दुःखाः शत्रुर्तु दुःखमतो
वनम् ॥
पहाड़ों से गिरने वाले झरनों की आवाज से वन
की गुफाओं में रहने वाले शेर उन्हें सुनकर
दहाड़ने लग जाते हैं । उनकी यह गर्जना सुनना
बड़ी दुःखदायी है । इसलिए वन का मार्ग
कष्टकारी है ।
क्रीडमानाश्व विस्त्रब्धा मत्ताः शून्ये तथा मृगाः ।
दृष्ट्वा समभिवर्तन्ते सीते दुःखमतो वनम् ॥
वन में कई सारे जंगली पशु मनुष्य को देखते
ही उनको अपना शिकार बनाने का प्रयास
करते हैं । इसलिए वन का मार्ग इतना सरल
नहीं है और वह घोर दुःखों से भरा हुआ है ।
सग्राहाः सरितश्चैव पंकवत्यस्तु दुस्तराः ।
मत्तैरपि गजेन्यन्ततो दुःखरं वनम् ॥
वन में ग्राह वने में अनेक प्रकार की नदियाँ हैं ।
उनमें ग्राह रहते हैं, उन नदियों में कोचड़
अधिक होने के कारण उन्हें पार करना बहुत
कठिन है । वहाँ जंगली हाथी भी घूमते हैं वन
का मार्ग सदा काष्टकारी ही होता है ।
लताकण्टकसंकीर्णाः कृकवाकूपनादितः ।
निरपायव सुदुःखाश्व मार्गा दुःखमतो

वनम॥
प्रभु राम आगे कहते हैं कि वन के उन भीषण जंगलों के रास्तों में कांटों वाली लताएँ हैं, जंगली पशु आवाज से गर्जना करते रहते हैं। वहाँ जल पीने के लिए ढूंढना पड़ता है, वन के मुँह में हर जगह घोर दुःख-संताप बिखरा हुआ है।
अहोरात्रं च संतोषः कर्तव्यो नियतात्मना ।
फलैर्वृक्षावधितैः सीतै दुःखमतो वनम॥
एक वनवासी के लिए मन को वश में रखना पड़ता है और पेड़ों से गिरे हुए रुखे-सुखे फलों की भी भोजन रूप में खाकर दिन-रात धैर्य रखना पड़ता है। वहाँ घोर दुःख के सिवा कुछ भी नहीं है।
वन का निवास नहीं है इतना सरल
इन सब कष्टों के अलावा प्रभु राम ने आगे बताया कि वनवास करने वाले लोगों को जैसा भोजन मिले वही खाना पड़ता है, वहाँ आँधी, घोर अंधकार, भूख का कष्ट और अन्य भय लगे रहते हैं। इसी के साथ वहाँ निम्न प्रकार के सांप रास्तों में विचरते रहते हैं और विष वाले बिच्छू, कोड़े एवं अन्य कीट पतंगे दुःख काट्यो हैं। वन मार्ग में मनुष्य को इन शारीरिक कष्टों को भोगने के सिवाय कुछ भी नहीं है। इसलिए मेरा निवेदन है आपसे की आप वनवास में चलने की हठ न करें। परंतु मां ज्ञान के ने यह प्रण किया कि इन सबके बावजूद भी वहाँ श्री राम के साथ वनवास के लिए जाएंगी।

पश्चिम गुरुदेव भगवान विष्णु से इस पुराण में वो सारी बातें मानव कल्याण के हित के बारे में पूछी हैं जिससे प्राणियों को मोक्ष मिले और उनका मानव जीवन सुखद बीते। आज हम आपको गुरु पुराण के अनुसार यह बताते जा रहे हैं कि जब किसी की अकाल मृत्यु होती है तो उसके निमित्त कौन सी पूजा कराने से मृत्यु लोगों की आत्मा को शांति प्रदान की जाती सकती है और यह पूजा कितनी जरूरी है। अकाल मृत्यु होने पर जीवात्मा विचलित हो जाती है गुरुद पुराण में बताया गया है कि जब किसी की असमान्य मृत्यु होती है जैसे की कारण से चोट लग जाना, किसी हादसे के कारण या किसी दुर्घटना के चलते जब मनुष्य प्राण त्यागता है तो उसे अकाल मृत्यु कहा जाता है। यह समय जीवात्मा के लिए बहुत कष्टकारी होता है क्योंकि उसका सांसारिक मोह होने के कारण उससे उसका शरीर छिन जाता है और वह पुनः अपनी देह में वापस आने के लिए व्यकुल होती है। अपने मृत्यु शरीर की जीवात्मा देखकर इसलिए बेचैन होती है क्योंकि उसकी कुछ अधूरी इच्छाएं, परिवार से मोह और अपनी से उम्मीदें ये सभी बातें उस समय जीवात्मा को घोर पीड़ा देती है। गुरुद पुराण के अनुसार वह जीवात्मा अपनी सीमित प्राण की अवधि तक 84 योनियों में से प्रेत योनि को प्राप्त करती है और जब योनय पूर्ण आयु अवधि नहीं पूरी होती है। वह इधर-उधर भूख

यास से व्याकुल होकर भटकती रहती है। यह सब कर्मों के अनुसार निर्धारित होता है।

अकाल मृत्यु हो जाने पर काराएं नारायण बलि पूजा
जीवात्मा को जब शांति नहीं मिलती या उसके निमित्त उचित क्रिया कर्म और अंतिम संस्कार नहीं होता तो वह अपने परिवर्जनों से यह अपेक्षा करती है कि वह उसके निमित्त उचित कर्माकांड करा दे। उस वक़्त निम्न है। जब तक जीवात्मा को मुक्ति नहीं मिलती वह पितृ रूप में प्रेत योनि प्राप्त कर मृत्युलोक में भटकती रहती है। इसके लिए गरुड़ पुराण में नारायण बलि की पूजा का विधान बताया गया है। अकाल मृत्यु हो जाने के बाद नारायण बलि ही एक ऐसी पूजा है जिसे विधि विधान द्वारा कराने पर जीवात्मा को मुक्ति मिल जाती है और वह कर्मबंधन से मुक्त हो जाती है।

विष्णु जी से की जाती है मुक्ति की प्रार्थना
गरुड़ पुराण के अनुसार नारायण बलि की पूजा में भगवान् विष्णु से जीवात्मा की मुक्ति के लिए प्रार्थना की जाती है और उसके कर्मों के प्राश्चित्त के लिए छमा याचना की जाती है। इस पूजा में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवों के निमित्त एक-एक पिंड बनाया जाता है। यह पूजा 5 उच्च वेद पाठी ब्राह्मणों द्वारा कराई जाती है।

इस पूजा में विधि पूर्वक पिंड दान समेत जीवात्मा की मुक्ति के लिए पूजा पद्धति अपनाई जाती है। यह पूजा कराने से अकाल मृत्यु प्राप्त जीवात्मा को मुक्ति मिल जाती है और प्राण पितृ रूप में आशीर्वाद देते हैं। यह पूर्वज रूप में सदैव के लिए उस घर में संपन्नता का आशीर्वाद बना देते हैं। जो लोग अकाल मृत्यु होने पर परिवर्जनों के निमित्त यह पूजा करते हैं उनके ऊपर पितृ दोष नहीं लगता है। जो तीर्थ स्थल में आ सकते हैं नारायण बलि की पूजा गरुड़ पुराण के अनुसार इस पूजा को पवित्र तीर्थस्थल, देवालय या तीर्थजल और घाट के पास कराना बेहद फलदायक होता है। यह पूजा पितृ पक्ष या फिर किसी बड़ी अमावस्या के दिन हो करानी चाहिए।

ज्योध्या नगरी विश्व की सबसे बड़ी अध्यात्मिक नगरी का केंद्र तो है ही इसी के साथ यह श्री राम का परम धाम भी है। रुद्राभयमल ग्रंथ में शिव जी ज्योध्या का महत्व पार्वती जी को बताते नहीं थकते। उन्होंने स्वयं कहा है कि मैं ज्योध्या पुरी को अपने मस्तक पर धारण करता हूँ। असोध्य में एक बार भगवान शिव साक्षात् प्रकट हुए थे और जब जाने लगे तो भगवान राम के पुत्र कुश ने उनसे आग्रह किया कि हैं भोलेनार आप अयोध्या में ही रुक जाँत और यहाँ रहें। भगवान राम के प्राँत रखने वाले शिव आखिर कैसे श्री राम के छोटे पुत्र कुश की बात का मान न रखते। उन्होंने कुश की बात स्वीकार नहीं गए। आइए जानते हैं भगवान शिव ज्योध्या में किसकी प्रार्थना करने पर प्रकट हुए थे।

सरयू स्नान करते समय गंगा धा
कुश भगवान का बाजूबंद
यह बात त्रेताकाल की है जब भगवान राम के पुत्र कुश अयोध्या नगरी के स्वर्ग द्वार जिसका वर्तमान नाम राम की पैड़ी है। वहाँ सरयू तट पर स्नान कर रहे थे। उस समय उनके हाथों में बंधा बाजूबंद नाग लोका की कन्या कुमुदनी को मिल गया और उसने वह बाजूबंद



अपने पास रख लिया। काफी प्रयास करने के बाद जब बाजूबंद कुश जी को नहीं मिला तब उन्हें इस बात का पता चला कि वह बाजूबंद नाग कन्या ने रख लिया है। इस बात से कुश को क्रोध आ गया और उन्होंने संपूर्ण नाग लोक के विनाश का श्राप दे दिया।

कुश के क्रोध से नागलोक ने की भगवान शिव की आराधना

श्राप से बचने के लिए नाग लोक के अधिपति और कुमुदनी नाग कन्या के पिता कुमुद ने भगवान शिव की आराधना की और पूरा वृत्तंत बताया। भगवान शिव तुरंत अयोध्या नगरी में प्रकट हुए और कुश जी से नाग लोक को क्षमा दान करने का आग्रह किया। भोलेनाथ को देख कर कुश जी का क्रोध शांत हुआ और उन्होंने नाग लोक को दिया हुआ अपना श्राप भोलेनाथ के कहने पर वापस ले लिया। जब भगवान शिव अयोध्या नगरी से जाने लगे तब कुश जी ने

और अपने स्थान पर नागेश्वर हुआ जिस जगह थे वहां स्वयं रथ अयोध्या मंदिर की वही विराजित भक्त जगद्गुरु शिवरात्रि दीनें यही भोड़ उठा जन्मभूमि दूरी पर पर है कार्यक्र भगवान करना करने में मंदिर में जाता है

महादेव से आग्रह किया कि आप न जाएँ और यथोन्ध्या नगरी में ही वास करें। कुश जी के कहने पर भगवान शिव ने उनकी बात का मान रखा और यथोतिर्लिङ्ग रूप में प्रकट हो गए। राम लोक के अवतार होने के कारण कुश जी ने भोलेनाथ के यथोतिर्लिङ्ग का नागों के अर्थ अर्थात् नागेश्वरनाथ नाम से संबोधित किया था। यहाँ में स्वर्ग द्वार नाम के बहुत ही सुकून पहुँचाता है। वहीं इसी के साथ बता दें कि अगर इसे गलत दिशा में और गलत तरीके से लगा लिया जाये नकारात्मक परिणामिलते हैं। तो चलिए वाँटरफॉल पेंटिंग टिप्स के बारे में तर दिशा के मध्य कुछ लोग अपने घ अनुभार इन पेंटिंग जाह लगा देते हैं करने बेहद ही अ है। इस तरह की पहले दिशाओं का रखना चाहिए। हम दिशा के मध्य में त

दक्षिण-पूर्व
वाँटरफॉल पेंटिंग के दक्षिण-पूर्व दिशा के

पर व्यक्ति अपने घर को सजाने के लिए तरह-तरह के प्रयास करता है और उन्हीं में से एक है लतावर पर लगी पेंटिंग। वहीं कुछ घर नेचर से बहुत प्रेम करते हैं और उनसे जुड़ी तस्वीर लगाना उन्हें बेहद ही पसंद होता है। जैसे क्वॉटरफॉल पेंटिंग। दिखने में ये तस्वीर सुन्दर लगती है। वास्तु विशेषज्ञ की लताज से उतना ही ये लगाना चाहिए। कहते हैं अगर इस दिशा में पेंटिंग को लगाया जाए तो धन से जुड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वहीं इसी के साथ घर में कलह-क्लेश भी देखना पड़ता है।

उत्तर-पश्चिम दिशा में करें परहेज

वास्तु शास्त्र के अनुसार इस तरह की पेंटिंग को उत्तर-पश्चिम दिशा

पर व्यक्ति अपने घर को सजाने के लिए तरह-तरह के प्रयास करता है और उन्होंने में से एक है दीवार पर लगी पेंटिंग। वहाँ कुछ लोग नेचर से बहुत प्रेम करते हैं और उनसे जुड़ी तस्वीर लगाना उन्हें बेहतर ही पसंद होता है। जैसे कि वॉटरफॉल पेंटिंग। दिखने में ये जितनी सुन्दर लगती है वास्तु शास्त्र के लिहाज से उतना ही ये शुभ फल प्रदान करती है।


वॉटरफॉल पेंटिंग में बहता हुआ पानी दिल को बहुत ही सुकून पहुँचाता है। वहीं इसी के साथ बता दे कि अगर इसे गलत दिशा में और गलत तरीके से लगा लिया जाए तो जीवन में नकारात्मक परिणाम देखने को मिलते हैं। तो चलिए जानते हैं वॉटरफॉल पेंटिंग से जुड़े वास्तु टिप्स के बारे में।

तुल्य दिशा के मध्य में लगाएं

कछ लोग अपने घर की जगह के अनुसार इन पेंटिंग्स को किसी भी जगह लगा देते हैं। लेकिन ऐसा करने बेहद ही अशुभ माना गया है। इस तरह की पेंटिंग लगाने से पहले दिशाओं का बेहद ही ध्यान रखना चाहिए। हमेशा इसे उत्तर दिशा के मध्य में लगाएं।

दक्षिण-पूर्व का कोना

वॉटरफॉल पेंटिंग को गलती से भी दक्षिण-पूर्व दिशा के कोने में नहीं



मानना चाहिए। कहते हैं अगर इस दिशा में पेंटिंग को लगाया जाए तो धन से जुड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वहीं इसी के साथ घर में कलह-क्लेश भी देखना पड़ता है।

उत्तर-पश्चिम दिशा में करें परहेज

वास्तु शास्त्र के अनुसार इस तरह की पेंटिंग को उत्तर-पश्चिम दिशा




में लगाना शुभ नहीं माना जाता। माना जाता है कि ऐसा करने से कोर्ट-कचहरी के चक्कर लगाने पड़ सकता है। इतनी ही बल्कि ऐसा करने से घर की महिलाएं किसी न किसी परेशानी से घिरी रहती हैं।

वाटर फाउंटेन

वास्तु के अनुसार वॉटरफॉल की जगह वाटर फाउंटेन की पेंटिंग लगाना शुभ होता है। वाटर फाउंटेन से घर में पॉजिटिव वाइब्स बनी रहती है। इसे हमेशा उत्तर के मध्य से लेकर पूर्व के मध्य में लगाएं। दक्षिण-पश्चिम में लगाने से इसे परहेज करना चाहिए।

कठिनाई यह थी कि मुझे मजूम मैं आ रहा था कि अब लोहकाल ठीक हूँ और अब लोहकाल और क्या नहीं होगा, अगर मैं कैसे बाहर निकलूँ! अगर मैं चिल्लाकर कहता हूँ 'पाला नही हूँ तो सभी यही चिल्लाकर कहते हैं 'म म पागल नहीं हैं, कोई र मानने को राजी नहीं था। कोई तर्फ सोच रहा होगा लोगों को चारों तरफ सोच रहा होगा, और इसीलिए हमें नहीं चलता कि हम सोए हुए हैं। और जागे हुए आदमी म जल्दी से हत्या कर देते हैं क्योंकि वह आदमी हमें बहुत पूर्ण मालूम होने लगता है, डिस्टर्बिंग, बहुत कारक मालूम होने लगता है। एक अंग्रेज विद्वान कैनेथ ने एक किताब लिखी है जिसका नाम है 'द इन्डियन सिविलिजेशन'। उसने कहा कि एक फकीर एक को समर्पित किया है। मैं नहीं, डेडीकेशन मैं उसने बंद लिखे हैं, वे बड़े अदभुत हैं। उसने डेडीकेशन में, समर्पण में लिखा है 'टु जार्ज गुरजिएफ, दि डिस्टर्ब ऑफ मरा स्लीप', मेरी नींद तोड़ने वाले जार्ज गुरजिएफ को समर्पित। थोड़े —से लोग हुए हैं जमीन को, जो लोगों की नींद तोड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर आप किसी की नींद तोड़ने की कोशिश करेंगे, तो निश्चित ही वह आपसे बदला लेगा। किसी सोते हुए आदमी को लोगों की कोशिश करिए, वह आपकी गरदन पकड़ लेगा। आज तक मनुष्य को आध्यात्मिक नींद से जिनहोंने जागने की कोशिश की है, हमने उनकी भी गरदन पकड़ ली है। हमारे बीच हमें पता नहीं चलता इसीलिए कि हम सब एक जैसे नींद में सोए हुए लोग हैं। एक गांव के संबंध में मैंने सुना है कि वहाँ एक दिन एक जादूगर आ गया था और उस गांव के कुएं में उसने एक पुड़िया डाल दी थी और कहा था कि इस कुएं का पानी जो भी पीएगा, वह पागल हो जाएगा। एक ही कुआं था उस गांव में। एक कुआं और था, लेकिन वह गांव का कुआं न था, वह राजा के महल में था। सांझ होते —होते तक गांव के हर आदमी को पानी पीना पड़ा। चाहे पागलपन की कीमत पर भी पीना पड़े, लेकिन मजबूरी थी। प्यास तो बूझा नहीं पड़ेगी, चाहे पागल ही क्यों न होना पड़े। गांव के लोग अपने को कब तक रोकते, उन्होंने पानी पीया। सांझ होते —होते पूरा गांव पागल हो गया। सम्राट बहुत खुश था, उसकी रानियां बहुत खुश थीं, महल में गीत और संगीत का आयोजन हो रहा था। उसके वजीर खुश थे कि हम बन गए, लेकिन सांझ होते —होते उन्हें पता चला कि गलती में हैं वे, क्योंकि सारा महल सांझ होते —होते गांव के पागलों ने घेर लिया। पूरा गांव हो गया था पागल। राजा के पहरेदार और सैनिक भी हो गए थे पागल। सोरे



सपने में देखा था उसने रावण का विनाश

रामायण के ऐसे कई अनुसूते प्रसंग हैं जो बहुत कम लोग ही जानते हैं। आज हम आपको ऐसे ही एक प्रसंग के बारे में बताने जा रहे हैं। दरअसल माँ सीता के हरण के बाद वह लंका की अशोक वाटिका में दिन रात अपने रघुनाथ श्री राम के वियोग में दुःख-संताप में एक-एक पल काटती थीं। रावण की लंका में अशोक वाटिका में उनकी पहरेदारी में रावण या जिज्जा नाम की राक्षसी को तैनात किया हुआ था जो भी थी तो ऐसे राक्षसी परंतु उसमें विवेक के साथ ही साथ मानव गुण भी थे। त्रिजटा जन्म से असुरी थी लेकिन उसमें अपने पिता विभीषण के कुछ गुण राम भक्ति के भी थे और वह माँ सीता के दुःख को समझती थी। त्रिजटा वहां की सारी राक्षसियों में से सबसे वृद्धि थी। एक बार जब वह सोकर उठी तो उसने वहां रहने वाली राक्षसिनियों से कहा कि अब रावण और इस लंका का अंत होने वाला है। मैंने सपने में ऐसा देखा है। कहीं न कहीं यह स्वप्न शास्त्र की ओर भी इशारा करता है। आइए जानते हैं त्रिजटा ने अपने सपने के बारे में क्या बताया।

वाल्मीकी रामायण के सुंदरकांड के 27वें सर्ग में त्रिजटा के सपने का वर्णन

त्रिजटा विभीषण की पुत्री थी जो माँ सीता की पहरेदारी में रावण द्वारा नियुक्त की गई थी।



वह नींद में एक सपना देखती है जिसे वह अन्य निशाचरियों को बताती है कि मैंने एक बड़ा भयानक सपना देखा है। जो राक्षसों का विनाश और श्री राम के जीत की सूचना देने वाला है।

जिजटा ने बताया कि उसने एक दिव्य पुष्पक विमान से श्री राम, मां जानकी और लक्ष्मण जी को उत्तर दिशा की ओर जाते हुए देखा है।

फिर त्रिजटा कहती है मैंने रावण को भी सपने में देखा वह मूड़ मुड़ाये हुए तेल से नहाया हुआ करवीर के फूलों की माला पहना हुआ था और वह पुष्पक विमान से जमीन पर गिरा पड़ा हुआ था। फिर मैंने उसे गंधे पर सवार हुए दक्षिण दिशा की ओर जाते हुए देखा। इसी के साथ मैंने कुंभकर्ण को भी इसी हालत में देखा। लेकिन विभीषण एक ऐसे हैं जिनको मैंने शुभ अवस्था में साफ वस्त्र पहने हुए देखा। मैंने लंका को समुद्र में डूब देखा और इसके प्रवेश द्वार टूटे हुए थे। मैंने सपने में यह भी देखा की राम के एक दूत जो वानर रूप में थे उन्होंने लंका को जलाकर भस्म कर दिया है। ऐसा सनुकर सब त्रिजटाचरनियां भय से कांप उठी तभी त्रिजटा ने कहा यदि तुम प्रायश्चित्त करना चाहती हो तो मैं जानकी की शरण में आकर उससे क्षमा मांग लो और उन्हें प्रणाम करो वह तुम्हें माफ कर देंगी और घोर कष्ट से मुक्त करएंगी।

आगे त्रिजटा लंका की उन सभी पहरेदारी निशाचरियों से कहती हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं जानकी के सभी मनोरथ अब पूर्ण होते दिखाई दे रहे हैं। अब रावण का विनाश और श्री राम की परम विजय निश्चित है।

थुलथुला पेट पिचका देंगे ये उपाय देखते-देखते बन जाएगी फौलादी बॉडी

अगर आप एक ही समय में मोटे शरीर से छुटकारा पाकर तगड़ी बॉडी बनाना चाहते हैं, तो आपको अपनी डाइट के साथ-साथ नीचे बताए उपायों पर काम करना चाहिए। ध्यान रहे कि सिर्फ एक्सरसाइज से बॉडी नहीं बनती, उसके साथ डाइट का ध्यान रखना जरूरी है।

थुलथुले बदन से छुटकारा पाकर तगड़ी बॉडी पाना भला कौन नहीं चाहता है। आपने कभी सोचा है कि मोटापा कम करने के लिए क्या करना चाहिए? अगर



आप सोच रहे हैं कि जिम में घंटे पसीने बहाकर या भारी-भारी मशीनें चलाकर आप वजन कम कर सकते हैं या तगड़ी बॉडी के मालिक बन सकते हैं, तो आप गलत हैं। वास्तव में वजन कम करने और हेल्दी एंड फिट बॉडी पाने के लिए जितनी जरूरत एक्सरसाइज की है, उससे कहीं ज्यादा जरूरत हेल्दी डाइट लेने की है। बिना हेल्दी डाइट के मोटापे से छुटकारा पाना असंभव है।

न्यूट्रिशनरिस्ट मसल्स बनाने और एक्स्ट्रा बॉडी फैट को कम करने के लिए आपको अपनी

डाइट को किस तरह मैनेज करना चाहिए और किन-किन चीजों का अधिक सेवन करना चाहिए।

अपने हर भोजन में प्रोटीन जरूर शामिल करें

अपने हर भोजन में प्रोटीन से भरपूर खाद्य पदार्थों को जरूर शामिल करें। दिन भर में कई बार प्रोटीन खाना फायदेमंद है क्योंकि इससे आपके शरीर को पूरे दिन के कामकाज के लिए एनर्जी मिलती है। प्रोटीन मसल्स ग्रोथ और रिपेयर के लिए जरूरी है। नाश्ते में ससिज, अंडे, बेकन और बीन्स

फेटी मीट के बजाय लीन प्रोटीन खाएं

प्रोटीन का यह मतलब नहीं है कि इसके लिए आप चिकन, मीट आदि का खूब सेवन करने लग जाएं। इनके बजाय प्रोटीन वाली कुछ हल्की चीजों जैसे मछली, ग्रीक योगर्ट, बीन्स, कम वसा वाला पनीर, टोफू, मूंगफली का मक्खन आदि का सेवन करें।

स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है जरूरी

मसल्स गेन के लिए जरूरी है। अगर संभव हो तो सप्ताह में तीन बार फुल बॉडी वर्कआउट करने की कोशिश करें। बॉडी की सभी

एक्सरसाइज करना चाहते हैं, तो आपको कार्डाइट के साथ ही ध्यान रखना जरूरी है। इससे आपकी बॉडी को एनर्जी मिलती है और आपका खूब सेवन करने लग जाएं। इनके बजाय प्रोटीन वाली कुछ हल्की चीजों जैसे मछली, ग्रीक योगर्ट, बीन्स, कम वसा वाला पनीर, टोफू, मूंगफली का मक्खन आदि का सेवन करें।

स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है जरूरी

मसल्स गेन के लिए जरूरी है। अगर संभव हो तो सप्ताह में तीन बार फुल बॉडी वर्कआउट करने की कोशिश करें। बॉडी की सभी



मसल्स को टॉर्गेट करने के लिए हर एक्सरसाइज में पुश (चेस्ट), पुल (बैक), स्क्वाट (क्वाड और ग्लूट्स), और हिंज (हैमस्ट्रिंग और ग्लूट्स) मूवमेंट जरूर करें।

कार्डाइट है जरूरी

अगर आप बेहतर तरीके से

छोटी-छोटी बात पर भी पति का पारा हो जाता है हाई, तो रिश्ते में कड़वाहट को बढ़ने से रोकें

आज कल लोगों की मनोदशा बहुत तरीके से प्रभावित हो रही है, जिसके कारण वह अपने इमोशन को सही तरह से कंट्रोल करने में समर्थ नहीं है। इससे बहुत ज्यादा गुस्सा आना, मानसिक दबाव महसूस होने जैसी समस्याएं लोगों में बहुत ही बढ़ गई हैं। ऐसे में रिश्तों को कैसे बचा कर रखा जा सकता है, आप इस लेख में प्रिडिक्शन फॉर सर्वेस के संस्थापक और रिलेशनशिप कोच विशाल भारद्वाज से जान सकते हैं। खासतौर पर यदि आप एक गुस्सैल पति या पत्नी के साथ बंधन में बंधे हुए हैं, तो यह टिप्स आपके लिए बहुत काम आ सकते हैं।



धीरज रखें

जब आपके पति क्रोध में हों तो ऐसी स्थिति में आपका गुस्सा करना चीजों को और भी खराब कर सकता है। ऐसे में अपनी बात को कहने के लिए उन्हें पूरे तरीके से शांत होने दें। ध्यान रखें कि जब भी पति गुस्से में

हो तो पति का शांत रहना बहुत जरूरी है वरना छोटी सी बात भी लड़ाई में बदल जाती है।

पति से उनके गुस्से के बारे में बात करें

अपने पति के एंगर इश्यू के बारे में उनसे खुलकर बात करें। अपने पति से बात करते हुए उन्हें अपनी भावनाओं के बारे में बताएं। उन्हें समझाएं कि किस तरह से उनका गुस्सा आपके रिश्ते को खोखला कर रही है। ध्यान रखें कि उन्हें ऐसा

महसूस न हो कि आप उन पर कोई आरोप लगा रही हैं या उनमें कमी निकाल रही हैं।

उचित समय का चयन करें

किसी भी विषय पर उनसे चर्चा करने से पहले इस बात का ध्यान रखें कि उनका मूड अच्छा हो। यदि वह पहले से थके या चिड़चिड़े होंगे तो उनके क्रोधित होने की संभावनाएं ज्यादा होंगी। जिससे आपको एक बार फिर बिना किसी बात के उनका सामना करना पड़

जाएगा।

इस समस्या का कारण खोजें

बैठ कर आत्म चिंतन करें कि ऐसी कौन सी बातें हैं जो आपके पति को क्रोध दिलाती हैं। और ऐसी कौन सी बातें हैं या फिर परिस्थिति है जिनके कारण वे क्रोधित होते हैं जब आपको एक बार इसका सही-सही अनुमान हो जाएगा तब आप इसका समाधान बेहतर तरीके से कर पाएंगे।

एक्सपर्ट की मदद लें

यदि आप और आपके पति स्वयं अपनी इस समस्या का समाधान नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसे में आप किसी पेशावर से मदद ले सकते हैं। ये तरीका आपके लिए काफी असरदार साबित हो सकती है। ध्यान रखें प्यार और शादी के रिश्ते में इस तरह की चुनौतियां आना आम बात है। ऐसी स्थिति में आप अपने जीवन साथी की समस्याओं से निकलने में सबसे अधिक सहायता कर सकते हैं।

किचन क्लीनिंग के गोल्डन रूल्स जो आपके रसोई को रखेंगे हमेशा साफ-सुथरा

रसोई को साफ रखना अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है। लेकिन कुछ बेसिक क्लीनिंग रूल्स के साथ इस काम बहुत ही आसानी



से आप कर सकते हैं। किचन घर का सबसे अहम हिस्सा होता है। क्योंकि यहां की सफाई सीधे आपके स्वास्थ्य को प्रभावित करने का काम करती है। इसलिए इसकी सफाई को

बहुत ही ध्यान से करना जरूरी होता है, ताकि चमक के साथ हाइजीन भी बरकरार रहे।

खाना बनाने से पहले हाथ धोएं

स्टोर, ब्रैडेड स्वेटर, जैकेट पर बंपर ऑफ, 75% तक की छूट स्टोरेज को बेहतर तरीके से करें

किचन साफ और व्यवस्थित दिखे इसके लिए स्टोरेज को सही तरीके से करें। मसाले के डिब्बे से लेकर बर्तन और साग-सब्जियों को अच्छी तरह से रखें। इस्तेमाल के बाद सामान को उसके जगह पर वापस रखने की आदत बनाएं।

बर्तनों को अच्छे से साफ करें

बर्तनों को अच्छी तरह साफ करने के लिए डिशवॉशिंग बार या लिक्विड का उपयोग करें। सुनिश्चित करें कि आप हर एक बर्तन को अच्छे से साफ करें ताकि उसमें कोई भी बचा हुआ भोजन चिपका न रहे। इससे रसोई में बैक्टीरिया के विकास से बचने में मदद मिलती है।

खाना पकाने से पहले अपने हाथ धो लें क्योंकि यह आपके हाथों के बैक्टीरिया को एक स्थान से दूसरे स्थान तक फैलने से रोकने में मदद करेगा। विंटर

रसोई में दो डस्टबिन रखें। इनमें से एक में गीला कचरा और दूसरा सूखा कचरा डालें। ऐसा करने बदबू की समस्या नहीं होगी। साथ ही हर दिन कूड़े का थैला बदलते रहें। इसके अलावा, अपने कूड़ेदानों को नियमित रूप से साफ करें।

पैसे से खुशियां नहीं खरीदी जा सकती!

पैसा जरूरी है लेकिन क्या वह जीवन भर खुश रहने के लिए काफी है? क्या सारे अमीर लोग अपने जीवन में बहुत खुश हैं? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो खुशी और पैसे के बीच के संबंध को बयां करते हैं। साथ ही यह भी दर्शाते हैं, कि पैसा सबसे ताकतवर होने के बावजूद किसी के लिए खुशी नहीं खरीद सकता।

यह सदियों पुराना सवाल क्या पैसा खुशी खरीद सकता है? आज भी लोगों को सोचने और बहस करने पर मजबूर कर रहा है। लोग जब जीवन में वित्तीय सफलता के लिए प्रयास करते हैं, तो खुशी की खोज को अक्सर भौतिक धन के रूप में आंका जाता है। इसलिए, पैसे और खुशी के बीच के जटिल संबंध की खोज करके, कोई भी यह समझने की कोशिश कर सकता है कि वास्तव में हमारे जीवन को क्या परिपूर्ण और संतुष्ट बनाता है।

स्टडी- पैसे और खुशी का संबंध

शोधकर्ताओं ने पाया कि काहेनेमन और मैथ्यू किलिंग्सवर्थ द्वारा हाल ही में किए गए एक संयुक्त अध्ययन ने आम धारणा को चुनौती दी है कि आय की एक निश्चित सीमा तक पहुंचने के बाद खुशियां ही खुशियां होती हैं। एक स्मार्टफोन ऐप का उपयोग करते हुए, दोनों ने 33,000 से अधिक प्रतिभागियों से डेटा एकत्र किया,



जो दर्शाता है कि बढ़ती आय के साथ खुशी में वृद्धि होती है। अध्ययन ने निष्कर्ष निकाला गया कि कम आय वाले व्यक्ति उच्च आय वालों की तुलना में बड़ी हुई आय से खुशी में अधिक लाभ का अनुभव करते हैं।

शोधकर्ताओं ने पाया कि अधिक धन वाले व्यक्तियों में अधिक सकारात्मक आत्म-धारणा होती है। भावनात्मक कल्याण भी आय के साथ बढ़ता है, लेकिन केवल 75,000 डॉलर के वार्षिक वेतन तक (आज के लिए समायोजित 90,000 डॉलर, जो लगभग 74 लाख रुपये हैं) इस बिंदु के अलावा, उच्च वेतन खुशी सूचकांक में महत्वपूर्ण रूप से योगदान नहीं करते हैं, जो पैसे

और कल्याण के बीच संबंधों की सीमा का संकेत देता है। हालांकि, इन निष्कर्षों में विरोधाभास हैं। किलिंग्सवर्थ के 2021 के अध्ययन ने 500,000 डॉलर की आय तक की खुशी पर पैसे के सकारात्मक प्रभाव का सुझाव दिया जो लगभग 4 करोड़ होता है।

खुश रहने के लिए पैसा काफी नहीं

हार्वर्ड स्टडी ऑफ एडल्ट डेवलपमेंट द्वारा जोर दिया गया है, कि खुशी प्राप्त करने में संबंधों की भूमिका महत्वपूर्ण है। एक अच्छे जीवन के लिए संबंधों को आवश्यक माना जाता है, धन केवल एक सीमा तक ही आपको खुशियां दे पाती है। कुछ व्यक्ति अपने सामाजिक संबंधों और

खुशी को बढ़ाने के लिए महंगी ट्रिप, म्यूजिक नाइट गेदरिंग जैसी एक्टिविटीज की भी प्राथमिकता देते हैं।

खुशी मन की अवस्था है

केवल पर्याप्त आय अर्जित करने से खुशी की गारंटी नहीं मिलती है। प्रसिद्ध अमेरिकी ईसाई प्रचारक बिली ग्राहम ने एक बार कहा था, रजब धन खो जाता है, तो कुछ भी नहीं खोता है; जब स्वास्थ्य खोता है, तो कुछ थोड़ा सा नुकसान होता है; लेकिन जब व्यक्ति का चरित्र खो जाता है, तो उसका सब खो जाता है। इसलिए, जीवन में खुश रहने के लिए चरित्र और वित्तीय सफलता का साथ-साथ रहना बहुत जरूरी है।

पार्टनर के साथ तो हैं लेकिन उससे लगाव नहीं, तो समझ जाएं कि अपनी शादी को बचाने का वक़्त आ गया

किसी ने बिल्कुल ठीक कहा है कि शादीशुदा रिश्ता वही फल-फूलता है, जिसमें प्यार-विश्वास, रोमांस और समझदारी होती है। नहीं तो रिश्ते बेजान-बेमानी और महज एक फॉर्मैलिटी ही महसूस होते हैं। हालांकि, यह सब रातों-रात पैदा नहीं होता। प्यार वाले रिश्तों को एक बगीचे की तरह पनपने के लिए पोषण और देखभाल की जरूरत होती है, जो शुरूआती दिनों में तो अपने चरम पर होती है, लेकिन बढ़ती जिम्मेदारियों के चलते धीरे-धीरे उनका उत्साह कम हो जाता है।

ऐसे में हमसफर के प्रति जज़्बात तो रहते हैं, लेकिन वो खिंचाव महसूस नहीं होता, जो उन्हें एक-दूसरे के नजदीक लाता है, जिसका नतीजा कपल्स के बीच दूरियां बढ़ने लगती हैं और उनके रिश्ते में रोमांस की चिंगारी पूरी तरह खत्म हो जाती है। इस दौरान दो प्यार करने वाले लोग हमेशा-हमेशा के लिए अलग हो जाते हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या आप की बिल्कुल ऐसे ही मोड़ से गुजर रहे हैं, जहां हमसफर का साथ तो है, मगर लगाव नहीं, तो हम बता रहे हैं, जो बातें जिनकी मदद से आप अपनी शादी को खत्म होने से बचा सकते हैं।

सबसे पहले जल्दबाजी में कोई



फैसला न लें

हम मानते हैं कि जब दो लोगों के बीच मन-मुटाव बढ़ता है, तो उनका साथ रहना मुश्किल हो जाता है। लेकिन इस दौरान सबसे ज्यादा जरूरी यही है कि अपने पार्टनर की कमियों को नजरअंदाज करते हुए उसकी अच्छाइयों पर भी ध्यान दें। हर समस्या एक दूसरे में कमी निकालना रिश्तों को खोखला बनाने का काम करता है।

ये हालात रिश्तों में आपसी प्यार की कमी को दर्शाते हैं। ऐसे नानुक समय में जल्दबाजी में लिया गया फैसला आपको बाद में पछताने पर मजबूर कर सकता है। रिश्ते को लंबा चलाने और आपसी बॉन्डिंग को मजबूत करने के लिए अपने साथी से जुड़े रहना बहुत जरूरी है।

खुलकर अपनी बात रखें

क्या आपको देर रात की वो दिलकश बातें और हंसी याद है, जब आप दोनों केवल एक-दूसरे के प्यार में पागल थे। अगर नहीं, तो आपको अपने रिश्ते में एक बार फिर उसे दोहराने की जरूरत है। दरअसल, अमेरिका की प्रसिद्ध मनोचिकित्सक एमिली एच सैंडर्स कहती हैं कि आपके दिल में जितना प्यार है, पार्टनर को उतना ही महसूस होगा, जब आप उसे अपने साथी के सामने जाहिर करेंगे। प्यार दिखाएंगे तो पार्टनर उसे निखारकर वापस करेगा और ज्यादा प्यार दिखाएगा। ये सिलसिला चलता रहेगा और रिलेशनशिप बॉन्डिंग मजबूत होती जाएगी।

हेल्दी टॉक न करें अर्वाइंड

बहुत बार देखा गया है कि जब

दो लोग एक-दूसरे से नाराज होते हैं या एक-दूसरे से पेशाना रहने लगते हैं, तो वह आपस में बात करना पूरी तरह बंद कर देते हैं, जोकि बहुत ही गलत तरीका है। दरअसल, जिन रिश्तों में कम्युनिकेशन मिसिंग होता है, उनका ज्यादा दिन सांस लेना मुश्किल हो जाता है। रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए हेल्दी टॉक बहुत ज्यादा जरूरी है। स्ट्रॉंग बॉन्डिंग के लिए पार्टनर के साथ अच्छा मेल-जोल बढ़ाएं। उसे इस बात का एहसास दिलाएं कि आप दोनों के बीच कुछ नहीं बदला है। आप अभी भी पहले की तरह उनकी हर बात सुनने के लिए तैयार हैं।

इंटीग्रेली को भी करें शामिल

रिलेशनशिप में एक-दूसरे के लिए प्यार बनाए रखना यानी फिजिकल इंटीमेट होना प्यार जताने का सबसे कॉमन और ट्रेडिशनल तरीका है। अगर इस समय इंटीमेसी आपके रिश्ते में नहीं है, तो आपको उसे फिर से जगाने की जरूरत है। दरअसल, एक हेल्दी रिलेशन में फिजिकल इंटीमेसी होना बहुत जरूरी है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब कपल एक साथ क्वालिटी टाइम बिताते हैं, तो एक अलग ही तरह की फीलिंग उनके मन में जगती है, जिसकी वजह से उनके रिश्ते में प्यार बढ़ जाता है।

प्यार है या सिर्फ दो पल की चाहत, जानें लव और अट्रैक्शन के बीच का अंतर

प्यार और आकर्षण के बीच बहुत ही बारीक सी लाइन होती है, जिसके कारण ज्यादातर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ऐसे यदि आप अपने या किसी दूसरे व्यक्ति के दिल के जज्बात को सही ढंग से समझना चाहते हैं, तो यह लेख आपके लिए बहुत मददगार साबित हो सकता है।

प्यार और आकर्षण दो अलग चीज नहीं हैं। यदि आप प्यार और आकर्षण को ठीक से समझें तो पाएंगे कि प्यार की पहली शर्त दो लोगों के बीच आकर्षण होना है। यह एक ही रास्त के दो स्टॉपिंग प्वाइंट की तरह है। जिस पर चलने वाले कुछ लोग जहां प्यार तक पहुंचते हैं, तो कुछ आकर्षण तक ही अपने रिश्ते को सीमित कर देते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आकर्षण से प्यार तक पहुंचने का रास्ता आसान नहीं होता है, जिसके कारण इन दोनों में अंतर करना संभव हो जाता है। तो चलिए जानते

हैं, आपका रिश्ता प्यार की नींव पर खड़ा है या फिर आकर्षण पर।

दूसरी चीजों को देता है महत्व

दो लोग जिनके बीच प्यार होता है वह एक-दूसरे के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताने के बारे में सोचते हैं। वह हर बार अपने पार्टनर से इस तरह से मिलते हैं जैसे यह उनकी पहली मुलाकात है। लेकिन जब रिश्ता सिर्फ आकर्षण पर आधारित हो तो साथ में समय बिताने के लिए हमेशा किसी डिस्ट्रैक्शन की जरूरत होती है। आप कभी भी उसकी प्रायोरिटी में शामिल नहीं होंगे।

भविष्य के बारे में बातें

दो लोग जो एक-दूसरे के प्यार में होते हैं, वह अपने भविष्य की किसी दूसरे के साथ बिताने के बारे में सोच भी नहीं पाते हैं। वह हमेशा साथ रहने के लिए एक साथ मिलकर अपना फ्यूचर प्लान बनाते हैं, और इसके लिए मेहनत करते हैं। लेकिन अट्रैक्शन होने पर लोग कभी फ्यूचर



प्लानिंग नहीं करते हैं। इसके बारे में बात करने तक से कतपते हैं। सीधे शब्दों में कहा जाए तो उनके आने वाले कल में आपकी कोई जगह नहीं होती है।

शारीरिक संबंध

प्यार दो लोगों के बीच शारीरिक संबंध की अनिवार्यता पर जोर नहीं देता है, इसमें व्यक्ति भावनात्मक रूप से एक-दूसरे के करीब होता

है। लेकिन आकर्षण का केंद्र बिंदु ही शारीरिक संबंध बनाना होता है। इसमें व्यक्ति अपने पार्टनर की पसंद-नापसंद की कोई परवाह नहीं करता है। उन्हें इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या चाहते हैं। सच तो यह है कि यदि आपने अपने शारीरिक दूरी बना ली तो वो आपके साथ ज़्यादा दिनों तक साथ नहीं रहेंगे।

पर्सनल लाइफ के बारे में सीक्रेट्स

प्यार में व्यक्ति अपने पार्टनर के सामने आईने की तरह हो जाता है। उसकी गलतियां, कमियां, खूबियां कुछ भी छिपा हुआ नहीं रहता है। लेकिन जो लोग आकर्षण से प्रेरित रिश्ते में बंधे होते हैं, वह हमेशा अपनी पर्सनल लाइफ को बहुत ही प्राइवेट रखने की कोशिश करते हैं।



भारत-मालदीव विवाद से लक्षद्वीप से जुड़ी कंपनी को फायदा

'प्रवेग' का शेयर 20% चढ़ा, लक्षद्वीप के लिए सर्च 3,400% बढ़ी

नई दिल्ली , 9 जनवरी (एजेंसियां)। भारत और मालदीव के बीच चल रहे विवाद का फायदा लक्षद्वीप से जुड़े स्टॉक 'प्रवेग' में देखने को मिल रहा है। टूरिस्ट प्लेस में लग्जरी रिसॉर्ट चलाने वाली कंपनी प्रवेग के शेयर ने 8 जनवरी को 20% की तेजी के साथ 1,037.50 के स्तर पर 52 वीक का हाई बनाया। हालांकि, दिनभर कारोबार के बाद शेयर थोड़ा नीचे आया और 17.51% की तेजी के साथ 1,015.95 के स्तर पर बंद हुआ। इसी बीच ट्रेवलर कंपनी मेक माय ट्रिप ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के बाद उनके प्लेटफार्म पर लक्षद्वीप के बारे में सर्च 3400% बढ़ गई है। इसी को देखते हुए मेक माय ट्रिप ने 'बीचेस ऑफ इंडिया' कैम्पेन शुरू किया। वहीं, ईंसे माई ट्रिप 'ने मालदीव को की सभी फ्लाइट्स बुकिंग सस्पेंड कर दी है।

पिछले महीने प्रवेग को मिला था अगत्ती आइलैंड के



डेवलपमेंट, मेंटेनेंस और मैनेजमेंट का काम कच्छ के रण जैसे टूरिस्ट प्लेस में लग्जरी रिसॉर्ट चलाने वाली कंपनी प्रवेग को पिछले महीने सरकार ने लक्षद्वीप के अगत्ती आइलैंड में 50 से अधिक टैंट के डेवलपमेंट, मेंटेनेंस और मैनेजमेंट का काम दिया था। प्रवेग लक्षद्वीप के रिसॉर्ट्स के मेंटेनेंस, स्क्रूबा डाइविंग, डेस्टिनेशन वॉडिंग, कॉर्पोरेट फंक्शन जैसे अन्य बिजनेस एक्टिविटीज की पेशकश करेगी। प्रवेग को तीन साल के लिए लक्षद्वीप का काम दिया गया है, जिसे 2 साल तक बढ़ाया जा सकता है।

ईंसे माई ट्रिप ने मालदीव की

सभी फ्लाइट्स बुकिंग सस्पेंड की

ईंसे माई ट्रिप ने मालदीव की सभी फ्लाइट्स बुकिंग सस्पेंड कर दी। रविवार देर रात ईंसे माई ट्रिप के को-फाउंडर निशांत पिट्टी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म

एक्स पर यह जानकारी दी।

निशांत पिट्टी ने कहा, 'पीएम मोदी की लक्षद्वीप यात्रा पर मालदीव के सांसद की पोस्ट पर विवाद के बीच, हमने फैसला किया है कि हम मालदीव के लिए कोई बुकिंग एक्सेप्ट नहीं करेंगे।हमारे देश से 3 लाख लोग हर साल मालदीव जाते थे, अब वह ईंसे माई ट्रिप पर यह फैसिलिटी अवेले नहीं कर पाएंगे।' निशांत ने यह भी कहा कि लक्षद्वीप में टूरिस्ट को बढ़ावा देने के लिए हमने अपने प्लेटफार्मा पर 5 नए पैकेज भी शुरू किए हैं।' आज ईंसे माई ट्रिप के शेयर में भी 4.71% की तेजी देखने को मिली, जो स्टॉक एक्सचेंज में इसी ट्रिप प्लानर्स लिमिटेड के नाम से लिस्ट है।

कुवैत ने विदेशी कामगारों को लेकर किया अहम बदलाव, बीच में काम छोड़ना पड़ेगा भारी

नई दिल्ली, 9 जनवरी (एजेंसियां)। अरब देश कुवैत ने घरेलू कामगारों की भर्ती को लेकर एक बड़ा कदम उठाया है। कुवैत के वाणिज्य और उद्योग मंत्री मुहम्मद अल-ऐबन ने घरेलू कामगारों की भर्ती के लिए प्राइस कैप यानी एक निर्धारित शुल्क लगाने की घोषणा की है. भारतीय कामगारों और पेशवरों के लिए कुवैत एक अहम देश है. कुवैत में सबसे ज्यादा भारतीय प्रवासी ही रहते हैं। कुवैत के वाणिज्य मंत्रालय के एक प्रेस रिलीज जारी करते हुए कहा है कि पब्लिक अथॉरिटी ऑफ मैनपाॅवर के समन्वय और प्रथम उपप्रधानमंत्री और गृह मंत्री शेख

तलाल खालिद अल-अहमद अल-जबर अल की सिफारिशों के बाद उद्योग और वाणिज्य मंत्री अल-ऐबन ने मंत्रिस्तरीय रेजोल्यूशन संख्या 103/2022 के अनुच्छेद में संशोधन करते हुए एक निर्णय जारी किया है. इस निर्णय में यह तय किया गया है कि किसी भी व्यक्ति को काम पर रखने के लिए यात्रा टिकट सहित अधिकतम कितने रुपये लिए जा सकते हैं.

काम बीच में छोड़ना पड़ेगा भारी

नए नियमों के तहत एशियाई देशों से ताल्लुक रखने वाले घरेलू कामगारों के लिए अधिकतम शुल्क राशि 750



कुवैती दिनार निर्धारित किया गया है.

भारत भी एशियाई देशों में गिना जाता है. कुवैत की कुल आबादी लगभग 46 लाख है, जिसमें लगभग 35 लाख विदेशी हैं. यानी कुवैत की कुल

आबादी का 75 फीसद प्रवासी हैं. वहीं, अफ्रीकी देशों से ताल्लुक रखने वाले घरेलू कामगारों के लिए यह रकम 575 कुवैती दिनार है.

कुवैत है. कुवैत के पब्लिक अथॉरिटी फॉर सिविल इंफ्रामैशन (पीएसीआई) के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, साल 2023 के मध्य तक कुवैत में पंजीकृत घरेलू कामगारों की संख्या आठ लाख से ज्यादा है. इनमें से सबसे ज्यादा भारतीय हैं. रिपोर्ट के मुताबिक, कुल विदेशी कामगारों का 44.5 प्रतिशत यानी 3 लाख 61 हजार से ज्यादा भारतीय कुवैत में पंजीकृत घरेलू कामगार हैं.

24.8 प्रतिशत के साथ फिलीपींस दूसरे स्थान पर है.

हाल ही में पार्ट टाइम जॉब की दी थी अनुमति

कुवैत ने पिछले महीने ही प्रवासी

मजदूरों के लिए पार्ट टाइम जॉब

करने की अनुमति दी थी. पार्ट टाइम

जॉब करने लिए शर्त यह रखी गई है

कि कर्मचारी को अपने मूल कंपनी से

अनुमित लेनी होगी. कुवैत ने यह

कदम जनसंस्थिकीय असंतुलन

समस्या को हल करने के लिए उठाया

है. नए नियम के तहत निजी क्षेत्र के

कर्मचारी प्रति दिन अधिकतम चार

घंटे किसी अन्य कंपनी के साथ पार्ट

टाइम जॉब कर सकते हैं.

बुधवार, 10 जनवरी - 2024

सोने-चांदी की कीमतों में गिरावट, खरीदने का अच्छा मौका, जाने ताजा भाव

नई दिल्ली , 9 जनवरी (एजेंसियां)। नवरी का महीना सोना खरीदारों के लिए बेहद शुभ है। नए साल की शुरुआत के साथ ही यूपी के वाराणसी में सोने चांदी के कीमतों में कमी देखने को मिल रही है। मंगलवार (9 जनवरी) को सोने की कीमतों में 200 रुपये प्रति 10 ग्राम की कमी आई। वहीं बात चांदी की करें तो उसकी कीमत भी 200 रुपये प्रति किलो की गिरावट हुई है जिसके बाद उसका भाव 76100 रुपये हो गई।

वताते चले कि सोने चांदी की कीमत हर दिन टेक्स, उत्पाद शुल्क के कारण घटता बढ़ता रहता है। वाराणसी के सर्राफा बाजार में 9 जनवरी को 22 कैरेट 10 ग्राम सोने की कीमत 200 रुपये टूटकर 57950 रुपये हो गई। वहीं 8 जनवरी को इसका भाव 58150 रुपये था। और 6 जनवरी को भी इसकी यही कीमत थी। इसके पहले 5 जनवरी को इसका भाव 58250 रुपये था। वहीं 4 जनवरी को इसकी कीमत 58650 रुपये थी। इसके पहले 3 जनवरी को इसका भाव 58900 रुपये था।

ये है 24 कैरेट सोने का भाव

22 कैरेट के अलावा बात यदि 24 कैरेट 10 ग्राम शुद्ध सोने की करें तो मंगलवार को इसकी कीमत 220 रुपये टूटकर 63220 रुपये हो गई। वहीं 8 जनवरी को इसका भाव 63440 रुपये था। वाराणसी के सर्राफा कारोबारी विजय तिवारी ने बताया की जनवरी महीने की शुरुआत के साथ सोने के कीमतों में कमी आ रही है। उम्मीद है आगे इसकी कीमतें और गिर सकती है। सोने से इतर बात चांदी के कीमत की करें तो मंगलवार को इसकी कीमत में 200 रुपये प्रति किलो की कमी आई। जिसके बाद इसका भाव 76100 रुपये हो गया। इसके पहले 8 जनवरी को इसकी कीमत 76300 रुपये थी। वहीं 7,6 और 5 जनवरी को भी इसका यही भाव था। इसके पहले 4 जनवरी को इसकी कीमत 78300 रुपये थी। वहीं 3 जनवरी को इसका भाव 78600 रुपये था। इसके पहले 2 जनवरी को इसकी कीमत 78300 रुपये थी।

वित्त-वाणिज्य स्वतंत्र वार्ता, हैदराबाद

इंडिगो ने सीटों के लिए तय किए रेड्स-फ्रंट-विंडो सीट के लिए 2,000 एक्स्ट्रा लगेंगे

पिछले हफ्ते एयरलाइन ने फ्यूल चार्ज वसूलना बंद किया था

नई दिल्ली , 9 जनवरी (एजेंसियां)। इंडिगो एयरलाइन ने आज यानी, 9 जनवरी से सीट सिलेक्शन फीस तय कर दी है। 222 सीटों वाले ए321 विमान में फ्रंट में विंडो या आइल सीट चुनने पर 2,000 अतिरिक्त लगेंगे। उसी लाइन की मिडिल सीट के लिए यात्री को 1,500 रुपए अतिरिक्त खर्च करने पड़ेंगे। सेकेंड और थर्ड रो की सभी सीटें 400 की समान दर पर मिलेंगी। 232 सीटों वाले ए321 विमान और 180 सीटों वाले ए320 विमान के लिए चार्ज एक समान हैं। 4 जनवरी को इंडिगो ने फ्यूल सरचार्ज हटाने की घोषणा की थी जिसके बाद एयरलाइन ने सीट सिलेक्शन फीस में यह बड़ा बदलाव किया है। अक्टूबर 2023 की शुरुआत से एंर्प्राइशन टर्बाइन फ्यूल की लगातार बढ़ रही कीमतों के कारण इंडिगो ने फ्यूल चार्ज वसूलना शुरू किया था। इसके लिए फ्यूल चार्ज के तौर पर 300 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक वसूले जा रहे थे। इंडिगो ने कहा- हम अपने यात्रियों को पसंदीदा सीटों के लिए रिजर्वेशन ऑप्शन देते हैं। आप विंडो सीट, आइल सीट या अतिरिक्त लेगरूम वाली सीट चुन सकते हैं। यदि आप पसंदीदा सीट



नहीं खरीदना चाहते हैं तो आप अवेलेबल फ्री सीट का चयन कर सकते हैं या एयरपोर्ट पर चेक-इन के समय असाइन की गई सीट मिल जाएगी। 'मान लीजिए भोपाल से बंगलुरु जाने के लिए फ्लाइट टिकट का प्राइस 5000 रुपए है। अगर आप फ्रंट में विंडो या आइल सीट पर सफर करना चाहते हैं तो इसके लिए 2000 रुपए एक्स्ट्रा यानी, कुल 7,000 रुपए देने होंगे। वहीं अगर आपको उसी लाइन की मिडिल सीट पर सफर करना है तो 1,500 रुपए एक्स्ट्रा खर्च करने पड़ेंगे। यानी, कुल 6500 रुपए लगेंगे। फ्री सीट चुनने या एयरपोर्ट पर चेक-इन के समय असाइन की गई सीट के लिए कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा। इंडिगो के पास 320 से ज्यादा विमानों का बेड़ा है। अपने बेड़े के साथ इंडिगो रोजाना 1900 से ज्यादा फ्लाइट ऑपरेट करती है।

| दैनिक पंचांग | |
|--|--|
| <p>ग्रह गोचर</p> | <p>श्री पिंगल नामक संवत्सर-विक्रम संवत्- 2080 शक संवत् -1945, सूर्य -रजतराणे - ऋतु- शिशिर महावीर निर्वाण संवत् -2550,हिजरी सन् -1444 कलियुग अवधि -432000 सूर्योदय - 06-51 भूय कति वर्ष-426876 कलियुग संवत् -5124 वर्ष कल्पारंभ संवत् -1972949124</p> |
| <p>ग्रह स्थिति</p> <p>सूर्य- धनु में चंद्र- धनु में मंगल- धनु में बुध- धनु में गुरु- मेष में शुक्र- वृश्चिक में शनि- कुंभ में राशि- मीन में केतु- कन्या में</p> | <p>लग्नारंभ समय</p> <p>धनु- 05-04 बजे मकर- 07-12 बजे कुंभ- 09-02 बजे मीन- 10-40 बजे मेष- 12-16 बजे वृष- 14-00 बजे मिथुन- 16-00 बजे कर्क- 18-13 बजे सिंह- 20-24 बजे कन्या- 22-31 बजे तुला- 00-37 बजे वृश्चिक- 02-48 बजे</p> |
| <p>विशेष:- राशिफल "हीं के गोचर के आधार पर लिखा गया है।सूक्ष्म फलादेश क लिए जन्म पत्रिका की सूक्ष्म स्थिति जानने के लिए जन्म कृण्डीली दिखाना चाहिए।</p> | <p>राहुकाल 12:23 से 13:47 तक</p> |
| श्री पंचागुली ज्योतिष केन्द्र Hyd,Sec | |
| दिन का चौघड़िया | रात का चौघड़िया |
| <p>लाभ. 06:51 - 08:13 शुभ अमृत. 08:13 - 09:37 शुभ काल. 09:37 - 11:00 अशुभ शुभ. 11:00 - 12:23 शुभ रांग 12:23 - 13:47 अशुभ उत्पात 13:47 - 15:10 अशुभ चंचल 15:10 - 16:34 शुभ लाभ 16:34 - 17:53 शुभ</p> | <p>उत्पात 17:53 - 19:34 अशुभ शुभ 19:34 - 21:10 शुभ अमृत 21:10 - 22:47 शुभ चंचल 22:47 - 24:24 शुभ रांग 24:24 - 02:00 अशुभ काल 02:00 - 03:37 अशुभ लाभ 03:37 - 05:13 शुभ उत्पात 05:13 - 06:51 अशुभ</p> |
| आपका राशिफल | |
| <p>मेष</p> <p>इस समय आपको जीवन में दो ही विकल्प मिलेंगे और दोनों में से किसी एक को भी छोड़ना आपके लिए समान दर्दनाक होगा । आपको अब अपने दिल की सुननी चाहिए । अपने खाली समय में अपने लक्ष्यों को सूची बनाएं,लेकिन उनको प्राथमिकताएं भी तय करें । आपको महत्वकाक्षी बह गई है और आप उन्हें जितनी जल्दी हो सके,पूर कर लेना चाहते हैं ।</p> | <p>वृष</p> <p>ई, उ, ए, जो, वा, वी, वू, वे, वो,</p> |
| <p>मिथुन</p> <p>का, की, कू, घ, ड, छ, के, को, ह,</p> | <p>कर्क</p> <p>ही, हू, हूं , हो, डा , डी, डू, डे, डो,</p> |
| <p>सिंह</p> <p>मा, मी,मू, म्मे, मो, दा, टी,टू,टे,</p> | <p>कन्या</p> <p>टो, पा, पी, पू, ष, ण, ठ, पे ,पो,</p> |
| <p>आज आपके मुख्य शब्द आराम और रहत रहेंगे। आप पिछले कुछ दिनों से बहुत मेहनत कर रहे हैं और अब इस मेहनत का आनंद लेने की वारी है , बहुत बड़ी पाटी ना रखें । छुट्टी का दिन शांति से बिताएं । अपने किसी विशेष प्रियजन से बात कर लेने से आपको बहुत खुशी मिलेगी । आज आपका स्वास्थ्य सम्बन्धी छोटी दिक्कत हो सकती हैं ।</p> | <p>आपको आज भावनात्मक और वित्तीय ,दोनों तरह का नुकसान हो सकता है । हालांकि, आप आसानी से इससे बच भी सकते हैं अगर आप उन लोगों से दूरी बना लें जो अपने फायदे के लिए आपको नुकसरदाई इन चीजों में घसीटना चाहते हैं । आज का दिन आराम से बिताएं और अपने उन पावों को भरने की कोशिश करें जो पिछली बातों से आपको मिले हैं ।</p> |
| <p>आज आप किसी असम्भाव्य साझेदारी की ओर कदम बढ़ा सकते हैं । इससे आपको रोमांटिक,रोमांच और सहजी होने की अनुभूति तो होगी परन्तु यह देखना होगा कि वह साझेदारी कितनी सफल होगी। किसी अस्थायीशांति और से सम्बंध-सहायता प्राप्त हो सकती है । हालांकि यह अवसर बहुत कम समय तक ही मिलेगा ,इसलिए आपको जल्दी ही फैसला लेना होगा ।</p> | <p>आप आज उल्लास और कुछ कर गुजरने के मूड में हैं । आपके सामने आज भूत से अवसर आयेगे और आप उनका पूरा लाभ उठाने के लिए बहुत उत्साह में हैं । आज अगर आप अपने दिल की सुनेंगे तो वित्तीय,निजी जीवन तथा संबंधों में भी बहुत सफलता मिलेगी । आज दिन भरनाओ बरा रहेगा और आप इसका हरपल आनंद उठाएंगे ।</p> |
| <p>आज आप एक बहुत बड़ी साझेदारी को अंतिम रूप देने वाले हैं लेकिन आपको अपने पार्टनर को अपने विश्वास और लक्ष्यों के बारे में स्पष्ट बता देना चाहिए । यदि कोई दिक्कत हुआ भी तो आपके भावनाओं में बह जाने की सम्भावना है,इस प्रवृत्ति पर नियंत्रण रखें । आज दिन का अंतिम हिस्सा किसी बौद्धिक कार्यकलाप या कलाकारी सम्बन्धी रुचि में लगा सकते हैं ।</p> | <p>आज के दिन आप अपने आपसपस सभी को अपनी सोच और किसी भी स्थिति को सही समझने की योग्यता से प्रभावित करेंगे । अपने कार्यस्थल को किसी बड़ी समस्या या किसी दोस्त को परेशानी का बहुत रचनात्मक सह हल निकलकर छा जायेंगे । आपके लिए रोमांचक सफर हैं । आपको किसी का ध्यान अपनी ओर खींचने की जरूरत नहीं है,बल्कि लोग खुद आपको ओर सहानुता लेने के लिए आयेगे ।</p> |
| <p>आप उर्जा से भरे हैं और आशावादी सोच रखते हैं । कुछ दिन पहले तक वो भी चीजें बिलकुल व्यर्थ लग रही थी,आज उन्हीं नहीं दिखेंगे । आपके दृष्टिकोण की दृढ़ता और जीवनशांति ने आपको इस स्थिति से निपटने में मदद मिलेगी । आज का दिन अपनी सोच,विचारों और इच्छाओं को खुलकर व्यक्त करने के लिए भी बहुत उपयुक्त है । सच्चे दिल से लक्ष्य प्राप्ति की कोशिश करें,आपको सफलता मिल मिलेगी ।</p> | <p>वृश्चिक</p> <p>तो,ना,नी, ने,नु, नो, या, ची, यु,</p> |
| <p>धनु</p> <p>ये, यो, भा, भी, भू, धा ,फा, डा, भे</p> | <p>आज आप किसी भी ,अच्छे-बुरे तरीके से अपना लक्ष्य या लेने के मूड में हैं । काफी समय तक हाशिये पर रहने के बाद आपको आज अपने ग्रहों की बदौलत काफी आत्मविश्वास का अनुभव होगा । आप अपनी मानसिक प्रवृत्ति के आधार पर फैसले ले सकते हैं,यकीन मानिए वे सही ही साबित होंगे ।</p> |
| <p>आज आपको किस्मत आपके साथ है । आप अपने समस्या को सुलझा लेने की कुशलता से सबको अवरज में डाल देंगे । सरकारी अपेक्षा प्रभावित होंगे । आपका आत्मविश्वास देखने लायक होगा और आपको एक नया काम मिलेगा । खुश रहें और अपनी के साथ खुशी बाँटें ।आज कोई दोस्त मिल सकता है । दिन कुल मिलाकर भव्यदार रहेगा ।</p> | <p>मकर</p> <p>भो, जा, जी, जो, खु, खे, खो, गा, गी,</p> |
| <p>कुंभ</p> <p>गु, गे,गो, सा, सी, सु, से, सो, दा,</p> | <p>आपकी प्रकृति उत्सुक और अदमनीय है और आप किसी भी प्रकार का नियंत्रण पसंद ना करते । आपको ऐसा करने की जरूरत भी नहीं है ,इसके स्थान पर खुशी और प्यार दें और आपको भी बदले में बहुत खुशी और प्यार मिलेगा । अपनी काम की मामूली वाली जिन्दगी में अपने सहकर्मीयों के साथ किसी छोटी सी यात्रा पर जाकर रंग भर सकते हैं ।</p> |
| <p>अपने घर से जुड़ी किसी अच्छी खबर के लिए तैयार रहें । निवास स्थान में बदलाव संभव है या नया घर खरीदने की योजना को अंतिम रूप दे सकते हैं । अपनी सकारात्मक ऊर्जा का लाभ उठायें । अगर आप कुछ समय से अपने घर या इसके किसी हिस्से को को नया रूप देने के बारे में सोच रहे हैं तो यह समय इसके लिए बहुत अच्छा है ।</p> | <p>मीन</p> <p>दी, दू,थ, झ, ज, दे, दो, चा, ची</p> |
| पं।महेशचन्द्र शर्मा 9247132654, 8309517693 | |

भारतीय शेयर बाजार ने गंवाई बढ़त,दिन के हाई से फिसलने के बाद मामूली तेजी के साथ हुआ वल्लोज



नई दिल्ली , 9 जनवरी (एजेंसियां)।मंगलवार का ट्रेडिंग सत्र भारतीय शेयर बाजार के लिए बेहद मिलाजुला रहा।सुबह से लेकर दोपहर तक बाजार शानदार तेजी के साथ कारोबार करता रहा लेकिन कारोबार के आखिरी घंटे में ऊपरी लेवल से बाजार में मुनाफावसूली लौटी।और बाजार बंद होने के समय सेसेक्स 31 अंकों

की मामूली तेजी के साथ 71,386 अंकों पर बंद हुआ जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 32 अंकों के उछाल के साथ 21,544 अंकों पर बंद हुआ है।दिन के कारोबार में एक समय सेसेक्स 680 और निफ्टी करीब 200 अंकों के उछाल के साथ कारोबार कर रहा था।आज के कारोबार में ऑटो, आईटी, फार्मा, मेटल्स, रियल एस्टेट, इंफ्रा, कमोडिटी, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, हेल्थकेयर और ऑयल एंड गैस सेक्टर के स्टॉक्स तेजी के साथ बंद हुए।जबकि

बैंकिंग, मीडिया, एफएमसीसी फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर के स्टॉक्स में गिरावट रही।आज के कारोबार में मिडकैप और स्मॉलकैप स्टॉक्स में खरीदारी देखी गई।सेसेक्स के 30 शेयरों में 15 तेजी के साथ और 15 गिरकर बंद हुए।निफ्टी के 50 शेयरों में 27 तेजी के साथ और 23 नीचे गिरकर बंद

2023 में देशभर में 2.38 करोड़ से ज्यादा गाड़ियां बिकीं

ये 2022 से 11% ज्यादा; दिसंबर-23 में 19.91 लाख व्हीकल्स बिके, यह वॉर्डओवाई 21% ज्यादा

नई दिल्ली , 9 जनवरी (एजेंसियां)।फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल एसोसिएशन यानी एफएडीए ने दिसंबर 2023 के साथ-साथ सालभर के टोटल रिटेल ऑटोमोबाइल सेल्स के आंकड़े जारी किए हैं। एफएडीए की रिपोर्ट के मुताबिक, कैलेंडर इंपर 2023 में अलग-अलग कैटेगरी में करीब 2.38 करोड़ गाड़ियां बिकीं।सालाना आधार पर इन्वमें 11.14% की ग्रोथ देखी गई है। एक साल पहले यानी 2022 में 2.15 करोड़ व्हीकल्स की सेल हुई थी। टोटल व्हीकल सेल में सबसे ज्यादा ट्रू-व्हीलर 1.71 करोड़ बिके। इसमें करीब 9.45% एनुअल ग्रोथ रही।इसके बाद पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में टोटल 38.60 लाख गाड़ियां एक साल में बिकीं हैं। सालाना आधार

पर इसमें 10.61% की ग्रोथ हुई है। एक साल पहले 34.90 लाख पैसेंजर व्हीकल देशभर में बेची गई थीं।

दिसंबर-23 में देशभर में 19.91 लाख गाड़ियां बिकीं

दिसंबर की बात करें तो अलग-अलग कैटेगरी में टोटल 19.91 लाख गाड़ियां बिकीं हैं। एक साल पहले यह सेल 16.43 लाख थी। लिहाजा इसमें 21.14% की बढ़ोतरी हुई है। इसमें ट्रू-व्हीलर सेगमेंट में सबसे ज्यादा 14.50 लाख गाड़ियां बिकीं हैं।वहीं, पैसेंजर व्हीकल्स सेगमेंट में 2.93

लाख गाड़ियों की सेल पिछले एक महीने में हुई है। इसमें मारुति सुजुकी ने सबसे ज्यादा 1.18 लाख कारें बेचीं हैं। देश में टोटल व्हीकल सेल में इसका शेयर 40.37% है।

हीरो ने सबसे ज्यादा 4.64 लाख दोपहिया गाड़ियां बेचीं

दिसंबर में ट्रू-व्हीलर कैटेगरी में हीरो मोटोकॉर्पो ने सबसे ज्यादा 4,63,593 गाड़ियां बेची हैं। दिसंबर में टोटल सेल में इस कंपनी का शेयर 31.98% रहा है। एक साल पहले दिसंबर 2022 में कंपनी ने 29.10% मार्केट शेयर के साथ 3,30,666 गाड़ियां बेचीं थीं। वहीं दूसरे नंबर पर होंडा ने 3.44 लाख ट्रू-व्हीलर्स बेची टोटल सेल में इसका मार्केट शेयर 23.74% रहा है।

दिसंबर-23 में 2.93 लाख कारें बिकीं

एफएडीए की रिपोर्ट में बताया गया है कि दिसंबर में 2.93 लाख पैसेंजर व्हीकल्स यानी कारें सेल हुई हैं, जिसमें सालाना आधार (वाईओवाई) पर 2.65% की ग्रोथ दर्ज की गई। पिछले साल दिसंबर में 2.85 लाख पैसेंजर व्हीकल्स बिके थे।

मारुति ने सबसे ज्यादा 1.18 लाख कारें बेचीं

दिसंबर में मारुति सुजुकी इंडिया ने सबसे ज्यादा 1,18,295 लाख कारें बेची हैं। इस महीने पैसेंजर व्हीकल्स कैटेगरी में कंपनी का मार्केट शेयर 40.37% रहा है।

एक साल पहले दिसंबर में कंपनी ने 1,18,194 लाख कारें बेची थीं, तब उसका मार्केट शेयर 41.41% रहा था।



भारत-रूस के बीच अब कोई विवाद नहीं!

मास्को/नई दिल्ली, 9 जनवरी (एजेंसियां)। यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद कई मुद्दों से जूझ रहे भारत और रूस दोनों ही अपने सभी विवाद दूर करने में जुट गए हैं। भारत में रूस के राजदूत अलीपोव ने कहा है कि रूस और भारत दोनों व्यापार में घाटा, पेमेंट में आ रही दिक्कतों और बीमा से जुड़े मामले को सुलझाने पर काम कर रहे हैं। इससे पहले रूस के दौरे पर गए भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से इस पूरे मामले को उठाया था। जयशंकर के पुतिन से गुहार लगाने के बाद अब रूस ऐक्शन में आ गया है। अलीपोव ने कहा कि अब दोनों ही देश एक-दूसरे को स्वीकार शर्तों को बनाने पर काम कर रहे हैं। वहीं पाकिस्तान को ब्रिक्स में शामिल किए जाने पर रूसी राजदूत ने कोई जवाब नहीं दिया। भारत और चीन के बीच विवाद पर रूसी राजदूत ने कहा कि हम आशा करते हैं कि भारत और चीन दोनों ही महान सभ्यताएं हैं जिनके अंदर राजनीतिक सुझबुझ है। ये दोनों ही देश सीमा विवाद पर आगे बढ़ने और संवेदनशील हितों पर आपसी सम्मान पर आधारित द्विपक्षीय रिश्तों को रास्ता हासिल

जयशंकर ने लगाई गुहार तो ऐक्शन में पुतिन, पाकिस्तान पर साधी चुप्पी



कर लेंगे। बता दें कि भारत और चीन दोनों के बीच पिछले करीब साढ़े तीन साल से पूर्वी लद्दाख में तनाव अपने चरम पर है। यही नहीं गलवान हिंसा में दोनों ही देशों के कई सैनिकों की जान गई थी।

रूस ने पाकिस्तान की ब्रिक्स सदस्यता पर क्या कहा?

अलीपोव ने यह भी कहा कि भारत और रूस दोनों ही व्यापार को विविध बनाने के लिए काम कर रहे हैं। साथ ही भारत के साथ व्यापार में भारी असमानता को भी दूर करने पर रूस काम कर रहा है। भारत यूक्रेन युद्ध के बाद साल 2021 से रूस से तेल खरीद रहा है जिससे उसका व्यापार घाटा

बहुत ज्यादा बढ़ गया है। एक तरफ जहां रूस का निर्यात भारत को कई गुना बढ़ गया है, वहीं भारत से रूस को निर्यात में कोई खास बढ़ोत्तरी नहीं हुई है। अलीपोव ने कहा कि हमारा इरादा इस व्यापार घाटे को कम करने पर है।

रूसी राजदूत ने भारतीय व्यापारियों को न्योता दिया कि वे रूस के बाजार का लाभ उठाएं जहां खूब संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि चुनौतिपूर्ण स्थितियों के बाद भी भारत और रूस के बीच रिश्ते अच्छे बने हुए हैं। आपसी हित और विश्वास पर आधारित ये रिश्ते आगे भी बढ़ते रहेंगे, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। वहीं

जापान में भूकंप के तेज झटके

रिव्टर पैमाने पर छह की तीव्रता से कांपी धरती टोक्यो, 9 जनवरी (एजेंसियां)। जापान में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। रिव्टर स्केल पर इसकी तीव्रता छह मापी गई। झटके मंगलवार दोपहर दो बजकर 29 मिनट पर पश्चिमी तट होन्शू में महसूस किए गए।

रिव्टर पैमाने पर छह की तीव्रता से कांपी धरती

टोक्यो, 9 जनवरी (एजेंसियां)। जापान में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। रिव्टर स्केल पर इसकी तीव्रता छह मापी गई। झटके मंगलवार दोपहर दो बजकर 29 मिनट पर पश्चिमी तट होन्शू में महसूस किए गए।

क्वाइट हाउस के दरवाजे से टकराई कार

सीक्रेट सर्विस ने ड्राइवर को गिरफ्तार किया, पिछले साल ट्रक लेकर घुसा था भारतीय मूल का शख्स

वॉशिंगटन, 9 जनवरी (एजेंसियां)। अमेरिका में एक शख्स ने सोमवार को व्हाइट हाउस के दरवाजे में अपनी कार घुसा दी। इसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति की सिक्योरिटी के लिए जिम्मेदार सीक्रेट सर्विस ने बताया कि वो मामले की जांच कर रहे हैं। घटना के दौरान राष्ट्रपति व्हाइट हाउस में मौजूद नहीं थे। घटना अमेरिकी समयानुसार शाम 6 बजे की है। गाड़ी की टक्कर व्हाइट हाउस के नॉर्थ ईस्ट साइड की तरफ के कॉम्प्लेक्स में हुई। घटना के वक्त राष्ट्रपति बाइडेन व्हाइट हाउस में मौजूद नहीं थे।

सीक्रेट सर्विस ने ड्राइवर का नाम नहीं बताया

सीक्रेट सर्विस ने कहा है कि वो ड्राइवर से पूछताछ कर रहे हैं। ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि उसने जानबूझ कर व्हाइट हाउस के दरवाजे में टक्कर मारी थी या वो महज एक सामान्य दुर्घटना है।

सीक्रेट सर्विस ने ड्राइवर के

सऊदी में स्मृति इरानी ने रचा इतिहास

मदीना, 9 जनवरी

(एजेंसियां)। सऊदी अरब के दौरे पर पहुंची भारत की महिला और अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री स्मृति इरानी ने मुस्लिमों के लिए सबसे पवित्र शहरों में शुमार मदीना का दौरा किया है। माना जा रहा है कि ऐसा पहली बार हुआ है जब मदीना शहर में एक गैर मुस्लिम भारतीय प्रतिनिधिमंडल पहुंचा है। यही नहीं स्मृति इरानी ने इस दौरान हिजाब भी नहीं पहन रखा था। अपने इस्लामिक कानूनों के लिए चर्चित सऊदी अरब में स्मृति इरानी के मदीना शहर पहुंचने को ऐतिहासिक माना जा रहा है। स्मृति इरानी ने भारतीय हज यात्रियों के लिए की जा रही सुविधाओं का जायजा लिया। इसे भारतीय कूटनीति की बड़ी जीत माना जा रहा है। सऊदी अरब के प्रिंस ने मदीना शहर को गैर मुस्लिमों के लिए भी साल 2021 में खोला था।

स्मृति इरानी ने एक्स पर लिखा कि मैंने आज मदीना की ऐतिहासिक यात्रा की, इस्लाम के सबसे पवित्र शहरों में से एक में पैगंबर की मस्जिद अल मस्जिद अल नबवी, उहूद के पहाड़ और पहली इस्लामी मस्जिद कुबा की

मदीना, 9 जनवरी (एजेंसियां)। सऊदी अरब के दौरे पर पहुंची भारत की महिला और अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री स्मृति इरानी ने मुस्लिमों के लिए सबसे पवित्र शहरों में शुमार मदीना का दौरा किया है। माना जा रहा है कि ऐसा पहली बार हुआ है जब मदीना शहर में एक गैर मुस्लिम भारतीय प्रतिनिधिमंडल पहुंचा है। यही नहीं स्मृति इरानी ने इस दौरान हिजाब भी नहीं पहन रखा था। अपने इस्लामिक कानूनों के लिए चर्चित सऊदी अरब में स्मृति इरानी के मदीना शहर पहुंचने को ऐतिहासिक माना जा रहा है। स्मृति इरानी ने भारतीय हज यात्रियों के लिए की जा रही सुविधाओं का जायजा लिया। इसे भारतीय कूटनीति की बड़ी जीत माना जा रहा है। सऊदी अरब के प्रिंस ने मदीना शहर को गैर मुस्लिमों के लिए भी साल 2021 में खोला था।

हज यात्रियों के लिए बड़ी सुशाखवरी

इससे पहले स्मृति इरानी ने सऊदी अरब के साथ हज 2024

पहली बार गैर मुस्लिम नेता पहुंचे मदीना, अल मस्जिद-अल-नबवी का किया दौरा



यात्रा शामिल है। उन्होंने कहा कि इस दौरान उन्हें इस्लाम की शुरुआत के बारे में जानने का मौका मिला। स्मृति इरानी के साथ विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन भी शामिल थे। एक आधिकारिक प्रवक्ता ने अपने बयान में कहा कि यह अपने आप में बहुत उल्लेखनीय और अप्रत्याशित घटनाक्रम था। मदीना में यह पहला गैर मुस्लिम प्रतिधिमंडल था जिसका इस पवित्र शहर में स्वागत किया गया। उन्होंने कहा कि यह भारत और सऊदी अरब के बीच बेहतरीन संबंधों को दर्शाता है।

हज यात्रियों के लिए बड़ी सुशाखवरी

इससे पहले स्मृति इरानी ने सऊदी अरब के साथ हज 2024

मदीना इस्लाम धर्म को मानने

वाले करोड़ों लोगों के लिए दो सबसे पवित्र शहरों में शामिल है। दुनियाभर मुस्लिमों के लिए यह बेहद महत्वपूर्ण शहर है। मदीना शहर सऊदी अरब के हेजाज इलाके में शामिल है। मदीना वह शहर है जहां पर पैगंबर मोहम्मद प्रवास किए थे। यही इसे इस्लामिक कैलेंडर की शुरुआत मानी जाती है। स्मृति इरानी अल मस्जिद अल नबवी के बाहरी दीवारों के पास तक गईं। इसके बाद वह उहूद पर्वत को भी देखने गईं। उन्होंने कूबा मस्जिद को भी देखा। उहूद पर्वत के पास अनुमति देकर अभूतपूर्व रवैया अपनाया।

मुस्लिमों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है मदीना शहर?

पाकिस्तान-चीन में धार्मिक स्वतंत्रता खतरे में

अमेरिकी रिपोर्ट में दावा, पाक बोला- यह भेदभाव और मनमाने पैमानों पर आधारित

आपसी समझ और सम्मान के आधार पर किया जा सकता है।

पाकिस्तान ने इस मुद्दे पर द्विपक्षीय रूप से अमेरिका के साथ बातचीत भी की है। पाकिस्तान में ईशनिंदा कानूनों के इस्तेमाल की जांच नहीं होने पर विश्व स्तर पर आलोचना होती रही है। इन कानूनों का गलत इस्तेमाल करके कट्टरपंथी समुदाय हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, अहमदिया मुस्लिम जैसे धार्मिक अल्पसंख्यकों को निशाना बनाते हैं। अगस्त 2023 में पाकिस्तान के फैसलाबाद में एक चर्च को जलाए जाने के बाद भीड़ ने ईशनिंदा के आरोप लगाए थे। 2021 में एक व्यक्ति पर ईशनिंदा का आरोप लगाने के बाद गुस्साई भीड़ ने उत्तर-पश्चिमी पाकिस्तान में एक सदी पुराने मंदिर पर हमला किया था।

इसके अलावा सियालकोट में श्रीलंकाई व्यवसायी प्रियंता कुमारा की पीट-पीटकर हुई हत्या के बाद भी ग्लोबल लेवल पर पाकिस्तान के ईशनिंदा कानूनों की आलोचना हुई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान में जबरन धर्म परिवर्तन, अपहरण और

जबरन शादी जैसे अपराध भी बढ़े पैमाने पर होते हैं।

सरकार इन गतिविधियों को रोकने के लिए पर्याप्त कार्रवाई करने में विफल रही है। इससे पहले 2022 में आई सीपीसी की लिस्ट में पाकिस्तान और चीन का नाम शामिल था।

अमेरिका ने रिपोर्ट में कहा था- भारत में अल्पसंख्यकों पर हमले बढ़े

इससे पहले अमेरिका ने अपनी धार्मिक स्वतंत्रता रिपोर्ट 2022 में कहा था कि भारत, चीन, रूस, सऊदी अरब जैसे देशों में अल्पसंख्यकों पर हमले बढ़ रहे हैं। भारत में राज्य सरकारें अल्पसंख्यकों खासतौर पर मुसलमानों के खिलाफ मनमानी करती हैं। इस रिपोर्ट को भारत के विदेश मंत्रालय ने खारिज कर दिया था।

मंत्रालय ने कहा था- यह रिपोर्ट अमेरिकी अधिकारियों की बेबुनियाद जानकारी पर आधारित है। कुछ अमेरिकी अधिकारियों की ये पक्षपाती टिप्पणियां ऐसी रिपोर्ट्स की विश्वसनीयता को कम करने का काम कर रही हैं।

मुंबई में जन्मी डेमोक्रेट मिनिता सांघवी भी चुनावी मैदान में उतरीं

वॉशिंगटन, 9 जनवरी (एजेंसियां)। अमेरिका में सियासी पारा चढ़ने लगा है। इस साल राष्ट्रपति चुनाव होना है। सभी उम्मीदवार बड़-चढ़कर प्रचार में लगे हुए हैं। मुंबई में जन्मी मिनिता सांघवी भी अब न्यूयॉर्क राज्य के सीनेट के लिए मैदान में उतर गई हैं। उन्होंने इसके लिए एक अभियान शुरू किया है। बता दें, पिछले साल ही अमेरिका के स्क्रिडमोर कॉलेज की प्रोफेसर मिनिता दूसरी बार साराटोगा सर्प्रिंस में कर्मिश्नर के पद के लिए चुनी गई थीं। 2001 में मुंबई से अमेरिका जाकर बर्सी मिनिता समलैंगिक अधिकारों के लिए काम करती हैं।

44वें जिले से चुनाव लड़ रही

46 वर्षीय डेमोक्रेट ने सोमवार को बताया कि वह नवंबर में 44वें जिले से चुनाव लड़ रही हैं और यह सीट लंबे समय से रिपब्लिकन जिम टेडिस्को के पास है। उन्होंने कहा कि 73 साल के टेडिस्को बुनियादी मुद्दों की अनदेखी कर रहे हैं। मिनिता ने कहा कि वह पहले समुदाय को रखना चाहती हैं। उन्हें राजनीति नहीं करनी।

पहले आसमान में दरवाजा टूटा, अब बोल्ट ढीले मिले

बोइंग 737 मैक्स विमानों पर यूनाइटेड एयरलाइन्स की शिकायत, 346 लोगों की जान ले चुका विमान

वॉशिंगटन, 9 जनवरी (एजेंसियां)। अमेरिका में बोइंग के 737 मैक्स 9 विमान का हवा में दरवाजा खुलने के बाद उसके खिलाफ एक और शिकायत आई है। यूनाइटेड एयरलाइन्स ने सोमवार को दावा किया है कि उन्हें एक विमान के पैनल में ढीले बोल्ट मिले हैं। इसे फिर से आसमान में विमान का दरवाजा खुलने जैसी घटना हो सकती थी।

यूनाइटेड एयरलाइन को जो विमान के पैनल्स में जो ढीले बोल्ट मिले हैं उन्हें प्लग्स कहा जाता है। ये इमरजेंसी दरवाजे के

नजदीक वाली कुर्सियों के पास लगते हैं। यूनाइटेड एयरलाइन ने अलास्का एयरलाइन की घटना के बाद अपने बोइंग 737 मैक्स 9 के विमान की सीट और साइड वॉल खोलकर पूरा निरीक्षण किया था। न्यूज एजेंसी एएफपी के मुताबिक अब तक 10 विमानों के बोल्ट ढीले मिल चुके हैं।

न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक पिछले हफ्ते जिस अलास्का एयरलाइन का हवा में दरवाजा खुला था उसे तीन हफ्तों से विमान में केबिन प्रेशर की समस्या को लेकर चेतावनी दी जा रही थी।

हूती विद्रोहियों के खिलाफ किसी देश की मदद नहीं करेंगे

इस्लामाबाद, 9 जनवरी (एजेंसियां)। पाकिस्तान ने रविवार को अरब सागर में अपने युद्धक जहाज की तैनाती की है। यह तैनाती ऐसे समय की गई है, जब हूती विद्रोही लगातार अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग रूट से गुजरने वाले व्यापारिक जहाजों पर हमले कर रहे हैं। इसके चलते भारत, अमेरिका समेत कई देशों ने समुद्र में निगरानी बढ़ा दी है। हालांकि पाकिस्तानी नौसेना ने साफ किया है कि उन्होंने युद्धक जहाज की तैनाती हूती विद्रोहियों के खिलाफ किसी देश की मदद के लिए नहीं

की है। पाकिस्तानी नौसेना के प्रवक्ता ने साफ किया कि वह यमन के हूती विद्रोहियों के खिलाफ कार्रवाई के मकसद से यह तैनाती नहीं की गई है। प्रवक्ता ने कहा कि 'पाकिस्तान की नौसेना का वही स्टैंड है, जो पाकिस्तान की सरकार का स्टैंड है कि हम युद्धग्रस्त गाजा के लोगों का समर्थन करते हैं।' उन्होंने कहा पाकिस्तानी नौसेना के जहाज लगातार अरब सागर में पेट्रोलिंग करेंगे और पाकिस्तान के ट्रेड रूट की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे।

इजराइल-हमास जंग का दायरा बढ़ने का खतरा

तेल अवीव, 9 जनवरी (एजेंसियां)। इजराइल और हमास के बीच जंग का दायरा अब लेबनान और दूसरे अरब देशों तक फैल सकता है। यह जानकारी कुछ मीडिया रिपोटर्स में इजराइल और अमेरिकी अफसरों के हवाले से दी गई। दरअसल, सोमवार को इजराइली सेना ने लेबनान पर हमला किया। इसमें हिजबुल्लाह का सीनियर कमांडर विसाम अल-तविल मारा गया।

हिजबुल्लाह के आतंकी एक कार में थे, जब इजराइल ने एयरस्ट्राइक की। अब हिजबुल्लाह इजराइल पर जवाबी हमलों की तैयारी कर रहा है। 'न्यूयॉर्क टाइम्स' की सोमवार रात जारी रिपोर्ट में लेबनान के

अफसरों के हवाले से कहा गया है कि इजराइली सेना के हमलों में दूसरा कमांडर मारा गया है और इसका असर पूरे गल्फ रीजन पर पड़ सकता है। इस अफसर ने कहा- हमें आशंका है कि यह जंग दालाका अरब रीजन को चपेट में ले सकती है। हम कोशिश कर रहे हैं कि अपने सहयोगियों को इस बारे में पहले से अलर्ट कर दें।

इस अफसर ने आगे कहा- हिजबुल्लाह की एक रदवान यूनिट इजराइल में घुसपैठ की तैयारी कर रही है और यह ठीक वैसे ही होने का खतरा है, जिस तरह का हमला हमास ने गाजा पर 7 अक्टूबर

अब ईरान की मदद से इजराइली शहरों पर हमले कर सकता है हिजबुल्लाह, अमेरिका भी सतर्क

2023 को किया था। इजराइली बंधकों के परिवारों ने कुछ दिन पहले कतर की राजधानी दोहा में वहां के प्रधानमंत्री से मुलाकात की थी। इसके बाद इजराइली सरकार पर दबाव बढ़ रहा है कि वो बंधकों की रिहाई के लिए हमास से डील करे। दूसरी तरफ, इजराइल की सरकार ने साफ कर दिया है कि देश की सुरक्षा की कीमत पर हमास तो क्या, किसी आतंकी संगठन से कोई डील नहीं की जाएगी, क्योंकि इस जंग में इजराइल के करीब 200 सैनिक शहीद हो चुके हैं।

इस अफसर ने आगे कहा- हिजबुल्लाह की एक रदवान यूनिट इजराइल में घुसपैठ की तैयारी कर रही है और यह ठीक वैसे ही होने का खतरा है, जिस तरह का हमला हमास ने गाजा पर 7 अक्टूबर

हिजाब न पहनने पर ईरानी महिला पर 74 कोड़े बरसाए

तेहरान, 9 जनवरी (एजेंसियां)। ईरान में एक महिला को हिजाब पहनने से इनकार करने पर 74 कोड़े मारने की घटना सामने आई है। 33 साल की रोया हेशमती पर राजधानी तेहरान में पुलिस ने कई बार बिना हिजाब पहने घूमने पर नियम न मानने का आरोप लगाया गया। न्यायपालिका की मिजान ऑनलाइन वेबसाइट के मुताबिक, रोया ने तेहरान में सार्वजनिक स्थानों पर बगैर सिर ढंके घूमकर नियम का उल्लंघन किया है। इसलिए सार्वजनिक नैतिकता को उल्लंघन करने के लिए शरिया कानून के तहत रोया को 74 कोड़े

24 हजार का जुर्माना लगा, पुलिस बोली- बिना सिर ढंके पब्लिक प्लेस पर घूम रही थी मारने की सजा सुनाई गई। इसके अलावा रोया पर लगभग 24 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। आमतौर पर नियम के अनुसार हिजाब न पहनने पर कोड़े मारना असामान्य है। हालांकि, महिला ड्रेस कोड को लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू होने से नियम न मानने वालों पर सख्ती बढ़ गई है। विरोध प्रदर्शन ड्रेस कोड के कथित उल्लंघन के आरोप में गिरफ्तार 22 साल की महसा अमिनी की हिरासत में मौत होने से शुरू हुए थे। ईरान में अप्रैल 2023 में हिजाब न पहनने

पुलिस बोली- बिना सिर ढंके पब्लिक प्लेस पर घूम रही थी

पर एक आदमी ने 2 महिलाओं के सिर पर दही डाल दिया था। इसके बाद पुलिस ने उन दोनों महिलाओं को ही गिरफ्तार कर लिया था। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। इसमें नजर आ रहा था कि मां-बेटी एक दुकान पर सामान खरीदने जाती हैं। तभी एक आदमी हिजाब न पहनने पर उनसे बहस करता है और फिर उनके सिर पर दही डाल देता है। पुलिस ने उस आदमी को भी माहिल बिराड़ने के आरोप में गिरफ्तार किया था। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने तब

कहा था- हिजाब देश के कानून का हिस्सा है। अगर कुछ लोग इसमें विश्वास नहीं रखते हैं तो उनको समझाना जरूरी है। हिजाब को लेकर देश में एक कानून है और इसको जालतन होना आवश्यक है।

ईरान के चीफ पुलिसर घोलम-होसेन मोहसेनी एजेंडे से भी कहा था कि जो महिलाएं सार्वजनिक जगहों पर बिना हिजाब के नजर आएंगी उनका बख्शा नहीं जाएगा। ईरान में 13 सितंबर 2022 को महसा अमिनी की पुलिस कस्टडी में मौत हो गई।

अलास्का एयरलाइंस के प्लेन से गिरा था ये मोबाइल, इसी एयरक्राफ्ट का गेट टूटा था

पोर्टलैंड, 9 जनवरी (एजेंसियां)। अमेरिका में 5 जनवरी को अलास्का एयरलाइंस के एयरक्राफ्ट का गेट 16 हजार फीट की ऊंचाई पर टूट गया था। इस घटना के कुछ वीडियो भी सामने आए थे। एयरक्राफ्ट ने इमरजेंसी लैंडिंग की थी। अब एक शख्स ने दावा किया है कि उसे बोइंग 737-9 मैक्स सीरीज के इस प्लेन से गिरा एक आईफोन मिला है और यह बिल्कुल ठीक है। इसकी स्क्रीन पर खरोंच तक नहीं आई। इस फोन के मालिक का फिलहाल पता नहीं लग सका है।

5 अगस्त को पोर्टलैंड में एयरक्राफ्ट का गेट टूटने की घटना हुई थी। उस वक्त यह बोइंग 737-9 मैक्स सीरीज एयरक्राफ्ट 16 हजार फीट की ऊंचाई पर था। माना जा रहा है कि जब इस प्लेन का गेट टूटा तो कई सीट विंडोज भी डैमेज हुईं और इसी वक्त किसी पैसेंजर का आईफोन गिरा। पायलट ने इमरजेंसी लैंडिंग का अनाउंसमेंट किया। चंद मिनट बाद इसने सेफ लैंडिंग की। इसके बाद अमेरिका के नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड (एनटीसीबी) को घटना की जांच करने को कहा गया।



सरदार शहर जैन परिषद का नववर्ष स्नेह मिलन समारोह



हैदराबाद, 9 जनवरी (स्वतंत्र वार्ता)। सरदारशहर जैन परिषद, हैदराबाद का दीपावली एवं नववर्ष स्नेह मिलन समारोह का आयोजन को मनाया गया। राजेन्द्र बोधरा द्वारा जारी विज्ञप्ति अनुसार सरदार शहर परिषद के सदस्यों के साथ-साथ बहन, बेटी, जवाइयों ने भी इस आयोजन में भाग लिया। कार्यक्रम में लगभग 425 व्यक्तियों की उपस्थिति रही। सांस्कृतिक कार्यक्रम का प्रारंभ

नमस्कार महामंत्र के साथ प्रारंभ हुआ। परिषद के अध्यक्ष अशोक नाहटा ने समारोह में पधार सभी सरदारशहर परिवारजन सदस्यों हार्दिक स्वागत किया। परिषद के उपाध्यक्ष जयसिंह दुगड़ ने शिक्षा, चिकित्सा, खेल, कला विज्ञान क्षेत्र में परिषद परिवार के सदस्यों ने जिन्होंने विशेष उपलब्धि प्राप्त की है, उनकी जानकारी दी। सभी को परिषद की तरफ से मोमेंटों द्वारा सम्मानित किया गया। परिषद के

मंत्री विकास दसानी ने परिषद परिवारजन सदस्यों, बहन, बेटी, जवाई का इस प्रोग्राम में आने पर आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम के सभी संयोजकगण अजय सेठिया, पवन नाहटा, प्रकाश सेठिया, आशीष दुगड़, स्नेह दुगड़ का आयोजन को सफल बनाने के लिए आभार व्यक्त किया। विभिन्न समितियों के संयोजकगण का भी आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम का संचालन निष्ठा नाहटा ने किया।

इंडिया में सीट शेयरिंग पर पेंच फंसा

कोलकाता, 9 जनवरी (एजेंसियां)। लोकसभा चुनाव में अब तीन महीने बचे हैं, लेकिन अब तक इंडिया में शीट शेयरिंग पर बात नहीं बन रही। खबर है कि बंगाल में कांग्रेस-टीएमसी, बिहार में कांग्रेस-जेडीयू-आरजेडी ने सीटों लेकर मतभेद है। सोमवार को कांग्रेस और आप के नेताओं के बीच बैठक हुई। आज मंगलवार को कांग्रेस, शिवसेना (उद्धव गुट) और एनसीपी (शरद गुट) के बीच मुंबई में बैठक होगी है। इस बैठक में संजय राउत, सुप्रिया सुले, अशोक चव्हाण और नाना पटोले शामिल होंगे।

कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के साथ राहुल गांधी 29 या 30 जनवरी को पश्चिम बंगाल में प्रवेश कर सकते हैं। यात्रा के बंगाल पहुंचने के पहले ही विपक्षी गठबंधन इंडिया में टूट के संकेत मिलने लगे हैं। तृणमूल कांग्रेस को मुखिया और सीएम ममता बनर्जी राज्य में 42 में से 40 सीटों पर प्रत्याशी उतारने की तैयारी कर चुकी है।

पुलिस अधिकारियों के लिए नेत्र चिकित्सा शिविर का आयोजन

सिरपुर कागजनगर, 9 जनवरी (स्वतंत्र वार्ता)। कागज नगर टाउन पुलिस स्टेशन और शरत मैक्सीविजन सुपर स्पेशलिटी आई हॉस्पिटल, हनुमाकोंडा ने आज टाउन पुलिस स्टेशन में पुलिस अधिकारियों, कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों के लिए एक नेत्र चिकित्सा शिविर का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर जिले के एसपी के. सुरेश कुमार आईपीएस ने शिरकत की और इस मेडिकल कैप का उद्घाटन किया। इस मौके पर एसपी ने कहा कि पुलिस अधिकारियों एवं कर्मियों के कल्याण को ध्यान में रखते हुए पुलिस परिवार के सदस्यों के लिए निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया जाना चाहिए तथा पुलिस परिवार के सदस्यों को इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अपनी जान जोखिम में डालकर जनता की सेवा करने वाले पुलिस को अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता देनी चाहिए, तभी वे अपने कर्तव्यों का पालन प्रभावी ढंग से कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान



डिजिटल युग में टीवी और मोबाइल के अधिक उपयोग से आंखों की समस्याएं बढ़ रही हैं। प्रत्येक व्यक्ति को अपने निजी जीवन में स्वास्थ्य के लिए प्रतिदिन कम से कम एक घंटा व्यायाम के लिए निकालने के लिए कहा जाता है। कहा जाता है कि बच्चों को उनके माता-पिता को डिजिटल

गेम से लेकर ग्राउंड गेम खेलने की आदत डालनी चाहिए। एसपी ने कहा कि जल्द ही आसिफाबाद में भी यह नेत्र शिविर आयोजित किया जाएगा। चिकित्सा शिविर में कागजनगर डिवीजन के एसपी, डीएसपी, सीआई, एसआई, एसएस, हेड कांस्टेबल, कांस्टेबल, होम गार्ड ने नेत्र परीक्षण कराया।

कार्यक्रम में कागज नगर डीएसपी करुणकर, कागज नगर टाउन सीआई बुद्धे स्वामी, कागज नगर ग्रामीण सीआई नागराजु, वरिष्ठ नेत्र रोग विशेषज्ञ अशोक, समन्वयक महेंद्र, पार्षद अजय, एसआई अंजना, श्रीकांत, कल्याण, रमन कुमार, सोनिया और अन्य पुलिस कर्मियों ने भाग लिया।

सीईआईआर के माध्यम से उपलब्ध कराए गए मोबाइल फोन



निर्मल, 9 जनवरी (स्वतंत्र वार्ता)। जिला एसपी डॉ. जी जानकी शर्मा ने मोबाइल फोन खो जाने पर तुरंत संबंधित थाने या सीईआईआर पोर्टल पर शिकायत की जानी चाहिए कहा। आज स्थानीय एसपी कैप कार्यालय में जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में मोबाइल फोन खो चुके पीड़ितों के मोबाइल फोन ट्रैकिंग जिला एसपी के हाथों वापस कराए गये। उन्होंने कहा कि सीईआईआर वेबसाइट के माध्यम से जिले में पहचाने गए और जब्त किए गए (421) सेल फोन उनके मालिकों को सौंप दिए गए। मोबाइल फोन को सावधानी से रखने की सलाह दी जाती है क्योंकि अपराधी चोरी हुए मोबाइल फोन का दुरुपयोग कर सकते हैं।

अमीरपेट मर्चेंट वेलफेयर एसोसिएशन की साधारण सभा आयोजित



हैदराबाद, 9 जनवरी (स्वतंत्र वार्ता)। अमीरपेट मर्चेंट वेलफेयर एसोसिएशन की वार्षिक साधारण सभा आयोजित की गई। सर्वप्रथम उत्तमसिंह राजपुरोहित ने स्वागत भाषण प्रस्तुत किया। इस दौरान राजपुरोहित समाज ने पुरानी कार्यकारिणी भंग कर, चुनाव प्रक्रिया द्वारा तत्संबंधित कार्यकारिणी का गठन किया। इस संदर्भ में, राजपुरोहित समाज के अधिकारिक सूत्रों ने बताया कि, पुरानी कार्यकारिणी भंग करने के

बाद, चुनाव प्रक्रिया द्वारा सभी की सहमति से निम्न कार्यकारिणी का गठन किया गया। इसमें चेयरमैन एम. अशोक, वाईस चेयरमैन उत्तमसिंह राजपुरोहित, एडवाइसर अशोक राजपुरोहित व हंसराज कोठारी, अध्यक्ष सरदार गुरमीत सिंह, उपाध्यक्ष मोहन पटेल व गुलाबसिंह राजपुरोहित, सचिव वी. बाबु, सहसचिवगण महावीर बोहरा, प्रेमसिंह राजपुरोहित, देवेन्द्र सिंह राजपुरोहित, आर. श्रीनिवास,

कोषाध्यक्ष अशोक सिंह ढालाण तथा कार्यकारिणी सदस्यों में, मधराज चैधरी, राजकुमार जैन, रामानुजाचारी, श्रीनिवास, अजमत खान, सरदार जोगीन्द्र सिंह, वेंकटेश, करीम, डी. प्रकाश, रीतेश पटेल, प्रशान्त पाटील, रवि, परमजित सिंह, राजकुमार, प्रसाद, वेंकटरमणा शामिल हैं। कार्यक्रम समापन पर गुलाबसिंह राजपुरोहित ने धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत करने के बाद राष्ट्रीय के साथ मीटिंग खत्म हुई।

कुमरम भीम आसिफाबाद, 9 जनवरी (स्वतंत्र वार्ता)। आदिवासी आश्रम विद्यालय टीडब्ल्यूपीएस, प्राथमिक विद्यालय एमपीपीएस, कुमरम भीम आसिफाबाद जिले के तिरुथानी मंडल में कार्यरत हैं, कुछ शिक्षक सरकारी नियमों के अनुसार समय की पाबंदी ना करने के कारण अनुपस्थित हैं और स्कूल नहीं आते हैं, शिक्षक अपनी जर्बूतों के लिए काम कर रहे हैं और नहीं आ रहे हैं स्कूल ठीक से चल रहा है और वे समय की पाबंदी के बिना अन्य जिलों से आने-जाने के दौरान अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं, वे अपने कर्तव्यों से अनुपस्थित हैं और इसके अलावा कुछ शिक्षक अपने स्थान पर निजी व्यक्तियों को नियुक्त करते हैं और शिक्षक अपने निजी काम पर जा रहे हैं। भारत प्रजातंत्र युवजन समारख्या

डीवाईएफआई की मांग है कि कार्रवाई की जानी चाहिए समय-सारणी का पालन नहीं करने वाले शिक्षकों के विरुद्ध प्राइवेट व्यक्तियों को नियुक्त कर विद्यालय से अनुपस्थित रहने वाले शिक्षकों के विरुद्ध कार्रवाई की जाने की मांग की।

भारत जोड़ो न्याय यात्रा को मणिपुर में अभी मंजूरी नहीं

इंफाल, 9 जनवरी (एजेंसियां)। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा 14 जनवरी से शुरू होगी। मणिपुर के जिस ग्राउंड से ये यात्रा शुरू होगी है, उसके लिए राज्य सरकार ने मंजूरी नहीं दी है। पार्टी नेताओं ने राज्य के मुख्य सचिव विनीत जोशी से सोमवार को मुलाकात की तो उन्हें बताया गया कि मामला मुख्यमंत्री एन बरिन सिंह के पास है। मामलों में कांग्रेसी सांसद केसी वेणुगोपाल ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि एक हफ्ते पहले ही प्रोग्राम की परमिशन के लिए आवेदन दे दिया गया था, लेकिन अभी तक मंजूरी नहीं मिली है। वेणुगोपाल ने आगे कहा कि ये राजनीतिक यात्रा नहीं है, इसलिए सरकार को इसका राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए। यात्रा का मकसद अशांत मणिपुर के लोगों के घावों को भरना और नफरत खत्म करके प्रेम का संदेश फैलाना है। वेणुगोपाल ने मणिपुर की स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि हम इस यात्रा की शुरुआत यहां का भविष्य सुनिश्चित करने के लिए कर रहे हैं। मणिपुर से मुंबई तक 6,500 किमी की दूरी तय करने वाली यह ऐतिहासिक यात्रा युवाओं, महिलाओं, किसानों और गरीबों के लिए न्याय मांगती है।

अस्पतालों में डॉक्टरों के रिक्त पदों की भर्ती

निर्मल, 9 जनवरी (स्वतंत्र वार्ता)। जिला अस्पताल अधीक्षक कार्यालय द्वारा ज्ञापन जारी किया गया। निर्मल जिला कलेक्टर के आदेश के अनुसार, निर्मल जिला तेलंगाना वैद्य विधान परिषद अस्पतालों में डॉक्टरों के रिक्त पद जैसे की रोग विशेषज्ञ (2), जनरल सर्जन-1, बाल रोग विशेषज्ञ-2, सिविल सहायक सर्जन (एमबीबीएस)-6 अनुबंध के आधार पर भर जाते हैं।

हिन्दी साहित्य भारती के अध्यक्ष बनने पर राजीव सिंह का सम्मान



हैदराबाद, 9 जनवरी (स्वतंत्र वार्ता)। हिन्दी साहित्य भारती की तेलंगाना इकाई एवं केन्द्रीय हिन्दी संस्थान, हैदराबाद के संयुक्त तत्वावधान में संस्थान के सभागार में डॉ. राजीव सिंह के अध्यक्ष पद ग्रहण एवं शब्द नहीं मूझाते पुस्तक वितरण समारोह आयोजित किया गया।

क्षेत्रीय निदेशक डॉ. गंगाधर वानोडे की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम का संचालन प्रवक्ता पंकज यादव ने किया। अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन के पश्चात संयुक्त महामंत्री शिल्पी भटनगर ने सरस्वती वंदना एवं अध्यक्ष डॉ. राजीव सिंह ने मातृवंदना प्रस्तुत की। प्रभारी डॉ. सुरभि दत्त ने

आमंत्रित अतिथिगण का परिचय प्रस्तुत किया। मुख्य अतिथि, डायरेक्टर लैंग्वेज हाउस प्राइवेट लिमिटेड नवीन गुप्ता को हिन्दी प्रचार सेवा रत्न स्मृति चिह्न भेंट किया गया। साहित्यिक कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में वरिष्ठ साहित्यकार, शिक्षा क्षेत्र के विद्वानत्रय अहिल्या मिश्र, डॉ. ऋषभदेव शर्मा, ज्योति गुरवारा उपस्थिति रहे। डॉ. राजीव सिंह के प्रदेश अध्यक्ष पद ग्रहण करने पर प्रभावी डॉ सुरभि दत्त तथा गणमान्य अतिथियों सहित डॉ. रमा द्विवेदी, डॉ. आशा मिश्रा, सरिता सुराणा, ज्योति नारायण, सुनीता लुछा आदि साहित्यकारों द्वारा डॉ राजीव सिंह का सम्मान

किया गया। डॉ. सुरभि दत्त ने डॉ. राजीव सिंह के कार्यों का परिचय दिया। मुख्य अतिथि नवीन गुप्ता ने कहा कि जन जन तक हिन्दी पहुंचे इस लक्ष्य के साथ दक्षिण भारत के राज्यों में कार्यशालाएं आयोजित कर हजारों शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। डॉ. अहिल्या मिश्र ने आशीर्चन दिया। प्रथम सत्र के क्रम में डॉ. सुरभि दत्त द्वारा कहानी घर के आह्वान के साथ मंच नाटक लेखक सुहास भटनगर एवं सुदेष्णा ने कहानी घर का भावपूर्ण मंचन किया। डॉ. ऋषभदेव शर्मा जी की अध्यक्षता में द्वितीय सत्र काव्य गोष्ठी का आयोजन किया गया।

अग्रवाल समाज घासी बाजार झुला शाखा महिला समिति द्वारा गांव की छांव कार्यक्रम



हैदराबाद, 9 जनवरी (स्वतंत्र वार्ता)। अग्रवाल समाज घासी बाजार झुला शाखा की महिला समिति द्वारा नव वर्ष के उपलक्ष्य में मीलगीरी कार्यक्रम में हार्दिक पाठ आयोजित किया गया। कार्यक्रम का आयोजन शाखा सहमंत्री व उप मुख्य संयोजिका बबीता मित्तल, मुख्य-संयोजिका शर्मिला अग्रवाल, सहसंयोजिका दीपा अग्रवाल, मीना अग्रवाल एवं पूजा संधी के संयोजकत्व में आयोजित की गई। फार्म हाउस के लिए बंस द्वारा प्रस्थान किया गया। कार्यक्रम में 80 से अधिक महिलाएं एवं बच्चे सम्मिलित हुए।

माह की 31 तारीख तक पूरा किया जायेगा

सीएमआर का लक्ष्य: जिलाधीश



निर्मल, 9 जनवरी (स्वतंत्र वार्ता)। जिलाधीश आशीष सांगवान ने सागरपुर मंडल के स्वर्णा स्थित चावल मिल का आकस्मिक निरीक्षण कर अधिकारियों को कई सुझाव दिये गये। उन्होंने कहा कि एक निश्चित अवधि के भीतर सीएमआर (कस्टम मिलिंग चावल) के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, सशक्त उपाय किए जाने चाहिए और यह सुनिश्चित करने के लिए पर्यवेक्षण किया जाना चाहिए कि चावल मिलों को सीएमआर के तहत आवंटित अनाज की शीघ्र मिलिंग की जाए और चावल के भंडार को खाद्य निगम तक पहुंचाया जाए। यद्यपि सीएमआर कोटा पिछले 31 दिसंबर तक एफसीआई को दिया जाना था, क्योंकि मिलिंग प्रक्रिया बड़े पैमाने पर लंबित है, वे यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि कस्टम मिल्ड चावल का स्टॉक निर्धारित समय के भीतर पहुंच जाए। यह सुझाव दिया गया है कि इस पहलू को अत्यधिक महत्व देते हुए चावल मिल के आधार पर निगरानी की जानी चाहिए। मिलर्स अपनी पूरी क्षमता से मिलिंग का कार्य करें और प्रतिदिन कम से कम 80 से 90 प्रतिशत मिलिंग हो, इसे ध्यान में रखते हुए अधिकारी चावल मिलों का लगातार भ्रमण करें और मिलिंग सुनिश्चित करने के लिए योजनाबद्ध प्रयास करें। पूर्ण पैमाने पर किया जाता है। उन्होंने कहा कि आवंटित अनाज भंडार की जांच करायी जाये। इसमें अपर समाहर्ता किशोर कुमार आरडीओ रत्ना कल्याणी डीएम श्रीकला, संबंधित पदाधिकारी व अन्य शामिल हुए।

पीएम ने किया ...

शिखर सम्मेलन इंडस्ट्री 4.0, प्रौद्योगिकी और नवाचार, सतत विनिर्माण, ग्रीन हाइड्रोजन, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और नवीकरणीय ऊर्जा और स्थिरता की दिशा की ओर बढ़ने जैसे विश्व स्तर पर प्रासंगिक विषयों पर सेमिनार और सम्मेलनों सहित विभिन्न कार्यक्रमों की मेजबानी कराया।

ब्राइड्रेट गुजरात ग्लोबल ट्रेड शो में कंपनियां वर्ल्ड क्लास स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी से बने उत्पादों को प्रदर्शित करगी। ई-मोबिलिटी, स्टार्ट-अप, एमएसएमई, ब्लू इकोनॉमी, ग्रीन एनर्जी और स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इस ट्रेड शो के कुछ फोकस सेक्टर हैं।

26 खिलाड़ियों को ...

टूर्नामेंट के शुरुआती 4 मैच नहीं खेलने के बावजूद शमी 24 विकेट लेकर टूर्नामेंट टॉप विकेट टेकर रहे। सात्विक-चिराग को मेजर ध्यान चंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया। चिराग और सात्विक के लिए 2023 यादगार रहा। उन्होंने एशियन गेम्स में गोल्ड जीता (एशियन गेम्स के बैडमिंटन इवेंट में भारत का पहला गोल्ड) और एशियन चैंपियनशिप का खिताब जीता। इस जोड़ी ने इंडोनेशिया सुपर 1000, कोरिया सुपर 500 और स्विस् सुपर 300 के खिताब भी जीते। सात्विक-चिराग वर्ल्ड चैंपियनशिप के ब्रॉन्ज मेडल विनर हैं और 2022 के कॉमनवेल्थ गेम्स में भी गोल्ड जीतकर लौटे थे। दोनों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवॉर्ड मिलेगा, जो भारत में खेलों का सर्वोच्च सम्मान है। कविता (कबड्डी), मंजूषा कंवर (बैडमिंटन) और विनीत कुमार शर्मा (हॉकी) को लाइफ टाइम (ध्यानचंद पुरस्कार) से नवाजा

गया। इस पुरस्कार से उन खिलाड़ियों को सम्मानित किया जाता है जो अपने प्रदर्शन से खेलों में विशेष योगदान दिए हैं। साथ ही जो रिटायरमेंट के बाद भी खेल आयोजन को बढ़ावा देने में अपना सहयोग जारी रखते हैं। गणेश प्रभाकरन (मलखंब), महावीर सैनी (पैरा एथलेटिक्स), ललित कुमार (कुस्ती), आरबी रमेश (शतरंज) और शिवेंद्र सिंह (हॉकी) को कोचिंग का सबसे बड़ा सम्मान द्रोणाचार्य अवॉर्ड दिया गया।

राष्ट्रपति मुइज्जु के

...

मुझे चिंता है कि हमें दोनों देशों के बीच विवाद का खामियाजा भुगतान मुश्किल होगा। वहीं, मालदीव के दूसरे सांसद मिकेल नसीम ने संसद से विदेश मंत्री को तलब किया है और उनसे सवाल करने की मांग उठाई है।

अगर मालदीव-भारत के रिश्ते और बिगड़े तो इसका सबसे ज्यादा नुकसान वहां की टूरिज्म इंडस्ट्री को ही होगा। इस बीच मालदीव की टूरिज्म इंडस्ट्री एमएटीआई ने मंगलवार को भारत और पीएम मोदी के खिलाफ की गई अपने मंत्रियों की अपमानजनक बयानबाजी की आलोचना की है। एमएटीआई ने प्रेस रिलीज जारी कर कहा है कि भारत हमारा साझेदार है, मुसीबत के वक हमारी मदद के लिए सबसे पहले आगे आता है। मालदीव की टूरिज्म इंडस्ट्री में भारत सबसे बड़ा सहयोगी है। हम चाहते हैं कि ये साझेदारी सदियों तक बनी रहे। हम उस हर एक्शन की कड़ी निंदा करते हैं जिससे दोनों देशों के संबंध बिगड़ सकते हैं। वहीं, ब्लू स्टार ट्रेवल सर्विसेज

के डायरेक्टर माधव ओझा ने कहा कि भारत और मालदीव के 8 डायरेक्ट फ्लाइट्स हैं। भारत से रोजाना 1200-1300 पैसेंजर मालदीव जाते हैं। विवाद के बाद फ्लाइट्स की बुकिंग में 20-30 प्रतिशत की कटौती की संभावना है।

मंदिर की सुरक्षा ...

इसका निर्माण नदी की लहरों पर जेटी के ऊपर किया जा रहा है। नदी में बाढ़ आने की स्थिति में जेटी के साथ यह रूम भी ऊपर आ जाएगा। पानी कम होगा तो यह स्वतः नीचे हो जाएगा। 103 स्कूलों में रुकेगी पुलिस, 20 दिन बांधित रहनी पहाई : रामलला की गण प्रतिष्ठा के दौरान बाहरी जिलों से आने वाले फोर्स को ठहराने की कसरत शुरू हो गई है। इसके लिए जिले के 103 स्कूलों का अधिग्रहण किया जा रहा है।

एसएसपी ने जरूरत बताई तो जिला विद्यालय निरीक्षक ने संबंधित स्कूलों को पत्र भेज दिया। 10 जनवरी से 20 दिन के लिए इन स्कूलों में जवानों का डेरा रहेगा। इस दौरान शिक्षण कार्य बाधित रहेगा। जिले में पुलिस, पीएसपी, आरएफएफ, सीआरपीएफ के जवानों के जंथे आने लगे हैं।

स्वतंत्र वार्ता

Email :
svaarthta2006@gmail.com
svaarthta@rediffmail.com
svaarthta2006@yahoo.com

Epaper :
epaper.swatantravarthta.com

For Advertisement :
swaddst@gmail.com

14 महीने बाद टी-20 में क्यों लौटे विराट-रोहित

दोनों का टी-20 वर्ल्ड कप में खेलना तय, द्रविड़ को भी इसी वजह से मिला एक्सटेंशन

मुंबई, 9 जनवरी (एजेंसियां)। रोहित शर्मा और विराट कोहली पिछले 14 महीनों में एक भी टी-20 इंटरनेशनल मैच नहीं खेले थे। पिछले टी-20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में मिली हार के बाद से भारतीय सिलेक्टर्स इस फॉर्मेट में युवाओं को तरजीह दे रहे थे। लेकिन अब अफगानिस्तान के खिलाफ 11 जनवरी से शुरू हो रही तीन टी-20 मैचों की सीरीज के लिए टीम में इन दिग्गजों की वापसी हो गई है।

लंबे अरसे के बाद इन दिग्गजों की वापसी के क्या मायने हैं? इसी को आगे डिकोड करेंगे।

टी-20 वर्ल्ड कप में उतरेगी वनडे वर्ल्ड कप की टीम

बीसीसीआई के एक सीनियर ऑफिशियल ने कहा कि बोर्ड टी-20 वर्ल्ड कप में भी करीब-करीब वही टीम उतारना चाहता है जो पिछले वनडे वर्ल्ड कप में खेली थी। उन्होंने कहा, वनडे वर्ल्ड कप में भारत भले ही खिताब नहीं जीत पाया, लेकिन भारतीय टीम पूरे टूर्नामेंट में शानदार खेली।

भारतीय टीम का रवैया काफी आक्रामक रहा और यह टी-20 फॉर्मेट में भी मददगार साबित हो सकता है। रोहित और विराट वनडे वर्ल्ड टीम के कोर मेम्बर थे। इसी वजह से इनकी टी-20 फॉर्मेट में वापसी हुई है।

वर्ल्ड कप से पहले यही तीन टी-20 इंटरनेशनल मैच बचे

रोहित और विराट को अगर टी-20 वर्ल्ड कप की टीम में शामिल होना था तो उनको अफगानिस्तान के खिलाफ टी-20 सीरीज में हर हाल में खेलना ही था। वर्ल्ड कप से पहले इस फॉर्मेट में भारत के पास यही तीन इंटरनेशनल मैच



बचे हैं। इसके बाद हमारे खिलाड़ी इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज और उसके बाद आईपीएल में खेलेंगे।

आईपीएल की फॉर्म वर्ल्ड कप के लिए सिलेक्शन का पैमाना बनेगी, लेकिन अफगानिस्तान के खिलाफ इन तीन टी-20 इंटरनेशनल मैचों को इग्नोर नहीं

किया जा सकता है।

एक साथ कोई वर्ल्ड कप नहीं जीत पाए हैं रोहित-विराट

रोहित शर्मा 2007 में टी-20 वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम का हिस्सा थे। वहीं, विराट कोहली 2011 में वनडे वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम का हिस्सा थे। हालांकि दोनों एक साथ टीम में रहते कोई



वर्ल्ड कप नहीं जीत पाए हैं। 2024 में व्हाइट बॉल क्रिकेट में उनके पास यह कसर पूरी करने का पूरा मौका है।

इसी रणनीति के तहत बढ़ा द्रविड़ का कार्यकाल

वनडे वर्ल्ड कप खत्म होते ही विराट कोहली का भारतीय कोच के तौर पर कार्यकाल पूरा हो गया था।

हालांकि, बीसीसीआई ने द्रविड़ का कार्यकाल बढ़ाने का फैसला किया। द्रविड़ टी-20 वर्ल्ड कप तक टीम से जुड़े रहेंगे। यानी द्रविड़-रोहित की कोच कप्तान जोड़ी एक बार फिर वर्ल्ड कप में देखने को मिलेगी।

वनडे वर्ल्ड कप के ये खिलाड़ी भी रस में

बीसीसीआई से जुड़े सूत्र बता रहे हैं कि वनडे वर्ल्ड कप में खेले भारत के 8 से 9 खिलाड़ी अगले टी-20 वर्ल्ड कप में भी खेलने के मजबूत दावेदार हैं। इनमें रोहित और विराट के अलावा शुभमन गिल, केएल राहुल, सूर्यकुमार यादव, हार्दिक पंड्या, रवींद्र जडेजा, जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज और मोहम्मद शमी शामिल हैं।

अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज के लिए घोषित टीम में श्रेयस अय्यर, जडेजा, हार्दिक सूर्या, बुमराह, शमी और सिराज शामिल नहीं हैं। इनमें से ज्यादातर को वर्कलोड मैनेजमेंट के तहत आराम दिया गया है। जबकि हार्दिक, सूर्या और शमी अभी चोटिल हैं।

युवा खिलाड़ियों में रिकू, तिलक और बिश्नोई पर नजर

ऐसे खिलाड़ी जो वनडे वर्ल्ड कप की टीम का हिस्सा नहीं थे, लेकिन टी-20 वर्ल्ड कप में शामिल हो सकते हैं उनमें रिकू सिंह, तिलक वर्मा, यशस्वी जायसवाल, संजु सैमसन, जितेश शर्मा और रवि बिश्नोई मजबूत दावेदार हैं। रिकू ने पिछले आईपीएल के बाद से इस फॉर्मेट में लगातार अच्छा खेल दिखाया है। वहीं, तिलक वर्मा ऑलराउंड काबिलियत रखते हैं। रवि बिश्नोई टी-20 फॉर्मेट में अभी चयनकर्ताओं की पहली पसंद है।

वहीं सैमसन और जितेश विकेटकीपर बैटर के रूप में सिलेक्टर्स की रडार में हैं। हालांकि इन सभी खिलाड़ियों को आईपीएल 2024 में भी अच्छा खेल दिखाना होगा।

मालदीव विवाद पर भारत को पाकिस्तान से मिला खास सपोर्ट

फायर इमोजी के साथ क्रिकेटर आया सामने



इस्लामाबाद, 9 जनवरी (एजेंसियां)। पर्यटन को लेकर भारत और मालदीव के बीच चल रहे विवाद में खिलाड़ियों ने भी दिलचस्पी लेनी शुरू कर दी है। हालांकि, अब जिस खिलाड़ी का बयान जहां से आया है वह बेहद मायने रखता है। जी हां, यह क्रिकेटर कोई और नहीं पड़ोसी देश पाकिस्तान के पूर्व स्पिनर दानिश कनेरिया हैं। कनेरिया ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लक्षद्वीप मुद्दे पर समर्थन किया है।

43 वर्षीय पूर्व लेग स्पिनर ने अपने आधिकारिक दिवटर अकाउंट से एक पोस्ट साझा किया है। इसमें उन्होंने लिखा है लक्षद्वीप। इसके साथ ही उन्होंने फायर की इमोजी भी लगाई है। दानिश के इस पोस्ट पर लोग अपने विचार भी साझा कर रहे हैं। मनोज कुमार नाम के एक यूजर ने अपना विचार साझा करते हुए लिखा है, 'मालदीव एक चाइनीज कॉलोनी है, जबकि

लक्षद्वीप टूरिज्म का नया डेस्टिनेशन है।' **क्रिकेट के भगवान' भी उतरे मैदान में** दानिश कनेरिया से पहले देश के पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर जो कि खेल जगत में 'क्रिकेट के भगवान' के रूप में मशहूर हैं, उन्होंने भी भारतीय समुद्र तटों को बढ़ावा देने के लिए अपना समर्थन दिया है।

सचिन ने सिंधुदुर्ग में मनाए गए अपने 50वें जन्मदिन की एक क्लिप साझा करते हुए उन्होंने लिखा कि 250 दिन हो गए हैं। तटीय शहर ने हमें वह सबकुछ प्रदान किया है, जो हम चाहते हैं। करते हुए आगे लिखा है कि भारत को सुंदर समुद्र तटों और प्राचीन द्वीपों का आशीर्वाद प्राप्त है। हमारे अतिथि देवो भव दर्शन के हिसाब से हमारे पास देखने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। बहुत सारी यादें बनने की प्रतीक्षा में हैं।

वरुण तोमर और ईशा सिंह ने एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में जीता स्वर्ण पदक

ओलंपिक कोटा भी किया हासिल



नई दिल्ली, 9 जनवरी (एजेंसियां)। एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में भारतीय निशानेबाजों ने स्वर्णिम प्रदर्शन किया। बागपत के वरुण तोमर और एशियाड की स्वर्ण पदक विजेता ईशा सिंह ने 10 मीटर एयर पिस्टल में न सिर्फ स्वर्ण पदक जीते बल्कि पेरिस ओलंपिक का कोटा भी हासिल कर लिया। इसके साथ ही निशानेबाजों की ओर से पेरिस ओलंपिक के लिए जीते गए कोटा की संख्या 15 हो गई है।

टोक्यो ओलंपिक में भी भारत के 15 निशानेबाजों ने हिस्सा लिया

था, लेकिन इस चैंपियनशिप और ओर कोटा आने की उम्मीद है, जिससे टोक्यो की रिकॉर्ड संख्या पीछे छूट सकती है। टोक्यो ओलंपिक के फाइनल में पहुंचने वाले सौरभ चौधरी के ममेरे भाई वरुण ने क्वालिफाईंग राउंड में अपने करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 586 का स्कोर किया। ठीक इतना ही स्कोर सौरभ ने टोक्यो में किया था।

वरुण ने इस दौरान एक सीरीज 100 में से 100 की भी लगाई। वह क्वालिफाईंग में शीर्ष स्थान पर रहकर फाइनल में पहुंचे।

एशियाड पदक विजेता अर्जुन चीमा (579) ने भी फाइनल में जगह बनाई। उज्ज्वल मलिक (575) फाइनल में तो नहीं पहुंचे, लेकिन तीनों ने मिलकर टीम का स्वर्ण पदक देश को जरूर दिलाया। अर्जुन ने फाइनल में 237.3 का स्कोर रजत पदक जीता।

इस स्कोर को भी जल्द पीछे छोड़ना: वरुण

फाइनल में 20 वर्षीय पूर्व जूनियर विश्व चैंपियन वरुण की शुरुआत अच्छी नहीं रही, लेकिन उन्होंने बाद में जबरदस्त वापसी करते हुए 239.6 का स्कोर स्वर्ण जीता। वरुण अमर उजाला से कहते हैं कि यह उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर जरूर है, लेकिन वह इसे भी जल्द पीछे छोड़ देंगे। वरुण ने सात वर्ष पहले शूटिंग शुरू की थी। वह बताते हैं कि उन्होंने सौरभ को देखकर प्रेरणा ली कि उन्हें भी इस खेल में कुछ अच्छा करना है। उन्होंने शुरुआती दिनों में घर पर ही रेंज लगाकर रात-दिन अभ्यास किया।

बुमराह की गेंदबाजी में क्या है जो हर किसी को बना लेते हैं अपना फैन? अब पठान ने कहा- मुझे प्यार हो गया है



खेल डेस्क, 9 जनवरी (एजेंसियां)। अफगानिस्तान के खिलाफ टी20 सीरीज में जसप्रीत बुमराह नहीं नजर आएंगे। उन्हें इस सीरीज के लिए आराम दिया गया है। दिलचस्प बात ये है कि इसके बाद टीम इंडिया को इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज खेलनी है। इस सीरीज में पांच टेस्ट मैच खेले जाएंगे। बुमराह इस सीरीज में वापस टीम इंडिया का हिस्सा होंगे। यानि बुमराह ने लिमिटेड ओवर की बजाए टेस्ट क्रिकेट को वरीयता दी है। हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज के दौरान जसप्रीत बुमराह ने शानदार गेंदबाजी की थी। भूलना नहीं चाहिए कि जसप्रीत बुमराह

करीब डेढ़ साल बाद टेस्ट क्रिकेट खेल रहे थे. लेकिन उनका अंदाज शानदार था. वो जबरदस्त सकारात्मक थे. इसी बात को लेकर इफरफान पठान ने एक बड़ा बयान दिया था. उन्होंने कहा कि चोट के बाद जसप्रीत बुमराह ने जिस तरह टेस्ट मैच में गेंदबाजी की उसे देखकर उन्हें उनके अंदाज से प्यार हो गया है. बुमराह सिर्फ भारतीय गेंदबाजों के लिए नहीं बल्कि विश्व क्रिकेट के लिए 'मोटिवेशन' हैं. पठान ने ये भी कहा था कि अगर एक गेंदबाज सजरी के बाद भी टेस्ट क्रिकेट को प्राथमिकता में रखता है तो वो इस फॉर्मेट का सबसे बड़ा 'ब्रैंड एम्बेसडर' है.

नई दिल्ली, 9 जनवरी (एजेंसियां)। पेरिस ओलंपिक क्वालिफिकेशन पर नजरें टिकाए बैठे एचएस प्रणय और लक्ष्य सेन जैसे भारत के शीर्ष बैडमिंटन खिलाड़ियों को मंगलवार से यहां शुरू हो रहे मलेशिया ओपन सुपर 1000 टूर्नामेंट के साथ नए सत्र की प्रभावो शुरुआत करने की उम्मीद होगी। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ियों के लिए अगले चार महीने में काफी कुछ दांव पर लगा होगा और इस दौरान उनकी नजरें व्यस्त कार्यक्रम के बीच अप्रैल के अंत तक विश्व रैंकिंग में शीर्ष 16 में जगह बनाकर पेरिस खेलों के लिए क्वालिफाई करने पर टिकी होगी। दो बार की ओलंपिक पदक विजेता पी वी सिंधु घुटने की चोट से उबर रही हैं जिसके कारण महिला एकल में भारत का कोई प्रतिनिधित्व नहीं होगा। मिश्रित युगल में भी कोई भारतीय प्रतिस्पर्धा नहीं कर रहा है।

प्रणय की पहली टक्कर एंटोनसन से

ओलंपिक में जगह बनाने की दौड़ में दुनिया के आठवें नंबर के



खिलाड़ी प्रणय आगे चल रहे हैं। उनके लिए पिछला सत्र शानदार रहा जिसमें उन्होंने विश्व चैंपियनशिप और एशियाई खेलों में पहली बार कांस्य पदक और मलेशिया मास्टर्स सुपर 500 में खिताब जीता। वह ऑस्ट्रेलिया ओपन सुपर 500 में भी फाइनल में पहुंचे। यह आठवीं वरीयता प्राप्त 31 वर्षीय खिलाड़ी अपने अभियान की शुरुआत डेनमार्क के एंडर्स एंटोनसन के खिलाफ करेगा

और उन्हें अपनी शानदार फॉर्म जारी रखने की उम्मीद होगी। एंटोनसन ने 2023 में कोरिया ओपन जीतकर चोट से सफल वापसी की थी।

सेन के लिए लक्ष्य आसान नहीं सभी की निगाहें लक्ष्य और किदांबी श्रीकांत पर भी होंगी जो शीर्ष 16 में आने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। दुनिया के 16वें नंबर के खिलाड़ी लक्ष्य ने पिछले साल कनाडा ओपन सुपर 500 का



खिताब जीता लेकिन इसके बाद अपनी फॉर्म गंवा दी। श्रीकांत की विश्व रैंकिंग 24वीं है और वह 2023 में सिर्फ चार टूर्नामेंट के क्वाटर फाइनल में पहुंचे। सेन और श्रीकांत के लिए चीजें आसान नहीं होने वाली हैं क्योंकि उन्हें यहां शुरुआती दौर में क्रमशः चीन के वेंग होंग येंग और इंडोनेशिया के छठी वरीयता प्राप्त जोनाथन क्रिस्टी जैसे कड़े प्रतिद्वंद्वियों का सामना करना है।

ओलंपिक क्वालिफायर के लिए तैयार महिला हॉकी टीम

नवनीत कौर ने कहा- कोटा हासिल करने को लेकर आश्वस्त

नई दिल्ली, 9 जनवरी (एजेंसियां)। मेजबान टीम ने फाइनल में जापान को 4-0 से हराकर प्रतियोगिता में अपना लगातार दूसरा खिताब जीता था। सविता पूनिया के नेतृत्व में भारतीय टीम ने पिछले साल नवंबर में रांची के मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंथा एस्टोर्टफ हॉकी स्टेडियम में एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी।

मध्या पंक्ति की आक्रामक खिलाड़ी नवनीत कौर ने कहा कि भारतीय महिला टीम लगातार तीसरी बार ओलंपिक कोटा हासिल करने को लेकर आश्वस्त है।



उन्होंने कहा कि रांची की परिस्थितियों की जानकारी आठ टीमों के हॉकी ओलंपिक क्वालिफायर से पहले मेजबान टीम को अच्छी स्थिति में रखेगी। सविता पूनिया के नेतृत्व में भारतीय टीम ने पिछले साल नवंबर में यहां मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंथा एस्टोर्टफ हॉकी स्टेडियम में

एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी।

मेजबान टीम ने फाइनल में जापान को 4-0 से हराकर प्रतियोगिता में अपना लगातार दूसरा खिताब जीता था। टोक्यो ओलंपिक खेलों में ऐतिहासिक चौथे स्थान पर रही भारतीय टीम ने परिस्थितियों को समझने के लिए लगभग एक सप्ताह बिताया।

सीएम से गोदरेज एग्रोवेट कंपनी के प्रतिनिधियों ने मुलाकात की

मुख्यमंत्री ने कंपनी को तेलंगाना में कारोबार के लिए आमंत्रित किया



हैदराबाद, 9, जनवरी (स्वतंत्र वार्ता)। गोदरेज एग्रोवेट कंपनी लिमिटेड के एक प्रतिनिधिमंडल ने आज (मंगलवार) मुख्यमंत्री से वार्ता की।

हैदराबाद, 9, जनवरी (स्वतंत्र वार्ता)। गोदरेज एग्रोवेट कंपनी लिमिटेड के एक प्रतिनिधिमंडल ने आज (मंगलवार) मुख्यमंत्री से वार्ता की।

हैदराबाद, 9, जनवरी (स्वतंत्र वार्ता)। गोदरेज एग्रोवेट कंपनी लिमिटेड के एक प्रतिनिधिमंडल ने आज (मंगलवार) मुख्यमंत्री से वार्ता की।

मंगलवार को सचिवालय में प्रबंध निदेशक डीएम सिंह यादव के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री से वार्ता की।

सीएम ने कंपनी प्रतिनिधिमंडल को राज्य में रियल एस्टेट, फर्नीचर और उपभोक्ता वस्तुओं के क्षेत्र में बड़ी संभावनाएं तलाशने का सुझाव दिया। सीएम रेवंत ने ऑयल पाम और डेयरी व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए हर तरह का समर्थन देने का वादा किया, जिसे कंपनी पहले ही तेलंगाना में शुरू कर चुकी है। सीएम ने कंपनी को कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी के तहत कौशल विकास को बढ़ावा देने की सलाह दी। राज्य के आईटी और उद्योग मंत्री डी श्रीधर बाबू, मुख्य सचिव शांति कुमार और अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे।

राम मंदिर में सोने के दरवाजे की पहले दर्शन

3 दिन में 13 और दरवाजे लगेगे, 42 दरवाजों पर 100 किलो सोने की परत चढ़ाई जाएगी

अयोध्या, 9 जनवरी (एजेंसियां)। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर के सोने के दरवाजे की पहली तस्वीर सामने आई है। यह दरवाजा करीब 12 फीट ऊंचा और 8 फीट चौड़ा है। इसे फर्स्ट फ्लोर पर लगाया गया है। आने वाले 3 दिनों में 13 और दरवाजे लगाए जाएंगे। गर्भगृह में सिर्फ 1 दरवाजा होगा। इसके चौखट के ऊपर भगवान विष्णु की शयन मुद्रा में चित्र को उकेरा गया है। राम मंदिर में कुल 46 दरवाजे लगेगे। इनमें से 42 पर 100 किलो सोने की परत चढ़ाई जाएगी। सीढ़ियों के पास 4 दरवाजे लगेगे। इन पर सोने की परत नहीं होगी। इन दरवाजों को महाराष्ट्र की सागीन की लकड़ी से बनाया गया है। इन पर हैदराबाद के कारीगरों ने नक्काशी का काम किया है। इसके बाद इन पर तांबे की परत लगाई गई। फिर सोने की परत चढ़ाई जा रही है। राम लला का



सिंहासन भी सोने का बनाया जाना है। यह काम भी 15 जनवरी तक पूरा कर लिया जाएगा। मंदिर का शिखर भी सोने का होगा, लेकिन इस काम को बाद में किया जाएगा। 1 किलो सोना, 7 किलो

चांदी से बनाई गई चरण पादुकाएं : मंदिर में भगवान श्रीराम की प्राण प्रतिष्ठा के बाद उनकी चरण पादुकाएं भी रखी जाएंगी। ये चरण पादुकाएं एक किलो सोने और सात किलो चांदी से बनाई गई हैं।

इन्हें हैदराबाद के श्रीचल्ला श्रीनिवास शास्त्री ने बनाया है।

18 जनवरी से शुरू होगा मूर्ति अधिवास : विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता और धर्माचार्य संपर्क प्रमुख अशोक तिवारी ने बताया, 18 जनवरी से मूर्ति अधिवास प्रारंभ होगा। इस दिन सुबह-शाम जलाधिवास होगा। 19 जनवरी की सुबह फल और शाम को धान्य अधिवास होगा। 20 जनवरी की सुबह पुष्प और शाम को रत्न अधिवास होगा।

21 जनवरी की सुबह शर्करा, मिष्ठान और मधु अधिवास होगा और शाम को औषधि और शय्या अधिवास होगा। भावान राम सूर्यवंशी हैं, इसलिए द्वादश अधिवास हो रहे हैं। इसके अलावा 16 से 22 जनवरी तक चतुर्वेद यज्ञ होगा। 22 जनवरी को रामलला के विग्रह की आंखों से पट्टी खोली जाएगी और उन्हें दर्शन दिखाया जाएगा।

जीएचएमसी आयुक्त रोनाल्ड रोज ने कांनूल के छात्रों को प्रमाण पत्र वितरित किया



हैदराबाद, 9, जनवरी (स्वतंत्र वार्ता)। जीएचएमसी कमिश्नर रोनाल्ड रोज ने प्युनिशपल स्टैंडिंग काउंसिल में इंटरशिप पाने वाले कांनूल के छात्रों को प्रमाण पत्र प्रदान किए। उन्होंने कहा कि सोशल ट्राइबल वेलफेयर रजिडेंशियल लॉ कॉलेज के विद्यार्थियों को इंटरशिप देकर उन्हें अधिवक्ता के रूप में केस मैनेजमेंट की पूरी समझ देकर भविष्य में अधिवक्ता के रूप में विकसित होने का अनुभव दिया जाएगा। सोशल वेलफेयर रजिडेंशियल गैल्स लॉ कॉलेज एलबीनगर के 18 छात्रों और ट्राइबल वेलफेयर रजिडेंशियल लॉ कॉलेज संगारेड्डी के 8 छात्रों को कमिश्नर रोनाल्ड रोज द्वारा नगरपालिका स्थायी इंटरशिप का अवसर दिया गया है। उन्होंने कहा कि कुछ जरूरतमंद छात्रों को स्टैंडिंग काउंसिल के माध्यम से उच्च न्यायालय और जिला सिविल न्यायालयों में इंटरशिप प्रदान की गई। इस अवसर पर बोलते हुए छात्रों ने इंटरशिप का अवसर प्रदान करने के लिए आयुक्त के प्रति आभार व्यक्त किया। छात्रों ने जीएचएमसी आयुक्त रोनाल्ड रोज को धन्यवाद दिया कि उन्होंने हमें मामलों के बारे में अदालत और स्थायी परिषद में कैसे कार्य करना है, इसकी अच्छी समझ देकर गरीब छात्रों को एक अच्छा अवसर प्रदान किया। सर्टिफिकेट प्रदान कार्यक्रम में एलबीनगर लॉ कॉलेज के प्रिंसिपल मानसा, संगारेड्डी लॉ कॉलेज के प्रिंसिपल गीता, समाज कल्याण गुरुकुल विभाग के ओएसडी हरिता, अतिरिक्त आयुक्त कोटा श्रीवास्तव, विशेष उप कलेक्टर श्रीधर, एनएमसी कपूर और अन्य ने भाग लिया।

मुख्यमंत्री ने की पहल : कांस्टेबल की पत्नी को मिलीनौकरी

पिछली सरकार ने स्थानीयता का हवाला देकर नौकरी खारिज कर दी



हैदराबाद, 9, जनवरी (स्वतंत्र वार्ता)। राचकोंडा पुलिस आयुक्तालय के अंबरपेट पुलिस मुख्यालय में अपने कर्तव्यों का पालन करते समय एक कांस्टेबल की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। उनकी पत्नी सत्यलता आंध्र प्रदेश राज्य से हैं और पिछली सरकार ने स्थानीयता का हवाला देते हुए उन्हें दो साल तक नौकरी देने से इनकार कर दिया था। प्रजावाणी कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री को इस मामले की जानकारी हुई। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी

ने मृत कांस्टेबल की पत्नी को नौकरी दिलवाने का आदेश जारी कर दिया गया है। राज्य सरकार के आदेश के अनुसार, डीजीपी ने आदेश जारी किया। सीपी राचकोंडा सुधीर बाबू ने राचकोंडा कमिश्नरेट कार्यालय में कनिष्ठ सहायक की नौकरी दे दी। सीपी राचकोंडा ने राचकोंडा पुलिस आयुक्त कार्यालय में सत्यलता कनिष्ठ सहायक के पद पर नियुक्त किया है। आयुक्त ने उन्हें आश्वासन दिया कि वे सरकार द्वारा दी गई नौकरी में, विशेष रूप से

नियमों में ढील देकर, कुशलतापूर्वक, नैतिक और ईमानदारी से काम करेंगे और भविष्य में भी अपने परिवारों के साथ खड़े रहेंगे। इस मौके पर कांस्टेबल शेखर के परिवारों ने एक बार फिर मुख्यमंत्री, डीजीपी और सीपी राचकोंडा का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर पुलिस ऑफिसर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष भद्र रेड्डी और दिवंगत कांस्टेबल शेखर के परिवार के सदस्य उपस्थित रहे।

आईआरसीटीसी ज्योतिर्लिंग के साथ दिव्य दक्षिण यात्रा भारत गौरव ट्रेन चलाएगी

दो तेलुगु राज्यों के 10 स्टेशनों पर बोर्डिंग /डी-बोर्डिंग की सुविधा



हैदराबाद, 9, जनवरी (स्वतंत्र वार्ता भारतीय)। रेलवे द्वारा शुरू की गई ज्योतिर्लिंग भारत गौरव पर्यटक ट्रेनों के साथ दिव्य दक्षिण यात्रा को दक्षिण मध्य रेलवे में भारी सफलता मिली है। रेल यात्रियों की सकारात्मक प्रतिक्रिया से उत्साहित होकर, भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन निगम (आईआरसीटीसी) ने दिव्य दक्षिण यात्रा की एक और यात्रा की योजना बनाई है। ट्रेन 23 जनवरी, 2024 को सिकंदराबाद से अपनी यात्रा शुरू करेगी और दक्षिणी राज्यों तमिलनाडु और केरल के महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों को कवर करेगी।

ज्योतिर्लिंग के साथ दिव्य दक्षिण यात्रा का नौ दिवसीय दौरा तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्यों के रेल यात्रियों/तीर्थयात्रियों को तिरुवन्नामलाई (अरुणाचलम), रामेश्वरम, मदुरै, कन्याकुमारी, तिरुवनंतपुरम, त्रिची और तंजावुर जैसे महत्वपूर्ण स्थलों की यात्रा करने का एक शानदार अवसर प्रदान करता है। गौरतलब है कि यह ट्रेन तेलंगाना के सिकंदराबाद, काजीपेट, वारांगल और खम्मम स्टेशनों के साथ-साथ आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा, तेनाली, ओंगोल, नेल्लोर, गुड्डुर और रेनिगुटा स्टेशनों पर यात्रियों को बोर्डिंग/डी-बोर्डिंग की सुविधा प्रदान करती है। पूरी यात्रा 23 से 31 जनवरी, 2024 तक 8 रातों / 9 दिनों की अवधि

में कवर की जाएगी। ट्रेन व्यक्तिगत योजना बनाने और यात्रियों के लिए उपयुक्त ट्रेन, आवास, भोजन आदि जैसी सभी संबंधित व्यवस्था करने में शामिल सभी कठिनाइयों से बचती है। इसमें सभी यात्रा सुविधाएं (रेल और सड़क परिवहन दोनों), आवास सुविधा, खानपान व्यवस्था (सुबह की चाय, नाश्ता, दोपहर का भोजन और रात का खाना ऑन-बोर्ड और ऑफ-बोर्ड), पेशेवर और मैत्रीपूर्ण टूर एस्कॉर्ट्स की सेवाएं, ट्रेन में सुरक्षा शामिल हैं। (सभी कोचों में स्थापित सीसीटीवी कैमरे सहित), सभी कोचों में सार्वजनिक घोषणा सुविधा, यात्रा बीमा और सहायता के लिए यात्रा के दौरान आईआरसीटीसी टूर मैनेजरों की उपस्थिति होगी। बुकिंग शुरू कर दी गई है और इच्छुक यात्री आईआरसीटीसी के माध्यम से टिकट बुकिंग कर सकते हैं। दक्षिण मध्य रेलवे के महाप्रबंधक अरुण कुमार जैन ने कहा कि भारत गौरव पर्यटक सर्किट ट्रेनें दोनों तेलुगु राज्यों के यात्रियों के बीच एक बड़ी सफलता रही हैं। उन्होंने कहा कि पर्यटक सर्किट ट्रेन भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और शानदार ऐतिहासिक स्थानों को प्रदर्शित करती है। उन्होंने कहा कि यात्री को इस अवसर का उपयोग रामेश्वरम में किसी एक ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए करना चाहिए।

महिलाओं को नौकरी में प्राथमिकता देगी कोकाकोला

कंपनी के अधिकारियों ने वन मंत्री से मुलाकात की



हैदराबाद, 9, जनवरी (स्वतंत्र वार्ता)। प्रसिद्ध शीतल पेय निर्माता कंपनी हिंदुस्तान कोका कोला बेवरेजेज (एचसीसीबी) तेलंगाना के औद्योगिक विकास में भाग लेने के लिए आगे आई है। कंपनी के प्रतिनिधियों के एक समूह ने मंगलवार को वन एवं पर्यावरण और राजस्व मंत्री कोडा सुरेखा से मुलाकात की। जल टोस अपशिष्ट प्रबंधन में क्षमता निर्माण, अपशिष्ट जल का पुनः उपयोग, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर। मंत्री को

बताया गया कि कौशल विकास को प्राथमिकता दी जाएगी और महिलाओं को नौकरी के अवसरों में प्राथमिकता दी जाएगी। कोका कोला के प्रतिनिधियों ने मंत्री को बताया कि कोका कोला ने अब तक राज्य में तीन अरब रुपये से अधिक का निवेश किया है। सिद्दीपट्ट जिले के बांदा तिल्लाम्पूर में एक ग्रीनफील्ड बॉटलिंग प्लांट निर्माणधीन है, प्रतिनिधियों ने कहा कि उनकी कंपनी राज्य में निवेश के साथ-साथ सामाजिक

विकास में भी भाग लेगी और तदनुसार परियोजनाओं का विस्तार करेगी। प्रतिनिधियों ने मंत्री को आश्वासन दिया कि वे वारांगल जिले के दूरदराज के गांवों में पीने के पानी के टैंक, स्कूलों में मोबाइल शौचालय और आंगनवाड़ी भवनों की व्यवस्था करेंगे। इस कार्यक्रम में कोका-कोला बेवरेजेज पब्लिक रिलेशंस चीफ हिमांशु, फ्लूट्टर हेड मुकुंद त्रिवेदी, बापूय, ओएसडी सुमंत और अन्य ने भाग लिया।

कार्य प्रशिक्षण कक्षाओं का लाभ उठाएं: जिला शिक्षा अधिकारी



कुमरम भीम आसिफाबाद, 9 जनवरी (स्वतंत्र वार्ता)। जिला शिक्षा अधिकारी अशोक ने कहा कि बेरोजगार युवक-युवतियों

को कार्य प्रशिक्षण वर्ग का लाभ उठाना चाहिए। मंगलवार को जिला शिक्षा पदाधिकारी अशोक ने जिला

परीक्षा पदाधिकारी उदय बाबू के साथ मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया और कुमरम भीम आसिफाबाद जिला केंद्र के

टास्क रीजनल सेंटर में टास्क वारी बेसिक आईटी स्किल और सॉफ्ट स्किल कक्षाओं की शुरुआत की।

इस अवसर पर उन्होंने कहा कि कार्य के माध्यम से सभी को तकनीकी ज्ञान मिल सकता है। उन्होंने कहा कि कार्यों के इस प्रशिक्षण के अलावा कंप्यूटर से संबंधित कई तरह के प्रशिक्षण दिये जायेंगे। जिले के सभी लोगों को कार्य सेवाओं का लाभ उठाने और कंप्यूटर क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त करने की सलाह दी जाती है। इस कार्यक्रम में टास्क क्षेत्रीय केंद्र प्रबंधक साई कुमार, छात्र-छात्राएं व अन्य लोग शामिल हुए।

इस अवसर पर उन्होंने कहा कि कार्य के माध्यम से सभी को तकनीकी ज्ञान मिल सकता है। उन्होंने कहा कि कार्यों के इस प्रशिक्षण के अलावा कंप्यूटर से संबंधित कई तरह के प्रशिक्षण दिये जायेंगे। जिले के सभी लोगों को कार्य सेवाओं का लाभ उठाने और कंप्यूटर क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त करने की सलाह दी जाती है। इस कार्यक्रम में टास्क क्षेत्रीय केंद्र प्रबंधक साई कुमार, छात्र-छात्राएं व अन्य लोग शामिल हुए।

हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं



CA गोविंद अग्रवाल
(सुपौत्र: स्व.श्रीमती शांताबाई श्री गणेशलालजी अग्रवाल)
(सुपुत्र: संतोष कुमार अग्रवाल श्रीमति सुनिता अग्रवाल)
C.A. Final की परीक्षा में First Attempt में उत्तीर्ण होने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं
उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाओं के साथ श्री सुरेश कुमार अग्रवाल (चाचा) श्रीमती पार्वति अग्रवाल (चाची)

निवास: संतोष कुमार गणेशलालजी अग्रवाल श्री बालाजी निवास, दुब्बा रोड, आन्ध्र प्रभा एडीशन आफिस के सामने, निजामाबाद-503002 (T.S.)
MOB. No. 8790514849



श्री सोनाराम तिलायचा
कुमावत समाज, तेलंगाना प्रदेश के अध्यक्ष बनने पर हार्दिक बधाई
कुमावत समाज के उत्तरोत्तर प्रगति की मंगलकामनाओं सहित..
धर्माचन्द्र कुमावत (अध्यक्ष : आप और हम)
(पूर्व अध्यक्ष : कुमावत समाज, हैदराबाद-सिकन्दराबाद)
भंवरलाल अलोदिया (पूर्व अध्यक्ष : कुमावत समाज, हैदराबाद-सिकन्दराबाद)
शंकरलाल मानगिया (उपाध्यक्ष : कुमावत समाज, हैदराबाद-सिकन्दराबाद)
सोहनलाल मानगिया (संस्कार : कुमावत समाज, कीसरा)
पण्णुराम वाकरेचा (अध्यक्ष : कुमावत समाज, कीसरा)
जगदीश गेहवाल, पासमल कोतिला, रूपाराम मालीवाड़, ओमप्रकाश चान्दोरा, ओमप्रकाश पियावत, मोहनलाल दुबलदिया, चम्पालाल वाकरेचा, कालुम, तेजाराम ईटाड़ा, भचनाराम रेणवाल, कैवलचन्द, प्रकाश मानगिया, रामलाल ईटाड़ा, तेजाराम दुबलदिया, रमेश लाना, मोहनलाल अडगिया, दिनेश मानगिया, मलाराम चान्दोरा, जयप्रकाश चान्दोरा एवं समस्त कुमावत समाज, कीसरा कार्यकारी